



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

No. 55]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2007/पौष 29, 1928

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2007/PAUSA 29, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2007

का.आ. 57(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1213(अ), तारीख 28 जुलाई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 28 जुलाई, 2006, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के मदुराई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 409.000 कि.मी. से 427.000 कि.मी. (बंगलौर-सैलम-मदुराई सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 20 सितम्बर, 2006 को "दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "दिनांथाथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

(1)

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 409.000 कि मी से 427.000 कि मी (बंगलौर - सेलम-मदुरई सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | भुस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों की नाम |
|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | मदुरै | 1)वादीपट्टी | 1)नागरी | 18/2ए | निजी | शुष्क | 4000 | जसवन्त बाबु पुत्र पीएपीके अलगास्वामी |
| | | | | 19/5 | निजी | नम | 6 | 1. कुलाम मोदीनकान घोरी सायबू पुत्र मथिनाबीवी 2. स्वर्गीय महबुबशा सायबू के पुत्र गब्बरखान घोरी 3. युरुबखान 4. मथुमालि 5. अमिरान 6. बाबुन 7. अभीरबीवी 8. बूदन बीवी 9. कथार बीवी 10. पप्पामल 11. पियारी |
| | | | | 20/2 | निजी | शुष्क | 900 | जसवन्त बाबु पुत्र पीएपीके अलगास्वामी |
| | | | | 55/1ए | निजी | नम | 200 | काजालक्ष्मी पत्नी एम. चन्द्रशेखरन |
| | | | | 55/2ए | निजी | नम | 130 | बालाजी फेरोज इंडस्ट्रीज डायरेक्टर कृष्णन |
| | | | | 55/3ए | निजी | नम | 100 | जे गिरीडा सुदासिनी पत्नी डेविड प्रतापसिंह |
| | | | | 55/4ए | निजी | नम | 67 | जे गिरीडा सुदासिनी पत्नी डेविड प्रतापसिंह |
| | | | | 55/5ए1 | निजी | नम | 50 | पनीरसेल्वम पुत्र मुनियानदी नादर |
| | | | | 55/5ए2 | निजी | नम | 200 | 1. शिवापकियम पत्नी (स्वर्गीय) मुनियानदी 2. (स्वर्गीय) मुनियानदी के पुत्र पनीरसेल्वम 3. कृष्णन 4. मादासामी 5. चन्द्रशेखरन |
| | | | | 57/6 | निजी | नम | 165 | शिमफ्रा फ्रोजन फुडस प्रा. लि. डायरेक्टर फ्रान्सिस जे पालान |
| | | | | 57/7 | निजी | नम | 150 | शिमफ्रा फ्रोजन फुडस प्रा. लि. डायरेक्टर फ्रान्सिस जे पालान |
| | | | | 57/8ए1 | निजी | नम | 800 | नागरी फेन्नर कनवेयर बेल्लिंग प्रा. लि. डायरेक्टर टी. जी. मोहनराम |
| | | | | 57/8ए2 | निजी | नम | 100 | नागरी फेन्नर कनवेयर बेल्लिंग प्रा. लि. डायरेक्टर टी. जी. मोहनराम |
| | | | | 57/9ए | निजी | नम | 300 | फेन्नर कनवेयर बेल्लिंग प्रा. लि. डायरेक्टर आर. विलकिन्सन |
| | | | | 57/10ए | निजी | नम | 250 | फेन्नर कनवेयर बेल्लिंग प्रा. लि. डायरेक्टर आर. विलकिन्सन |
| | | | | 63/1 | निजी | नम | 700 | ईसान पुत्र कामराज |
| | | | | 63/2ए | निजी | नम | 350 | ईसान पुत्र कामराज |
| | | | | 63/2सी | निजी | नम | 115 | ईसान पुत्र कामराज |
| | | | | 63/3बी | निजी | नम | 161 | युनिक बेल्लिंग प्रा. लि. गारडियन आर राजासुधाकरन (वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----------|------|-------|------|--|
| | | | | 63/3सी | निजी | नम | 290 | युनिक बेल्टिंग प्रा. लि. गारडियन आर राजासुधाकरन (वर्तमान मेनेजिंग डायरेक्टर) |
| | | | | 63/3डी | निजी | नम | 67 | युनिक बेल्टिंग प्रा. लि. गारडियन आर राजासुधाकरन (वर्तमान मेनेजिंग डायरेक्टर) |
| | | | | 63/6 | निजी | नम | 9 | जेयशेखरन पुत्र कासीरामन चेट्टियार |
| | | | | 64/3ए | निजी | नम | 1200 | ईसान पुत्र कामराज |
| | | | | 68/1ए | निजी | नम | 1150 | 1. सोरनाम पत्नी अरुमुगमपिल्लै 2. अरुमुगमपिल्लै के पुत्र मुरुगेसन 3. सुब्रामनि 4. चिन्नापोन्नु अम्मल पत्नी मनीवेल 5. रेबेका नवामनी पत्नी प्रभाकर नवामनी |
| | | | | 69/1ए1ए | निजी | नम | 475 | शनमुगेशवरी पत्नी आन्नदकृष्णन |
| | | | | 69/1ए1बी | निजी | नम | 1650 | आन्नदकृष्णन पुत्र रामासामीनादर |
| | | | | 69/1ए2 | निजी | नम | 700 | एस. राजेन्द्रन पुत्र सानगुनादर |
| | | | | 68/3ए | निजी | नम | 667 | रेबेका नवामनी पत्नी प्रभाकर नवामनी |
| | | | | 70/1 | निजी | शुष्क | 1600 | शनमुगेशवरी पत्नी आन्नदकृष्णन |
| | | | | 73/1ए | निजी | शुष्क | 400 | मुरुगेसन पुत्र अरुमुगमपिल्लै |
| | | | | 73/1बी1बी | निजी | शुष्क | 150 | शक्ति पत्नी अलानगी |
| | | | | 73/3 | निजी | शुष्क | 2150 | जसवन्त बाबु पुत्र पीपीके अलगरसामी |
| | | | | 74/1 | निजी | शुष्क | 264 | जसवन्त बाबु पुत्र पीपीके अलगरसामी |
| | | | | 74/2 | निजी | शुष्क | 600 | अलीन पुत्र ए. सी. कामराज |
| | | | | 75/1 | निजी | नम | 300 | 1. अबुदलकाथर पुत्र अबुदल मुथालिफ 2. जोकारबीवी पत्नी अबुदलकाथर |
| | | | | 75/2बी1 | निजी | नम | 300 | सेथुलक्ष्मीयम्मल पत्नी कृष्णासामीपिल्लै |
| | | | | 75/2बी2ए | निजी | नम | 250 | सुधाकर पुत्र कृष्णासामी |
| | | | | 75/2बी3 | निजी | नम | 150 | हुडसन एग्री प्रोडक्टस लि. मेनेजिंग डायरेक्टर आर. जी. चन्द्रमोहन, |
| | | | | 75/3 | निजी | नम | 100 | हुडसन एग्री प्रोडक्टस लि. मेनेजिंग डायरेक्टर आर. जी. चन्द्रमोहन, |
| | | | | 76/1बी | निजी | नम | 200 | हुडसन एग्री प्रोडक्टस लि. मेनेजिंग डायरेक्टर आर. जी. चन्द्रमोहन, |
| | | | | 76/2बी | निजी | नम | 50 | हुडसन एग्री प्रोडक्टस लि. मेनेजिंग डायरेक्टर आर. जी. चन्द्रमोहन, |
| | | | | 76/4ए2 | निजी | नम | 238 | एम.एम.डी टक. कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., डायरेक्टर टीएमटी. ए. बी. एस. सवित्रीयम्मल |
| | | | | 77/1बी | निजी | नम | 200 | मैसर्स अन्नामलाईस ऐजेंसीस मैदुरई पार्टनर पी. के. दुरईसामी पुत्र पी. के. कृष्णासामी गांउडर |
| | | | | 77/2बी | निजी | नम | 50 | मैसर्स अन्नामलाईस ऐजेंसीस मैदुरई पार्टनर पी. के. दुरईसामी पुत्र पी. के. कृष्णासामी गांउडर |
| | | | | 78/1ए2 | निजी | नम | 5 | गजनी महोम्मद पुत्र शमसुदीन |
| | | | | 78/1बी3 | निजी | नम | 100 | मैसर्स फोम विष्णु प्रा. लि. डायरेक्टर एम. पनीरसेलवम |
| | | | | 78/1सी2ए | निजी | नम | 100 | धंगाराज पुत्र गोविन्दासामी |
| | | | | 78/1सी2बी | निजी | नम | 27 | 1. मुनियांदी पुत्र पैनियानादर 2. पनीरसेलवम पुत्र मुनियांदी 3. सरमीला पत्नी एम कृष्णन 4. सुगनथदेवी पत्नी माधासामी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|--------------|-----------|------|-------|------|--|
| | | | | 78/2बी | निजी | नम | 314 | पनीरसेलवम पुत्र मुनियादी |
| | | | | 78/3बी1बी | निजी | नम | 86 | नवनिथन पुत्र मुथुरेडियर |
| | | | | 78/4 | निजी | नम | 110 | नवनिथन पुत्र मुथुरेडियर |
| | | | | 78/3बी1ए | निजी | नम | 680 | 1. शक्तिवाधिवेल पुत्र नाटराजापिल्लै 2. राजेशवरीयम्मल पत्नी नाटराजापिल्लै |
| | | | | 78/3बी2 | निजी | नम | 77 | जे.टी. फब्रिक्स प्रा. लि. डायरेक्टर मनोज आर. शाह |
| | | | | 78/3बी3 | निजी | नम | 450 | राजेशवरीयम्मल पत्नी नाटराजापिल्लै |
| | | | | 78/1बी1 | निजी | नम | 450 | राजेशवरीयम्मल पत्नी नाटराजापिल्लै |
| | | | 2) थायमपट्टी | 19/1बी | निजी | शुष्क | 4830 | कानन पुत्र सुबारेडियर |
| | | | | 19/2ए | निजी | शुष्क | 9108 | 1. मुथाईय थेवर के पुत्र कुरुपाईय 2. विलाईचामी 3. रामासामी 4. पुष्पावल्ली पत्नी नटराजन 5. नटराजन पुत्री सुबालक्ष्मी 6. सुबापरिया |
| | | | | 19/2सी | निजी | शुष्क | 545 | मालईचामी पुत्र रामासामी थेवर |
| | | | | 19/3 | निजी | शुष्क | 1020 | 1. मुथाईय थेवर के पुत्र कुरुपाईय 2. विलाईचामी 3. रामासामी 4. पुष्पावल्ली पत्नी नटराजन 5. नटराजन पुत्री सुबालक्ष्मी 6. सुबापरिया |
| | | | | 23/1 | निजी | शुष्क | 16 | 1. सरस्वती पत्नी संगयया थेवर 2. संगयया थेवर पुत्री शान्ति 3. ललीता देवी 4. परधा देवी 5. शान्तिया देवी 6. संगयया थेवर के पुत्र पालमुरुगन 7. अयानार @ सतिशकुमार |
| | | | | 23/2ए | निजी | शुष्क | 161 | रामासामी थेवर पुत्र कुरुपासामी थेवर |
| | | | | 23/2बी | निजी | शुष्क | 270 | मुक्कामल पत्नी वेलचामी थेवर |
| | | | | 24/1 | निजी | शुष्क | 3700 | 1. सरस्वती पत्नी संगयया थेवर 2. संगयया थेवर पुत्री शान्ति 3. ललीता देवी 4. परधा देवी 5. शान्तिया देवी 6. संगयया थेवर के पुत्र पालमुरुगन 7. अयानार @ सतिशकुमार |
| | | | | 24/2ए | निजी | शुष्क | 3831 | मुक्कामल पत्नी वेलचामी थेवर |
| | | | | 26/1 | निजी | शुष्क | 408 | शान्ति पत्नी शानगरालिगम |
| | | | | 26/3ए1 | निजी | शुष्क | 2093 | 1. सिन्नाईमल पत्नी रामासामी थेवर 2. मुथईय थेवर के पुत्र कारुपिया 3. विलीईचामी 4. रामासामी 5. पुष्पावली पत्नी नटराजन 6. नटराजन पुत्री सुबालक्ष्मी 7. सुबापरिया 8. रामासामी थेवर के पुत्र थिरुदेट्टी थेवर 9. मलाईचामी थेवर |

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|-------|---------|--|
| | | | | 26/3ए3 | निजी | शुष्क | 84 | मलाईचामी थेवर पुत्र रामासामी थेवर |
| | | | | 29/1 | निजी | शुष्क | 909 | नटेशन पुत्र रामाकृष्णन् |
| | | | | 29/2 | निजी | शुष्क | 796 | 1. पनियन् अम्बालम् के पुत्र राजेद्रन् 2. कृष्णन् 3. धन्नापांडी |
| | | | | 32/1 | निजी | शुष्क | 3043 | सेलवम पुत्र कृष्णरेडियर |
| | | | | 32/2 | निजी | शुष्क | 3800 | गोविन्दराज पुत्र कृष्णन् |
| | | | | 33/6 | निजी | शुष्क | 448 | सेलवम पुत्र कृष्णरेडियर |
| | | | | 33/7ए | निजी | शुष्क | 1409 | राजी पत्नी रामकुमार |
| | | | | 33/7सी | निजी | शुष्क | 33 6 | 1. ईलामल पत्नी जगननाथन् 2. जगननाथन् के पुत्र वसांतराज 3. निलावजगन 4. राजी पत्नी रामकुमार |
| | | | | 33/8ए | निजी | शुष्क | 50 | राजी पत्नी रामकुमार |
| | | | | 33/8बी | निजी | शुष्क | 1094 | 1. ईलामल पत्नी जगननाथन् 2. जगननाथन् के पुत्र वसांतराज 3. निलावजगन |
| | | | | 35/3बी1 | निजी | शुष्क | 361 | 1. पराट्टाईपिल्लै के पुत्र रामाकृष्णन् 2. मुथुकृष्णन् |
| | | | | 35/3बी2 | निजी | शुष्क | 550 | कालारानी पत्नी कारुथकानन |
| | | | | 52/1 | निजी | शुष्क | 3408 | 1. ईलामल पत्नी जगननाथन् 2. जगननाथन् के पुत्र वसांतराज 3. निलावजगन |
| | | | | 52/4 | निजी | शुष्क | 340 | पेनगारुरेडियर के पुत्र कानापिरन 2. वेक्टेसन |
| | | | | 53/1ए | निजी | शुष्क | 50 | रैगासामी पुत्र कुमार रेडियर |
| | | | | 53/1बी | निजी | शुष्क | 3909 | रैगासामी पुत्र कुमार रेडियर |
| | | | | 53/2ए | निजी | शुष्क | 1080 | रैगासामी पुत्र कुमार रेडियर |
| | | | | 53/2बी | निजी | शुष्क | 1116 | 1. पाप्पु रेडियर के पुत्र रैगासामी 2. भुपति |
| | | | | 53/3 | निजी | शुष्क | 42 | 1. पाप्पु रेडियर के पुत्र रैगासामी 2. भुपति |
| | | | | 54/1ए | निजी | शुष्क | 63 | नवनिथाकृष्णन् पुत्र रामासामी रेडियर |
| | | | | 54/1बी | निजी | शुष्क | 1727 | 1. रामासामी नायडु के पुत्र थिरुपति 2. गुरुसामी 3. जानकीयम्मल पत्नी रामासामी नायडु |
| | | | | 54/1डी1 | निजी | शुष्क | 1780 | 1. लोगमाता पत्नी देशबन्धु 2. देशबन्धु के पुत्र साकारावति 3. मगुडपति |
| | | | | 54/2 | निजी | शुष्क | 1088 | 1. लोगमाता पत्नी देशबन्धु 2. देशबन्धु के पुत्र साकारावति 3. मगुडपति |
| | | | | 58/2 | निजी | शुष्क | 637 | 1. लोगमाता पत्नी देशबन्धु 2. देशबन्धु के पुत्र साकारावति 3. मगुडपति |
| | | | | 60/1ए | निजी | शुष्क | 15 | 1. ईलानगोवन पुत्र गोविन्दारेडियर 2. वैक्टासामी पुत्र गोविन्दारेडियर 3. राजामल पत्नी रामासामी |
| | | | | 60/1बी | निजी | शुष्क | 502 | जी. रामासामी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|------|-------|------|---|
| | | | | 60/2ए | निजी | शुष्क | 198 | 1. ईलानगोवन पुत्र गोबिन्दरेडियर 2. वैक्टासामी पुत्र गोबिन्दरेडियर 3. राजामल पत्नी रामासामी |
| | | | | 60/2सी | निजी | शुष्क | 1899 | जानकी पत्नी गोपाल |
| | | | | 60/3ए | निजी | शुष्क | 273 | जी. रामासामी |
| | | | | 60/3बी | निजी | शुष्क | 1997 | 1. गोबिन्दरेडियर के पुत्र वैक्किडासामी रेडियर 2. रामासामी रेडियर 3. गोपाल @ ईलागोवन |
| | | | | 60/4 | निजी | शुष्क | 1682 | 1. चिन्नामल पत्नी स्वर्गिय मनी 2. मनी के पुत्र विलाईयन 3. अन्धाईअप्पन 4. मनी पुत्री वल्ली 5. भुंगोथाई 6. शान्ति |
| | | | | 60/5ए | निजी | शुष्क | 345 | बेबी गिरीजा पत्नी राजशेखरन् |
| | | | | 60/5बी | निजी | शुष्क | 1856 | जानकी पत्नी गोपाल |
| | | | | 60/6 | निजी | शुष्क | 1063 | 1. राजु पुत्र गुरुसामी 2. जयरामन पुत्र गुरुसामी |
| | | | | 60/7 | निजी | शुष्क | 1994 | 1. राजु पुत्र गुरुसामी 2. जयरामन पुत्र गुरुसामी |
| | | | | 61 | निजी | शुष्क | 3209 | 1. ईलानगोवन पुत्र गोबिन्दरेडियर 2. वैक्टासामी पुत्र गोबिन्दरेडियर 3. राजामल पत्नी रामासामी |
| | | | | 62/1 | निजी | शुष्क | 2028 | 1. ईलानगोवन पुत्र गोबिन्दरेडियर 2. वैक्टासामी पुत्र गोबिन्दरेडियर 3. राजामल पत्नी रामासामी |
| | | | | 63/2ए | निजी | शुष्क | 1013 | 1. ईलानगोवन पुत्र गोबिन्दरेडियर 2. वैक्टासामी पुत्र गोबिन्दरेडियर 3. राजामल पत्नी रामासामी |
| | | | | 64/2ए | निजी | शुष्क | 1599 | 1. आर. राधाकृष्णन पुत्र रामासामी रेडियर 2. आर. पापाईयन पुत्र रामासामी रेडियर |
| | | | | 64/2बी | निजी | शुष्क | 621 | 1. पाप्पु रेडियर पुत्र मुथुरेडियर 2. गोपालकृष्णन पुत्र मुथुरेडियर |
| | | | | 64/4 | निजी | शुष्क | 116 | 1. पाप्पु रेडियर पुत्र मुथुरेडियर 2. गोपालकृष्णन पुत्र मुथुरेडियर |
| | | | | 66/1 | निजी | शुष्क | 4480 | 1. राजामल पत्नी पोटास्मारेडियर 2. पोटास्मारेडियर पुत्री वशन्ता 3. परीमाला |
| | | | | 66/2 | निजी | शुष्क | 2245 | 1. दुरईसामीरेडियर पुत्र कुमाररेडियर 2. सुमथि पत्नी कानन |
| | | | | 66/3ए | निजी | शुष्क | 1057 | 1. नटराजन पुत्र अयादुराई असासी 2. सुन्दरवैली @ राजामल पत्नी नटराजन |
| | | | | 66/3बी | निजी | शुष्क | 110 | 1. चिलाईमल पत्नी मुथाईय असासी 2. मुथाईय असासी पुत्री वेली 3. तमिलचलवी 4. मुथाई असासी के पुत्र पांडी 5. नागराज मनीकम |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|-------|------|---|
| | | | | 66/5ए | निजी | शुष्क | 273 | 1. नटराजन पुत्र अयादुराई असासी 2. सुन्दरवैली ॐ राजामल पत्नी नटराजन |
| | | | | 66/5बी | निजी | शुष्क | 84 | 1. विलाईमल पत्नी मुथाईय असासी 2. मुथाईय असासी पुत्री वेली 3. तमिलचलवी 4. मुथाई असासी के पुत्र पांडी 5. नागराज घनीकम |
| | | | | 68/1ए | निजी | शुष्क | 1339 | 1. जयरामन पुत्र कुमारेडियर 2. राजागोपाल पुत्र कुमारेडियर |
| | | | | 69/1ए | निजी | शुष्क | 194 | रंगासामी पुत्र कुमारेडियर |
| | | | | | | | 3543 | |
| | | | | 69/1बी | निजी | शुष्क | 7851 | अधिलक्ष्मीयमल पत्नी कुमारेडियर |
| | | | | 69/3 | निजी | शुष्क | 52 | राजेशवरी पत्नी जानकाराजन |
| | | | | 69/4ए | निजी | शुष्क | 71 | रंगासामी पुत्र कुमारेडियर |
| | | | | 70/2 | निजी | शुष्क | 2900 | 1. रामासामी पुत्र करंतामलई 2. गुरुविजय पत्नी विलाईचमी |
| | | | | 70/1ए | निजी | शुष्क | 100 | 1. शिवासुब्रामणियन के पुत्र वैक्टाचलम् 2. अलागसन |
| | | | | 70/1बी | निजी | शुष्क | 202 | 1. शिवासुब्रामणियन के पुत्र वैक्टाचलम् 2. अलागसन |
| | | | | 71/1 | निजी | शुष्क | 26 | 1. शिवासुब्रामणियन पुत्र वैक्टाचलम् 2. अलागसन |
| | | | | 71/2 | निजी | शुष्क | 92 | 1. शिवासुब्रामणियन के पुत्र वैक्टाचलम् 2. अलागसन |
| | | | | 71/3 | निजी | शुष्क | 712 | 1. मुरुगसन असासी पुत्र वेलाईचमी असासी 1. वैक्टाजलापति मुडालीयर के पुत्र शिवासुब्रामणियन 2. अनबालामर्ष |
| | | | | 72/2सी | निजी | शुष्क | 11 | सुबारेडियर पुत्र पलचमी रेडियर |
| | | | | 96/2 | निजी | शुष्क | 125 | थिरुमलीवासन पुत्र गोबिन्दारेडियर |
| | | | | 96/3 | निजी | शुष्क | 3613 | 1. कुमार रेडियर के पुत्र सी के रंगासामी रेडियर 2. दुर्ईसामी रेडियर |
| | | | | 96/4ए | निजी | शुष्क | 2124 | गोपीनाथ पुत्र सीनिवासन |
| | | | | 96/4बी | निजी | शुष्क | 970 | नवमनी पत्नी रामानुजम |
| | | | | 116/2 | निजी | नम | 12 | गांधी पुत्र चिन्नाथम्बी रेडियर |
| | | | | 117/1 | निजी | नम | 5367 | गोबिनदासामी पुत्र मिनाची रेडियर |
| | | | | 117/2ए | निजी | शुष्क | 340 | गोबिनदासामी पुत्र मिनाची रेडियर |
| | | | | 117/2बी | निजी | शुष्क | 228 | 1. कान्तासामी के पुत्र धर्मराज 2. कानन 3. पुत्री मलीगा |
| | | | | 117/3 | निजी | शुष्क | 33 | 1. कान्तासामी के पुत्र धर्मराज 2. कानन 3. पुत्री मलीगा |
| | | | | 117/4 | निजी | नम | 3318 | नरायणसामी पुत्र गाबिन्दारेडियर |
| | | | | 119/1 | निजी | नम | 36 | नरायणसामी पुत्र गाबिन्दारेडियर |
| | | | | 119/2 | निजी | नम | 891 | 1. आर. राधाकृष्णन पुत्र रामासामी रेडियर 2. आर. पापाईयन पुत्र रामासामी रेडियर |
| | | | | 119/3 | निजी | नम | 968 | 1. आर. राधाकृष्णन पुत्र रामासामी रेडियर 2. आर. पापाईयन पुत्र रामासामी रेडियर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|----|------|---|
| | | | | 119/6 | निजी | नम | 1474 | 1. आर. राधाकृष्णन पुत्र रामासामी रेडियर 2. आर पापईयन पुत्र रामासामी रेडियर |
| | | | | 119/8 | निजी | नम | 2288 | गांधी पुत्र चिन्नाथम्मी रेडियर |
| | | | | 122 | निजी | नम | 2692 | गांधी पुत्र चिन्नाथम्मी रेडियर |
| | | | | 123/1 | निजी | नम | 1027 | रेगासामी पुत्र कुमाररेडियर |
| | | | | 123/2 | निजी | नम | 881 | रेगासामी पुत्र कुमाररेडियर |
| | | | | 123/3 | निजी | नम | 335 | धनलक्ष्मी पत्नी रेगासामी रेडियर |
| | | | | 123/4 | निजी | नम | 9 | रेगासामी पुत्र कुमाररेडियर |
| | | | | 124/1 | निजी | नम | 2785 | रेगासामी पुत्र कुमाररेडियर |
| | | | | 124/2 | निजी | नम | 1 | रेगासामी पुत्र कुमाररेडियर |
| | | | | 125/1 | निजी | नम | 4711 | रेगासामी पुत्र कुमाररेडियर |
| | | | | 125/2 | निजी | नम | 289 | 1. गुरुसामी रेडियर के पुत्र वी. जी. गोविन्दाराज 2. रामानाथन 3. गुरुसामी रेडियर पुत्री अलमेलु 4. गोविन्दामल 5. रेनुकादेवी पत्नी वी. जी वेकडीसामी 6. वेकडीसामी के पुत्र वी सुरेश 7. वी रमेश 8 अलमेलु @ मंगीयाकरासी |
| | | | | 125/3 | निजी | नम | 1000 | 1. गुरुसामी रेडियर के पुत्र वी. जी. गोविन्दाराज 2. रामानाथन 3. गुरुसामी रेडियर पुत्री अलमेलु 4. गोविन्दामल 5. रेनुकादेवी पत्नी वी. जी वेकडीसामी 6. वेकडीसामी के पुत्र वी सुरेश 7. वी रमेश 8 अलमेलु @ मंगीयाकरासी |
| | | | | 125/4 | निजी | नम | 1962 | विजयरेनगानाथन पुत्र रामासामी रेडियर |
| | | | | 126/7 | निजी | नम | 140 | 1. विजयरेनगानाथन पुत्र रामासामी रेडियर 2. सी. के रेनगासामी पुत्र कुमार रेडियर 3. अन्नालक्ष्मी पत्नी विजयरेनगानाथन |
| | | | | 126/9 | निजी | नम | 132 | 1. विजयरेनगानाथन पुत्र रामासामी रेडियर 2. सी. के रेनगासामी पुत्र कुमार रेडियर 3. अन्नालक्ष्मी पत्नी विजयरेनगानाथन |
| | | | | 127/1ए | निजी | नम | 1774 | सीथारामन पुत्र विरुलगुरेडियर |
| | | | | 127/1बी | निजी | नम | 331 | 1. विकिडासामी रेडियर के पुत्र सेथुरमन 2. रामाचन्द्रन 3. थिरुपति |
| | | | | 127/3 | निजी | नम | 1272 | अलगास्सामी पुत्र शनगारलिंगम रेडियर |
| | | | | 128/2बी | निजी | नम | 747 | 1. विकिडासामी रेडियर के पुत्र सेथुरमन 2. रामाचन्द्रन 3. थिरुपति |
| | | | | 128/3 | निजी | नम | 700 | 1. धनालक्ष्मी पत्नी रेनगासामी रेडियर 2. रेनगासामी रेडियर के पुत्र कुमार 3. पालरमन 4. रेनगासामी रेडियर पुत्री कालावति 5. कालाचिलवी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|-------|------|---|
| | | | | 128/4 | निजी | नम | 700 | विजयरेनगानाथन पुत्र रामासामी रेडियर |
| | | | | 128/5डी | निजी | नम | 1622 | आर.पापाईयन पुत्र रेनगासामी रेडियर |
| | | | | 195/2ए | निजी | शुष्क | 122 | ई. मुरली पुत्र ईलामरेडियर |
| | | | | 195/2बी | निजी | शुष्क | 1375 | सुबालक्ष्मी पत्नी मुथुरेडियर |
| | | | | 196/4 | निजी | नम | 3005 | ई. सिंगमरेडडी पुत्र ईलामरेडियर |
| | | | | 197/1 | निजी | शुष्क | 2894 | 1. पाप्पु रेडियर पुत्र मुथुरेडियर 2. गोपालाकृष्णन् पुत्र मुथुरेडियर |
| | | | | 197/2 | निजी | शुष्क | 2457 | 1. पाप्पु रेडियर पुत्र मुथुरेडियर 2. गोपालाकृष्णन् पुत्र मुथुरेडियर |
| | | | | 197/3 | निजी | शुष्क | 350 | पालचामी रेडियर पुत्र मुथुरेडियर |
| | | | | 198/2 | निजी | शुष्क | 842 | रामाचन्द्रन पुत्र वेनिकिडासामी रेडियर |
| | | | | 198/3 | निजी | शुष्क | 4443 | दुरईराज पुत्र वेनिकिडासामी रेडियर |
| | | | | 198/4 | निजी | शुष्क | 6063 | पाप्पु रेडडी पुत्र वेनिकिडासामी रेडियर |
| | | | | 199/5 | निजी | शुष्क | 3625 | केरुपिया पुत्र रामासामी सरवी |
| | | | | 200 | निजी | शुष्क | 7700 | 1. राजु @ रामासामी रेडियर पुत्र रामासामी रेडियर 2. लक्ष्मीयामल पत्नी रामासामी 3. पनिर सेलवम पुत्र रामासामी |
| | | | | 201/1 | निजी | शुष्क | 975 | कारुपईया पुत्र रामासामी सरवाई |
| | | | | 201/7ए | निजी | शुष्क | 4262 | 1. राजु @ रामासामी रेडियर पुत्र रामासामी रेडियर 2. लक्ष्मीयामल पत्नी रामासामी 3. पनिर सेलवम पुत्र रामासामी |
| | | | | 202/3 | निजी | शुष्क | 500 | कारुपईया पुत्र रामासामी सरवाई |
| | | | | 202/5ए | निजी | नम | 278 | कारुपईया पुत्र रामासामी सरवाई |
| | | | | 203 | निजी | नम | 2750 | 1. शिवासुब्राह्मणियन के पुत्र शिवाबालन 2. दुरईमुथि 3. वैकंटाचलम 4. अलगेसन |
| | | | | 213 | निजी | नम | 3985 | शक्करावैथी पुत्र देशबन्धु |
| | | | | 214/1 | निजी | नम | 1569 | 1. लोगमाता पत्नी देशबन्धु 2. देशबन्धु के पुत्र शक्करावैथी 3. मगुडपति |
| | | | | 214/2 | निजी | नम | 6111 | 1. लोगमाता पत्नी देशबन्धु 2. देशबन्धु के पुत्र शक्करावैथी 3. मगुडपति |
| | | | | 216/1 | निजी | नम | 110 | रवि पुत्र गुरुसामी रेडियर |
| | | | | 217/1 | निजी | नम | 1233 | रवि पुत्र गुरुसामी रेडियर |
| | | | | 218/4 | निजी | नम | 12 | 1. घनालक्ष्मी पत्नी रेनगासामी रेडियर 2. रेनगासामी रेडियर के पुत्र कुमार 3. पालरमन 4. रेनगासामी रेडियर पुत्री कालावति 5. कालाचिलवी |
| | | | | 219/1 | निजी | नम | 1080 | विजयरेनगानाथन पुत्र रामासामी रेडियर |
| | | | | 219/3 | निजी | नम | 1018 | 1. घनालक्ष्मी पत्नी रेनगासामी रेडियर 2. रेनगासामी रेडियर के पुत्र कुमार 3. पालरमन 4. रेनगासामी रेडियर पुत्री कालावति 5. कालाचिलवी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------------|---|---------|------|-------|------|---|
| | | | | 238/2बी | निजी | नम | 276 | ददिवानयगम पुत्र थयुमन मुथाईलियर |
| | | | | 238/4बी | निजी | शुष्क | 950 | कारुपईया सरवाई पुत्र रामासामी सरवाई |
| | | 3)थानिचियम | | 54/2 | निजी | शुष्क | 209 | ज्योतिराजन पुत्र मुथुराज सरवाई |
| | | | | 54/6ए | निजी | शुष्क | 180 | 1. जयसुन्दरी पत्नी आर कृष्णन |
| | | | | | | | | 2. शरवणकुमार पुत्र आर कृष्णन |
| | | | | 54/7ए1 | निजी | शुष्क | 46 | पलाथुरासु पुत्र कारुपाई सरवाई |
| | | | | 54/7ए2 | निजी | शुष्क | 39 | गणेशन पुत्र चन्दरशेखरन |
| | | | | 54/7ए3 | निजी | शुष्क | 128 | सेलवम पुत्र चन्दरशेखरन |
| | | | | 54/7ए4 | निजी | शुष्क | 1 | 1. दुरईसामी सरवाई के पुत्र रामई |
| | | | | | | | | 2. कृष्णामूर्ति |
| | | | | | | | | 3. मेरीचिलापडियन पुत्र पोनराम |
| | | | | | | | | 4. गणेशन पुत्र शिवाथई |
| | | | | 54/7सी | निजी | शुष्क | 250 | 1. दुरईसामी सरवाई के पुत्र रामई |
| | | | | | | | | 2. कृष्णामूर्ति |
| | | | | | | | | 3. मेरीचिलापडियन पुत्र पोनराम |
| | | | | | | | | 4. गणेशन पुत्र शिवाथई |
| | | | | 54/17 | निजी | शुष्क | 13 | आरुमुगम पुत्र कुरुपिया सरवाई |
| | | | | 55/1 | निजी | शुष्क | 680 | कुरुपिया गांउडर पुत्र शिवासीमलाई गांउडर |
| | | | | 55/2 | निजी | शुष्क | 1170 | कै. मुथुवामी पुत्र कुरुपयानागांउडर |
| | | | | 55/3 | निजी | शुष्क | 636 | कृष्णन पुत्र पुनाई सिरावी |
| | | | | 55/4 | निजी | शुष्क | 390 | 1. रेखापन्न सरवाई के पुत्र राजेन्द्रन |
| | | | | | | | | 2. आरुमुगम |
| | | | | | | | | 3. विलाईचामी |
| | | | | | | | | 4. मोहन |
| | | | | 58/1ए | निजी | शुष्क | 42 | 1. तमिलसेलवी पत्नी सेलवाराज |
| | | | | | | | | 2. जयकुमार पुत्र सेलवाराज |
| | | | | | | | | 3. रानी पत्नी नागराजन |
| | | | | | | | | 4. सुन्दरराजन पुत्र कुरुपयान्नपिल्लै |
| | | | | 58/1बी | निजी | शुष्क | 219 | 1. मुथुकरुणा गांउडर के पुत्र मुथुचामी @ पनईयुरन |
| | | | | | | | | 2. राजेन्द्रन |
| | | | | 58/2 | निजी | शुष्क | 558 | 1. अयनार पुत्र वेलाईयागांउडर |
| | | | | | | | 620 | 2. अजु पुत्र कानन |
| | | | | | | | | 3. अयवु के पुत्र देवादोस |
| | | | | | | | | 4. महेन्द्रन |
| | | | | | | | | 5. थानगम |
| | | | | | | | | 6. सबारीमलाई |
| | | | | 58/3 | निजी | शुष्क | 519 | पलानिचामी पुत्र चिनुगांउडर |
| | | | | 63/1ए1 | निजी | शुष्क | 406 | रामासामी पुत्र सुबारडियर |
| | | | | 63/1ए2 | निजी | शुष्क | 211 | दयालान @ रेनगाप्पारेडियर पुत्र चिन्नामा रेडियर |
| | | | | 63/2ए | निजी | शुष्क | 123 | मनीकानडन पुत्र सोमासुन्दन |
| | | | | 63/3ए | निजी | शुष्क | 206 | राजासुथकरन पुत्र राजागोपाल |
| | | | | 63/4ए1 | निजी | शुष्क | 525 | कारुपईया गांउडर पुत्र शिवासीमलाई गांउडर |
| | | | | 63/5बी | निजी | शुष्क | 450 | थानगाराजन पुत्र कारमेगम |
| | | | | 63/7 | निजी | शुष्क | 930 | थानगाराज पुत्र मनी @ कारमेगम सिरवाई |
| | | | | | | | | 2. शोभना पत्नी सदाशिवम् |
| | | | | 70/1 | निजी | शुष्क | 847 | गोबिनदामल पत्नी मिनाची रेडियर |
| | | | | 70/2 | निजी | शुष्क | 699 | एम. एस. रामासामी पुत्र चिन्नामार रेडियर |
| | | | | 70/3 | निजी | शुष्क | 1039 | रविन्द्रन पुत्र एस रामासामी |
| | | | | 70/5 | निजी | शुष्क | 955 | कानन पुत्र एस रामासामी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|------|-------|------|--|
| | | | | 70/6 | निजी | शुष्क | 76 | रामासानी पुत्र सुबारेडियर |
| | | | | 71/1 | निजी | शुष्क | 165 | 1. जय पत्नी कृष्णन् 2. कृष्णन के पुत्र अजुमुगन 3. मुथुसेलवमकुमार 4. अरुणकुमार गारडियन मदर जया |
| | | | | 71/3 | निजी | शुष्क | 1737 | 1. जय पत्नी कृष्णन् 2. कृष्णन के पुत्र अजुमुगन 3. मुथुसेलवमकुमार 4. अरुणकुमार गारडियन मदर जया |
| | | | | 71/4 | निजी | शुष्क | 2206 | 1. जय पत्नी कृष्णन् 2. कृष्णन के पुत्र अजुमुगन 3. मुथुसेलवमकुमार 4. अरुणकुमार गारडियन मदर जया |
| | | | | 71/5 | निजी | शुष्क | 2029 | 1. जय पत्नी कृष्णन् 2. कृष्णन के पुत्र अजुमुगन 3. मुथुसेलवमकुमार 4. अरुणकुमार गारडियन मदर जया |
| | | | | 72/1ए | निजी | शुष्क | 115 | 1. सिगाईया पुत्र नालथम्मी 2. मुथुकुमारन पुत्र परमासानी |
| | | | | 72/1बी | निजी | शुष्क | 49 | पास्थासास्थी पुत्र अलगारसामी नायडु |
| | | | | 72/1सी | निजी | शुष्क | 20 | पास्थासास्थी पुत्र अलगारसामी नायडु |
| | | | | 81/2 | निजी | शुष्क | 402 | ईबराम पुत्र अप्पादुरई फार सेन्ट. जोसफ डेस्टीटयुट ट्रस्ट |
| | | | | 81/3 | निजी | शुष्क | 270 | ईबराम पुत्र अप्पादुरई फार सेन्ट. जोसफ डेस्टीटयुट ट्रस्ट |
| | | | | 81/4 | निजी | शुष्क | 363 | बालाचन्द्रन पुत्र अंगाननायडु |
| | | | | 82/2 | निजी | शुष्क | 122 | जयचन्द्रन पुत्र ओविरेडियर |
| | | | | 82/3 | निजी | शुष्क | 213 | पदमा पत्नी पी. सेथुराजन |
| | | | | 85/5ए | निजी | शुष्क | 461 | पदमा पत्नी पी. सेथुराजन |
| | | | | 85/5बी | निजी | शुष्क | 212 | पदमा पत्नी पी. सेथुराजन |
| | | | | 86/6ए | निजी | शुष्क | 114 | भारती पत्नी मुथुकारुप्पन |
| | | | | 86/8ए2 | निजी | शुष्क | 115 | पास्थासास्थी पुत्र अलगारसामी नायडु |
| | | | | 86/8ए3 | निजी | शुष्क | 78 | वराधाराजन पुत्र पैरुमल अयर |
| | | | | 86/9ए1 | निजी | शुष्क | 267 | थिरुवेनगादम पुत्र सेशया |
| | | | | 86/9ए2 | निजी | शुष्क | 78 | राघकृष्णन पुत्र मुथुकारुप्पन |
| | | | | 86/10ए | निजी | शुष्क | 175 | 1. पास्थासास्थी नायडु के पुत्र सुबारेगान 2. सुघारसन 3. नारायणराज 4. सुन्दरराज 5. नागराज 6. वेकीटमल पत्नी पास्थासास्थी |
| | | | | 94/1 | निजी | नाथम् | 45 | 1. थिरुवेनगादम अयर के पुत्र सीनिवासन 2. सुन्दरराज 3. गोविन्दराज |
| | | | | 94/3 | निजी | नाथम् | 26 | सुन्दरराजन पुत्र आरुमुगम चित्तियार |
| | | | | 94/5 | निजी | नाथम् | 125 | 1. रेगासामी नायडु के पुत्र सुबाई 2. नारायणन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|-------|------|---|
| | | | | 94/7 | निजी | नाथम् | 60 | 1. सिलवारानी पत्नी सुबाराम 2. सुबाराम पुत्री ईन्दुमति 3. विजयलक्ष्मी 4. विध्या 5. गोपीनाथ पुत्र सुरेन्द्रन |
| | | | | 94/9 | निजी | नाथम् | 14 | सुवालक्ष्मी पत्नी आर के गोविन्दन |
| | | | | 94/12 | निजी | नाथम् | 7 | नागाजक्ष्मी पत्नी गोविन्दन |
| | | | | 94/14 | निजी | नाथम् | 107 | 1. सीनिवासनायडू के पुत्र गोविन्दराज 2. उषियाचन्द्रन 3. मानुमति 4. महेन्द्रन 5. लता 6. शरमिले |
| | | | | 94/15 | निजी | नाथम् | 44 | 1. सीनिवासनायडू के पुत्र गोविन्दराज 2. उषियाचन्द्रन 3. मानुमति 4. महेन्द्रन 5. लता 6. शरमिले |
| | | | | 94/16 | निजी | नाथम् | 70 | गोकिला पत्नी शार गोविन्दराज |
| | | | | 94/17 | निजी | नाथम् | 72 | सुगुमार पुत्र सुन्दराजनायडू |
| | | | | 94/18 | निजी | नाथम् | 160 | सुगुमार पुत्र गोविंदराजसुलु |
| | | | | 94/19 | निजी | नाथम् | 69 | रामाक्ष्मी पुत्र कामाटवीनायडू |
| | | | | 94/20 | निजी | नाथम् | 64 | रेनगासामी नायडू के पुत्र गोविन्दराज 2. विलक्षणनडी |
| | | | | 94/21 | निजी | नाथम् | 30 | 1. इन्दरानी पत्नी नारायणसामी 2. रेनगासामी पत्नी गोपाल |
| | | | | 94/22 | निजी | नाथम् | 29 | वैनकटामल पत्नी पार्थासारथी |
| | | | | 94/23 | निजी | नाथम् | 24 | 1. थिरुवालउवन पुत्र कुमार 2. राजा पुत्र थिरुवालउवन |
| | | | | 96/1 | निजी | शुष्क | 72 | 1. सुन्दरराज नायडू के पुत्र समपथकुमार 2. मोहन |
| | | | | 96/2 | निजी | शुष्क | 2368 | 1. सुन्दरराज नायडू के पुत्र समपथकुमार 2. मोहन |
| | | | | 96/3ए | निजी | शुष्क | 300 | 1. रेनगासामी के पुत्र अलगासामी 2. जगन्नाथनम् 3. बालकृष्णन् 4. रेनगासामी पुत्र अलगासामी 5. अलगासामी पुत्र पलवामी नायडू 6. गोविन्दसामी पुत्र बाडुरेनगन |
| | | | | 96/4 | निजी | शुष्क | 1930 | क. आर के जकर पुत्र के आर कान्गवेल |
| | | | | 96/6 | निजी | शुष्क | 985 | 1. सुन्दरराज नायडू के पुत्र समपथकुमार 2. मोहन |
| | | | | 96/7ए | निजी | शुष्क | 50 | सुवालक्ष्मी पत्नी राधाकृष्णन |
| | | | | 96/8ए | निजी | शुष्क | 50 | 1. एन्थोनीराज पुत्र जेसु 2. सेथुरामन पुत्र सीतारामनायडू |
| | | | | 96/9ए | निजी | शुष्क | 100 | सुवालक्ष्मी पत्नी राधाकृष्णन |
| | | | | 96/10बी | निजी | शुष्क | 100 | गोकिला पत्नी गोविन्दराज |
| | | | | 96/11ए | निजी | शुष्क | 159 | बालाचन्द्रन पुत्र अंगाननायडू |
| | | | | 96/12ए | निजी | शुष्क | 478 | बालाचन्द्रन पुत्र अंगाननायडू |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|---|
| | | | | 98/1 | निजी | शुष्क | 988 | कालीयमल पत्नी पुष्पावनम् |
| | | | | 98/2 | निजी | शुष्क | 1267 | कृष्णसामी नायडु पुत्र विरपन्न नायडु |
| | | | | 98/3 | निजी | शुष्क | 2044 | 1. सुन्दरराज नायडु के पुत्र समपथकुमार 2. मोहन |
| | | | | 99/4 | निजी | शुष्क | 1385 | मीना पत्नी रमेशबाबु |
| | | | | 99/7बी | निजी | शुष्क | 2186 | वी एस पी कानन पुत्र पालचामी |
| | | | | 100/2 | निजी | शुष्क | 1356 | पानडी नादर पुत्र धनदावनादर |
| | | | | 100/3ए | निजी | शुष्क | 2673 | साकरईचामी पुत्र मुरुगाकोनर |
| | | | | 100/3बी | निजी | शुष्क | 2289 | पाल सुबसतिन पुत्र गन्ननाप्रकाशम |
| | | | | 100/4 | निजी | शुष्क | 100 | सुबुलक्ष्मी पत्नी पाकियम |
| | | | | 101/1 | निजी | शुष्क | 1856 | धरानी पत्नी चन्द्रशेखरन् |
| | | | | 101/2 | निजी | शुष्क | 1696 | आर एन पकीरीसामी पुत्र एस आर नटराजन |
| | | | | 102/1बी | निजी | शुष्क | 16 | पानडी नादर पुत्र धनदावनादर |
| | | | | 102/1सी | निजी | शुष्क | 621 | मुथुचामी पुत्र कुरुपाई |
| | | | | 102/2 | निजी | शुष्क | 1735 | शक्तिवेल पुत्र देवराजन |
| | | | | 102/3 | निजी | शुष्क | 1018 | अलगासामी रेडियर पुत्र अलगाप्पा रेडियर |
| | | | | 104/3ए2 | निजी | शुष्क | 718 | कलावती पत्नी पिच्चई |
| | | | | 104/3बी2 | निजी | शुष्क | 393 | मल्लिका पत्नी कानन |
| | | | | 104/4बी | निजी | शुष्क | 49 | 1. धन्नालक्ष्मी पत्नी सुबाराज 2. सुबाराज की पुत्री कास्तीगालक्ष्मी 3. अभीरमी |
| | | | | 104/5 | निजी | शुष्क | 102 | शक्तिवेल पुत्र देवराजन |
| | | | | 104/6बी2 | निजी | शुष्क | 306 | मल्लिका पत्नी कानन |
| | | | | 104/6सी2 | निजी | शुष्क | 428 | मल्लिका पत्नी कानन |
| | | | | 104/6डी2 | निजी | शुष्क | 162 | मल्लिका पत्नी कानन |
| | | | | 116/1बी | निजी | शुष्क | 1457 | के.आर के शंकर पुत्र के आर कनगावेल |
| | | | | 117/1 | निजी | शुष्क | 550 | धरनी पत्नी चन्द्रशेखरन् |
| | | | | 117/2 | निजी | शुष्क | 850 | आर. एन पकीरीसामी पुत्र एस आर नटराजन |
| | | | | 117/3 | निजी | शुष्क | 250 | आर. एन पकीरीसामी पुत्र एस आर नटराजन |
| | | | | 117/5 | निजी | शुष्क | 450 | 1. अमुथन माइनर की पुत्री मेकला 2. अमुथा 3. गारडियन मदर विजया |
| | | | | 118/1ए | निजी | शुष्क | 50 | शकारिचामी पुत्र मुरुगाकोनर |
| | | | | 118/1बी | निजी | शुष्क | 250 | पाल सुबसतिन पुत्र गन्ननाप्रकाशम |
| | | | | 118/2 | निजी | शुष्क | 200 | मीना पत्नी रमेश |
| | | | | 118/4 | निजी | शुष्क | 300 | 1. बालाकृष्णन पुत्र रैमासामी नायडु 2. अलगासामी नायडु पुत्र अनगानन नायडु 3. अलगासामी नायडु पुत्र पालचामी नायडु |
| | | | | 118/5 | निजी | शुष्क | 300 | सुबाराज पुत्र गुरुसामी रेडियर |
| | | | | 118/6 | निजी | शुष्क | 450 | नानगुथायामल @ लक्ष्मीयामल पत्नी अलगासामी |
| | | | | 118/7 | निजी | शुष्क | 700 | 1. अलगासामी नायडु के पुत्र सुन्दरराजन 2. जगतीशन |
| | | | | 118/8ए | निजी | शुष्क | 100 | एन्थोनीराज पुत्र जीसु |
| | | | | 118/8बी | निजी | शुष्क | 50 | सुबानायडु पुत्र कामचिनायडु |
| | | | | 118/9 | निजी | शुष्क | 350 | 1. के पान्डी 2. के. मुथुसामी 3. के मायापेरुमाल 4. सुबालक्ष्मी पत्नी राधाकृष्णन |
| | | | | 118/10 | निजी | शुष्क | 100 | कामची पुत्र कामचिनायडु |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|--|
| | | | | 158/1ए | निजी | शुष्क | 200 | मुथुकृष्णन पुत्र कामचिनायडु |
| | | | | 158/1बी | निजी | शुष्क | 200 | मुथुरेनगन पुत्र कामचिनायडु |
| | | | | 158/1सी | निजी | शुष्क | 22 | 1. कामची नायडु के पुत्र थामबईया |
| | | | | | | | | 2. मुथुकृष्णन |
| | | | | | | | | 3. मुथु सुबारास |
| | | | | | | | | 4. मुथुरेनगन |
| | | | | 158/3 | निजी | शुष्क | 496 | भारती पत्नी मुथुकारुपन्न |
| | | | | 158/4ए | निजी | शुष्क | 250 | एस. एस. सुधा पत्नी मुरली |
| | | | | 158/4बी | निजी | शुष्क | 31 | श्रीकीला पत्नी गोविन्दराज |
| | | | | 158/5 | निजी | शुष्क | 312 | रुधाकृष्णन पुत्र गोविन्दसामी नायडू |
| | | | | 158/7ए1 | निजी | शुष्क | 176 | एस. एस. सुधा पत्नी मुरली |
| | | | | 158/7ए2 | निजी | शुष्क | 213 | 1. सरस्वती पत्नी सान्थानाम |
| | | | | | | | | 2. नागालक्ष्मी पत्नी सोनदरराजन् |
| | | | | 159/2ए | निजी | शुष्क | 547 | सुन्दरराज पुत्र गुरुसामी |
| | | | | 159/2बी | निजी | शुष्क | 607 | गोविन्दामल पत्नी रेनगानायडु |
| | | | | 159/4 | निजी | शुष्क | 1799 | सुन्दरराजन चित्तियार पुत्र आरुमुगम चित्तियार |
| | | | | 159/7 | निजी | शुष्क | 379 | 1. वडुगापट्टी श्री वरदारजा पेरुमाल कोदिल |
| | | | | | | | | कापिल ट्रस्टीस राजागोपाल के पुत्र |
| | | | | | | | | 2. नारायणन |
| | | | | 160/1 | निजी | शुष्क | 1355 | सुन्दरराजन चित्तियार पुत्र अरुमुगम चित्तियार |
| | | | | 172/1 | निजी | शुष्क | 1597 | पदमा पत्नी पी. सेथुराजन |
| | | | | 172/2ए1 | निजी | शुष्क | 1443 | पदमा पत्नी पी. सेथुराजन |
| | | | | 172/2ए2 | निजी | शुष्क | 1489 | मुथीरुलाईमल पत्नी थंगाई सरवाई |
| | | | | 173/1 | निजी | शुष्क | 300 | अगानन @ अकुलुनायडु पुत्र वैकीडुसामी |
| | | | | 173/2 | निजी | शुष्क | 300 | 1. थोरुवेगादम पुत्र सेशया |
| | | | | | | | | 2. अनलक्ष्मी पत्नी सेलापन |
| | | | | 173/3 | निजी | शुष्क | 450 | पारुथासारथी नायडु के पुत्र सुबुरेगन |
| | | | | | | | | 2. सुधारसन्न |
| | | | | | | | | 3. नारायणराज |
| | | | | | | | | 4. सुन्दरराज |
| | | | | | | | | 5. नाराज |
| | | | | | | | | 6. वैकीटामल पत्नी पारुथासारथी |
| | | | | 173/4 | निजी | शुष्क | 350 | पदमा पत्नी सेथुराजन |
| | | | | 173/5 | निजी | शुष्क | 250 | जयचन्द्रन पुत्र ओविरैडियर |
| | | | | 173/6 | निजी | शुष्क | 750 | सुन्दरराजन चित्तियार पुत्र आरुमुगम चित्तियार |
| | | | | 173/9ए | निजी | शुष्क | 40 | 1. सरस्वती पत्नी सान्थानाम |
| | | | | | | | | 2. नागालक्ष्मी पत्नी सोनदरराजन् |
| | | | | 173/9बी | निजी | शुष्क | 30 | मुथुकृष्णन पुत्र कामचिनायडु |
| | | | | 173/9सी | निजी | शुष्क | 30 | मुथुरेनगन पुत्र कामचिनायडु |
| | | | | 173/10ए | निजी | शुष्क | 300 | के थम्बई पुत्र कामचीनायडु |
| | | | | 173/10बी | निजी | शुष्क | 150 | भारती पत्नी मुथुकारुपन्न |
| | | | | 173/11 | निजी | शुष्क | 100 | एस. एस. सुधा पत्नी मुरली |
| | | | | 173/12 | निजी | शुष्क | 150 | गोविन्दराजुलु नायडु पुत्र रामराज |
| | | | | 173/13 | निजी | शुष्क | 450 | 1. रुधामल पत्नी सारन्नन |
| | | | | | | | | 2. सुगुना पत्नी गोविन्दराज |
| | | | | 173/15 | निजी | शुष्क | 300 | सुन्दरराजन चित्तियार पुत्र आरुमुगम चित्तियार |
| | | | | 173/16 | निजी | शुष्क | 700 | पदमा पत्नी सेथुराजन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|--|
| | | | | 173/17ए | निजी | शुष्क | 700 | 1. पेरियल पुसारी के पुत्र चिन्नन पुसारी 2. विरियन पुसारी |
| | | | | 173/17बी | निजी | शुष्क | 750 | थनगाई सरवाई पुत्र रामासामी सरवाई |
| | | | | 174/1 | निजी | शुष्क | 500 | 1. अलागरसामी नायडू के पुत्र राजाराम 2. गोविन्दराजुलु 3. पार्थासारथी 4. राजेन्द्रन 5. सगईया पुत्र नालथामबाई 6. मुथुकुमारन पुत्र परमासामी सरवाई |
| | | | | 174/2 | निजी | शुष्क | 1350 | 1. जय पत्नी कृष्णन् 2. कृष्णन के पुत्र अजुमुरुगन 3. मुथुसेलवाकुमार 4. अरुणकुमार गारडियन मदर जया |
| | | | | 174/3ए | निजी | शुष्क | 250 | गोविन्दमल पत्नी मिनाची रेडियर |
| | | | | 174/3बी | निजी | शुष्क | 200 | एम. एस. रामासामी पुत्र चिन्नामारेडियर |
| | | | | 174/3सी | निजी | शुष्क | 200 | रविन्द्रन पुत्र एस. रामासामी |
| | | | | 174/5 | निजी | शुष्क | 700 | मैसर्ज महेन्द्रा सबलुब सरविसस लि. |
| | | | | 174/6 | निजी | शुष्क | 100 | चिलाईमल पत्नी सुन्दरराज |
| | | | | 174/7 | निजी | शुष्क | 150 | अलामेलामल पत्नी रेनगासामी रेडियर |
| | | | | 174/8 | निजी | शुष्क | 350 | मैसर्ज महेन्द्रा सबलुब सरविसस लि. |
| | | | | 174/9 | निजी | शुष्क | 300 | 1. करुमबाकोनार के पुत्र मुथु 2. कुपुसामी 3. सांथनम 4. नागराज 5. गोपालकृष्णन |
| | | | | 174/10 | निजी | शुष्क | 150 | मैसर्ज महेन्द्रा सबलुब सरविसस लि. |
| | | | | 174/11 | निजी | शुष्क | 900 | 1. जया पत्नी कृष्णन् 2. कृष्णन के पुत्र अजुमुरुगन 3. मुथुसेलवाकुमार 4. अरुणकुमार गारडियन मदर जया |
| | | | | 175/2 | निजी | शुष्क | 1130 | मैसर्ज महेन्द्रा सबलुब सरविसस लि. |
| | | | | 175/3 | निजी | शुष्क | 514 | धनपानडाईमल पत्नी पार्थासारथी |
| | | | | 175/4 | निजी | शुष्क | 583 | अलामेलामल पत्नी रेनगासामी रेडियर |
| | | | | 175/5 | निजी | शुष्क | 1970 | मैसर्ज महेन्द्रा सबलुब सरविसस लि. |
| | | | | 176/1 | निजी | शुष्क | 684 | दुराईपडी पुत्र पिच्चईपिल्लै |
| | | | | 176/2 | निजी | नम | 580 | राजेन्द्रन पुत्र पलानिचामी |
| | | | | 176/4ए | निजी | नम | 120 | 1. जयसुन्दरी पत्नी कृष्णन 2. सरवणकुमार पुत्र कृष्णन |
| | | | | 176/4बी | निजी | नम | 1129 | 1. पंचावरनाम पत्नी रामानुजम 2. रामानुजम के पुत्र हरिहरण 3. कानन |
| | | | | 176/5 | निजी | नम | 927 | 1. जयसुन्दरी पत्नी कृष्णन 2. सरवणकुमार पुत्र कृष्णन |
| | | | | 176/6 | निजी | नम | 163 | 1. जयसुन्दरी पत्नी कृष्णन 2. सरवणकुमार पुत्र कृष्णन |
| | | | | 177/4बी | निजी | नम | 807 | 1. करुमबाकोनार के पुत्र मुथु 2. कुपुसामी 3. शनधनम 4. नागराज 5. गोपालकृष्णन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|-------|------|--|
| | | | | 177/5 | निजी | नम | 272 | 1. कारुमबाकोनार के पुत्र मुथु 2. कुप्पुसामी 3. शनथनम 4. नागराज 5. गोपालकृष्णन |
| | | | | 191/1 | निजी | शुष्क | 160 | दुराईपडी पुत्र पिच्चईपिल्लै |
| | | | | 191/2 | निजी | शुष्क | 50 | दुराईपडी पुत्र पिच्चईपिल्लै |
| | | | | 191/4 | निजी | शुष्क | 43 | पादुरेगन के पुत्र संताराम @ रमेश 2. शन्तिलकुमार |
| | | | | 191/10 | निजी | शुष्क | 125 | अरुमुगम पुत्र कारुपिया सरवाई |
| | | | | 192/1बी | निजी | शुष्क | 318 | ज्योतिराजन पुत्र मुथुराजसरवाई |
| | | | | 192/3ए | निजी | शुष्क | 2797 | 1. बालामुरुगन पुत्र ज्योतिराजन 2. जया पत्नी कृष्णन |
| | | | | 192/8 | निजी | शुष्क | 119 | नामबीमूर्थि पुत्र सेथुरामालिगांकोनार |
| | | | | 194/1 | निजी | शुष्क | 1125 | सेथुरामालिगम पुत्र करुपिया सरवाई |
| | | | | 194/5 | निजी | शुष्क | 296 | सेथुरामालिगम पुत्र करुपिया सरवाई |
| | | | | 195/1 | निजी | शुष्क | 1090 | सेथुरामालिगम पुत्र करुपिया सरवाई |
| | | | | 195/2 | निजी | शुष्क | 150 | सेथुरामालिगम पुत्र करुपिया सरवाई |
| | | | | 195/3बी | निजी | शुष्क | 100 | सेथुरामालिगम पुत्र करुपिया सरवाई |
| | | | | 195/4बी | निजी | शुष्क | 350 | सेथुरामालिगम पुत्र करुपिया सरवाई |
| | | | | 195/5ए | निजी | शुष्क | 1040 | 1. वैलाईयागांडर के पुत्र अयन्नर 2. कानन 3. आलगु 4. करुपन्नगांडर के पुत्र पनईयुरन 5. पांडी 6. शिवारीमलाई गांडर के पुत्र मुथु गांडर 7. करुपया 8. करुपया गांडर के पुत्र सेलवम 9. नागराजन 10. करुपया कोनार पुत्र करुपनाकोनार 11. रामासामी रेडियर पुत्र चिन्नामरेडियर 12. मरनाथन पुत्र राकापन्न सरवाई 13. थेवामनी पुत्र करुपया सरवाई 14. वैलाईसरवाई के पुत्र करुपया 15. अरुमुगम 16. रामासामी पुत्र सुबाईरेडियर |
| | | | | 195/5बी | निजी | शुष्क | 100 | जयरानी पत्नी कृष्णन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|-------|-----|---|
| | | | | 195/5सी | निजी | शुष्क | 250 | 1. देलाईयागाउंडर के पुत्र अयल्लर 2. कानन 3. आलगु 4. करुपन्नगाउंडर के पुत्र पनईयुरन 5. गाली 6. शिथलगाउंडर के पुत्र मुथु गाउंडर 7. करुपय 8. करुपया गाउंडर के पुत्र सेलवम 9. नागराजन 10. करुपया कोनार पुत्र करुपनाकोनार 11. समसामी रेडियर पुत्र चिन्नामरेडियर 12. मरनाथन पुत्र राकापन्न सरवाई 13. थेवामनी पुत्र करुपया सरवाई 14. देलाईसरवाई के पुत्र करुपया 15. अरुमुगम 16. समसामी पुत्र सुबाईरेडियर 17. शन्ति पत्नी राजन् |
| | | | | 195/6ए | निजी | शुष्क | 94 | मरीयामल पत्नी सामायनसरवाई |
| | | | | 195/6बी | निजी | शुष्क | 45 | मुथुचामी पुत्र करुपनगाउंडर |
| | | | | 195/6सी | निजी | शुष्क | 3 | अन्नामल पत्नी चिन्नाचामी गाउंडर |
| | | | | 195/7ए | निजी | शुष्क | 250 | 1. करुमबकोनार के पुत्र मुथु 2. कुपुसामी 3. शन्तिनम् 4. नागराज 5. गोपालकृष्णन |
| | | | | 195/8ए | निजी | शुष्क | 140 | 1. सनतिलकुमार पुत्र पाडुरेगन 2. चिन्नाय कोनार के पुत्र शन्तिनम् 3. बालाकृष्णन् |
| | | | | 195/9 | निजी | शुष्क | 8 | 1. जयसुन्दरी पत्नी कृष्णन 2. सरवणकुमार पुत्र कृष्णन |
| | | | | 195/11ए | निजी | शुष्क | 147 | 1. करुपाई सरवाई के पुत्र चर्कपानी 2. सेथुरामालिंगम |
| | | | | 195/10 | निजी | शुष्क | 80 | 1. सनतिलकुमार पुत्र पाडुरेगन 2. चिन्नाय कोनार के पुत्र शन्तिनम् 3. बालाकृष्णन् |
| | | | | 195/12 | निजी | शुष्क | 78 | 1. करुपाई सरवाई के पुत्र चर्कपानी 2. सेथुरामालिंगम |
| | | | | 195/13 | निजी | शुष्क | 344 | ज्योतिराजन पुत्र मुथुराज सरवाई |
| | | | | 196/2ए | निजी | शुष्क | 100 | 1. करुमबकोनार के पुत्र मुथु 2. कुपुसामी 3. शन्तिनम् 4. नागराज 5. गोपालकृष्णन |
| | | | | 196/4 | निजी | शुष्क | 250 | दुराईपडी पुत्र पिच्चईपिल्लै |
| | | | | 196/5 | निजी | शुष्क | 300 | आरुमुगम पुत्र करुपाई सरवाई |
| | | | | 196/6 | निजी | शुष्क | 100 | 1. पाडुरेगन के पुत्र शान्तिराम @ रमेश 2. शन्तिलकुमार |
| | | | | 196/7 | निजी | शुष्क | 100 | अरुमुगम पुत्र कुरुपिया सरवाई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|-------------|--|
| | | | | 213/2ए8 | निजी | शुष्क | 56 | संस्थानादेवर पुत्र रामामुधि |
| | | | | 213/2ए9 | निजी | शुष्क | 36 | हरिहरनदेवर पुत्र रामामुधि |
| | | | | 213/2बी1 | निजी | शुष्क | 30 | हरिहरनदेवर पुत्र रामामुधि |
| | | | | 213/2बी2 | निजी | शुष्क | 50 | करुपिया सरवाई पुत्र करुपिया सरवाई |
| | | | | 213/2बी3 | निजी | शुष्क | 35 | आनंदावली पुत्री चंद्रशेखरन |
| | | | | 213/2बी4 | निजी | शुष्क | 35 | नटराजन पुत्र अरुनाचलावलर |
| | | | | 213/1सी | निजी | नाथम् | 45 | कालीमल पत्नी मुथुराज |
| | | | | 216/2 | निजी | नाथम् | 67 | कृष्णन पुत्र ईरुलाणनसरवाई |
| | | | | 216/5 | निजी | नाथम् | 76 | 1. जयसुन्दरी पत्नी आर कृष्णन 2. सरवणनकुमार पुत्र कृष्णन |
| | | | | 216/6 | निजी | नाथम् | 79 | 1. वैलाम्मल पत्नी कारुपाई 2. कारुपाई की पुत्री लीला 3. पनचावरनम तमिलारासी 4. तमिलारासी 5. सरतीकला 6. पान्डीमीना 7. शानमुगम पुत्र करुपीया |
| | | | | 216/7 | निजी | नाथम् | 45 | 1. जयसुन्दरी पत्नी कृष्णन 2. सरवणनकुमार पुत्र कृष्णन |
| | | | | 289/5 | निजी | शुष्क | 985 | 1. कृष्णन सरवाई पुत्र राकाअप्पन सरवाई 2. पौनुचामी सरवाई पुत्र सामीकानु सरवाई |
| | | | | 291/1ए | निजी | शुष्क | 798 | 1. कृष्णन पुत्र पुनईया सरवाई 2. जय सुन्दरी पत्नी कृष्णन 3. सरवणनकुमार पुत्र कृष्णन |
| | | | | 298/1 | निजी | नम | 440 | बालाकृष्णन पुत्र अन्नामलाईकोनर |
| | | | | 298/2 | निजी | नम | 565 | प्रदीप गुप्ता पुत्र आत्माराम गुप्ता |
| | | | | 300/1 | निजी | नम | 1382 | बालाकृष्णन पुत्र अन्नामलाईकोनर |
| | | | | 300/2 | निजी | नम | 488 | कस्तुरी पत्नी टी. जी. मोहनराम |
| | | | | 300/3 | निजी | नम | 488 | 1. सिवाकामीमल पत्नी चिन्नाचामी 2. चिन्नाचामी के पुत्र वसुदेवन 3. नागाराजन 4. नारायणसामी 5. धमोदरन 6. कल्याणी पुत्री चिन्नाचामी |
| | | | | 301 | निजी | नम | 900 | भारत पटरोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड |
| | | | | 317/20ए1 | निजी | नम | 100 | नटराजन पुत्र चेन्नामी |
| | | | | 317/20ए2 | निजी | नम | 76 | जयधरम पुत्र चिन्नाचामी चित्तियार |
| | | | | 317/20बी | निजी | नम | 200 | करुपनन पुत्र साधनकृष्णन |
| | | | | 317/21ए1 | निजी | नम | 101 1226 | 1. मुरुगेसन पुत्र रामुवेथियार 2. मनोहरन पुत्र मुथुकृष्णन 3. कृष्णासामी पुत्र कुपनवेथियार 4. मोहन पुत्र वलागुरवन 5. जयातिलक्ष्मी पत्नी मोहन 6. योगामाधवन पुत्र सुंदराज कोनार |
| | | | | 317/22ए | निजी | नम | 858 | राधाकृष्णन पुत्र करुपनकोनार |
| | | | | 317/22बी | निजी | नम | 756 | अमुधा पत्नी अन्नामलाई |
| | | | | 317/27ए1 | निजी | नम | 109 | 1. मुथुकृष्णन के पुत्र अरुनागिरी 2. करुनामिधि 3. मनोहरन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----------|------|-------|------|--|
| | | | | 317/27ए2 | निजी | नम | 43 | 1. करुपिया पुत्र उदायर सरकाई 2. चेलामर पत्नी करुपिया |
| | | | | 317/27बी | निजी | नम | 16 | मुरुवेसन पुत्र नारायनपिल्लै |
| | | | | 317/28 | निजी | नम | 100 | सेथुसमालिंगम पुत्र सेथुचेथियार |
| | | | | 317/29 | निजी | नम | 100 | जयरमर पुत्र विन्नायामी चितियार |
| | | | | 317/30 | निजी | नम | 190 | कुमारसन पुत्र दुईपाडियन |
| | | | | 317/32 | निजी | नम | 150 | मदुराई वीरन पुत्र राजागोपाल |
| | | | | 317/33 | निजी | नम | 150 | समसासन पुत्र दुईपाडियन |
| | | | | 317/34 | निजी | नम | 100 | पकियम पत्नी अथियन |
| | | | | 317/35 | निजी | नम | 150 | कालुवयी पत्नी करुपाथेवर |
| | | | | 317/37 | निजी | नम | 130 | धीरुथम पुत्र वेलाईचामी |
| | | | | 317/38 | निजी | नम | 200 | 1. सेलवम पुत्र सीवनन्दीथेवर 2. थेडावेलवम पत्नी सेलवम |
| | | | | 318/2ए1ए | निजी | नम | 1546 | 1. साथाकृष्णन पुत्र करुपनाकोनार 2. लथा पत्नी थीरुपतिसामी |
| | | | | 318/1बी1ए | निजी | नम | 376 | 1. मोहन पुत्र पालचामी कोनार 2. जगधरसन पुत्र थीरुवेनगदाकोनार |
| | | | | 318/2बी | निजी | नम | 250 | कल्याणी पत्नी मुथारासन |
| | | | | 318/1ए2 | निजी | नम | 902 | मुथुपुंडी पुत्र रुजुथेवर |
| | | | | 325/6 | निजी | नाथम् | 25 | 1. राजागोपाल के पुत्र मधुराईवीरन 2. रंगासन 3. रंगा 4. प्रभु |
| | | | | 325/7 | निजी | नाथम् | 14 | सुंदरसन पुत्र सुकुलीचेथियार |
| | | | | 325/8 | निजी | नाथम् | 3 | शानमुगधामल पत्नी जयारसन चेथियार |
| | | | | 325/9 | निजी | नाथम् | 61 | मारसामल पत्नी सेथुचेथियार |
| | | | | 325/10 | निजी | नाथम् | 44 | थातिवार 24. मनाई तेलुगु चेथियार उराविनमुराई संगम |
| | | | | 325/14 | निजी | नाथम् | 31 | परमासिवन पुत्र विनायन चेथियार |
| | | | | 325/15 | निजी | नाथम् | 57 | अगुथाई पत्नी मुथई मनियम |
| | | | | 325/16 | निजी | नाथम् | 59 | मुथुमानी पत्नी शेखर |
| | | | | 325/17 | निजी | नाथम् | 4 | पलानीचामी चेथियार पुत्र अलागिरीचेथियार |
| | | | | 325/18 | निजी | नाथम् | 21 | कनप्पन चेथियार पुत्र सुबईया चेथियार |
| | | | | 325/19 | निजी | नाथम् | 27 | पलानीचामी चेथियार पुत्र अलागरसामीचेथियार |
| | | | | 325/20 | निजी | नाथम् | 11 | मुथुपुंडी पुत्र अलागरसामी चेथियार |
| | | | | 325/23 | निजी | नाथम् | 48 | 1. दुईपांडी पुत्र अलागरसामी चेथियार 2. मुथुसन चेथियार के पुत्र गोविन्दन 3. परमन |
| | | | | 325/24 | निजी | नाथम् | 30 | 1. मुथुसन चेथियार के पुत्र गोविन्दन 2. परमन |
| | | | | 325/25 | निजी | नाथम् | 34 | रत्तराजा नादर पुत्र सुन्दरामहालिंगम |
| | | | | 325/26 | निजी | नाथम् | 182 | 1. राजेन्द्रन के पुत्र अनबुकनी 2. राजशेखर 3. पिप्पाकानी 4. सुन्दरामाडियन 5. एविचन्द्रन 6. रत्तराजनादर के पुत्र रथिनादेवु 7. धनुषकोडी |
| | | | | 325/28 | निजी | नाथम् | 100 | मारकरन पुत्र कुरुपुंडी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|-------|-----|--|
| | | | | 325/29 | निजी | नाथम् | 11 | पुनिया चेथियार पुत्र पोथनचेथियार |
| | | | | 325/30 | निजी | नाथम् | 27 | शेखर पुत्र मुथुचामी चेथियार |
| | | | | 325/31 | निजी | नाथम् | 92 | शेखर पुत्र मुथुचामी चेथियार |
| | | | | 325/62 | निजी | नाथम् | 60 | थालिवार 24. मनाई तेलुगु चेथियार उराविनमुराई संगम |
| | | | | 326/2बी | निजी | शुष्क | 15 | 1. नारायनाकोनार के पुत्र पलानीवल 2. करुपन 3. थीरुमल |
| | | | | 326/70 | निजी | नाथम् | 119 | 1. राजामल पत्नी सेरुवालिंगम 2. सेरुवालिंगम के पुत्र पेरियानन 3. वाईरामुथुरामालिंगम 4. वडकासीलिंगम 5. अथीमुलम् 6. सेरुवालिंगम की पुत्री धनलक्ष्मी 7. मुथुलक्ष्मी 8. अन्नापुरानी 9. परमेशवरी 10. वलरमथि 11. सुधादेवी |
| | | | | 326/72 | निजी | नाथम् | 365 | 1. नारायनाकोनार के पुत्र पलानीवल 2. करुपनन 3. थीरुमल |
| | | | | 326/73 | निजी | नाथम् | 68 | 1. नारायनाकोनार के पुत्र पलानीवल 2. करुपनन 3. थीरुमल |
| | | | | 331/1 | निजी | नम | 383 | ए. वी. मुथई पुत्र वालाथन |
| | | | | 331/2 | निजी | नम | 186 | ए. वी. मुथई पुत्र वालाथन |
| | | | | 331/3 | निजी | नम | 110 | 1. नारायनसामी कोनार के पुत्र थीरुमलाई 2. गोपाल |
| | | | | 331/5ए1 | निजी | नम | 129 | पांटी पुत्र पालचामी कोनार |
| | | | | 331/5ए2 | निजी | नम | 382 | 1. महालिंगम पुत्र सनासीचेथियार 2. पांटी पुत्र पालचामी कोनार |
| | | | | 331/5बी | निजी | नम | 283 | 1. पेतानन चेथियार के पुत्र सेथुचेथियार 2. अलगारसामी 3. कृष्णन 4. नागराजन 5. पेतानन चेथियार की पुत्री मीनाक्षी 6. लक्ष्मी 7. ईशवरी 8. सुब्बामल 9. कृष्णवैणी पत्नी पांटी |
| | | | | 331/6ए | निजी | नम | 65 | नारायनसामी कोनार पुत्र करुपनाकोनार |
| | | | | 332/1ए | निजी | शुष्क | 36 | वदीवाची कोविल टेम्परेरी ट्रस्टी |
| | | | | 332/1बी | निजी | शुष्क | 45 | करुनानिधि पुत्र वेलईपन |
| | | | | 332/1सी | निजी | शुष्क | 55 | कनाई पत्नी घनापांटी |
| | | | | 332/1डी | निजी | शुष्क | 64 | ए. वी. मुथई पुत्र वालाथन |
| | | | | 332/8ए | निजी | शुष्क | 75 | अलागामल पत्नी वेलीमलाई |
| | | | | 332/8बी | निजी | शुष्क | 98 | बुमम संबन पुत्र उरुमन |
| | | | | 332/9 | निजी | शुष्क | 37 | वेलालईपन पुत्र करुपनन |
| | | | | 332/9सी | निजी | शुष्क | 38 | शेखर पुत्र अलागारसामी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|--|
| | | | | 343/2बी | निजी | शुष्क | 150 | कमाची महेशबोस पुत्र सुभाष बोस |
| | | | | 344/3 | निजी | नम | 1518 | 1. गीतालक्ष्मी पत्नी अरुनाचलम |
| | | | | | | | | 2. थंगासाज पुत्र मपालीचामी |
| | | | | | | | | 1. अरुनाचलम के पुत्र राजेशकुमार |
| | | | | | | | | 2. माइनर कार्तिकेयन |
| | | | | 344/5ए | निजी | नम | 851 | चन्द्रा पत्नी डेविड |
| | | | | 344/5बी | निजी | नम | 674 | विजि जार्ज पुत्र जार्जसेरियन डायरेक्टर मद्रास ससपेंसरस लि. |
| | | | | 344/6 | निजी | नम | 538 | अजितबाबु पुत्र बालासुब्रमनियन |
| | | | | 345/1 | निजी | शुष्क | 56 | अजितबाबु पुत्र बालासुब्रमनियन |
| | | | | 345/2 | निजी | शुष्क | 53 | 1. बंदरंगन के पुत्र एस. पी. रमेश |
| | | | | | | | | 2. सैथिलकुमार |
| | | | | | | | | 3. चिन्नाकोनार के पुत्र दुरईपांडी |
| | | | | | | | | 4. बालाकृष्णन |
| | | | | | | | | 5. साथानम |
| | | | | | | | | 6. सुबिया मनियम पुत्र वेलयुथम |
| | | | | | | | | 7. शनमुगम पुत्र सुबयामनियम |
| | | | | | | | | 8. गीतालक्ष्मी पत्नी अरुनाचलम |
| | | | | | | | | 9. थंगासाज पुत्र मपालीचामी मनियम |
| | | | | | | | | 10. थंगईया मनियम पुत्र अरुमुगम मनियम |
| | | | | | | | | 11. अलागरसामी पुत्र कुपुचामी अययर |
| | | | | | | | | 12. जयाकोडी पुत्र चेलाचामी @ चिन्नाचामी मनियम |
| | | | | 345/3 | निजी | शुष्क | 53 | मदुराई आर. के. रोक प्रोड्यूसरस लि. |
| | | | | 349/2ए1 | निजी | शुष्क | 520 | मिनाची फुटस (इडिया) प्रा. लि. मैनेजर एल. भुवनेशवरी पत्नी लारेन्स |
| | | | | 349/2ए2 | निजी | शुष्क | 102 | 1. गीतालक्ष्मी पत्नी अरुनाचलम |
| | | | | | | | | 2. थंगासाज पुत्र मपालीचामी |
| | | | | | | | | 1. अरुनाचलम के पुत्र राजेशकुमार |
| | | | | | | | | 2. माइनर कार्तिकेयन |
| | | | | 349/3ए | निजी | शुष्क | 200 | रमेश पुत्र पांडुरंगन |
| | | | | 349/3बी | निजी | शुष्क | 200 | सैथिलकुमार पुत्र पांडुरंगन |
| | | | | 349/5 | निजी | शुष्क | 100 | 1. गीतालक्ष्मी पत्नी अरुनाचलम |
| | | | | | | | | 2. थंगासाज पुत्र मपालीचामी |
| | | | | 349/4 | निजी | शुष्क | 487 | 1. आर रथीनाकुमार पुत्र रामाचन्द्रन |
| | | | | | | | | 2. एम. कार्तिकेयन पुत्र मुथुकरुपन |
| | | | | 349/6 | निजी | शुष्क | 415 | 1. गीतालक्ष्मी पत्नी अरुनाचलम |
| | | | | | | | | 2. थंगासाज पुत्र मपालीचामी |
| | | | | | | | | 3. महाराजामनियम पुत्र वेलयुथममनियम |
| | | | | | | | | 4. चेलप्पा पुत्र जयाकोडी |
| | | | | | | | | 5. पांडुरंगन के पुत्र रमेश |
| | | | | | | | | 6. सैथिलकुमार |
| | | | | | | | | 7. चिन्नाकोनार के पुत्र सी. साथानम |
| | | | | | | | | 8. बालाकृष्णन |
| | | | | 350/17ए1 | निजी | नम | 38 | पी. जयाकुमार पुत्र पेरियारामी |
| | | | | | | | 49 | |
| | | | | | | | 22 | |
| | | | | | | | 17 | |
| | | | | 350/17ए2 | निजी | नम | 50 | रविचंद्रन पुत्र मुथिया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|---|
| | | | | 356/17/1 | मिजी | नम | 635 | मिनाकी फुलस (हंडिया) प्रा. लि. मैनेजर एल. पुनमशक्ती पत्नी लारेन्स |
| | | | | 356/18/1 | मिजी | नम | 525 | अश्विजय पुत्र वातासुधामणि |
| | | | | 356/19/1 | मिजी | नम | 250 | 1 जे. लीतमेश पत्नी ई. जोनसन 2 बजरज पुत्र मयाजीवामी मनिदम 3 मोताजम पत्नी अन्नाचलम |
| | | | | 356/19/2 | मिजी | नम | 300 | मिनाकी फुलस (हंडिया) प्रा. लि. मैनेजर एल. पुनमशक्ती पत्नी लारेन्स |
| | | | | 356/24 | मिजी | नम | 100 | रविशंकर पुत्र सुधिया |
| | | | | 356/25 | मिजी | नम | 150 | एम. रामर पुत्र सुधिया |
| | | | | 356/26 | मिजी | नम | 295 | वसन्त पत्नी करमम |
| | | | | 356/27 | मिजी | नम | 268 | वसन्त पत्नी करमम |
| | | | | 364/7 | मिजी | शुष्क | 1005 | 1. मिनासमी के पुत्र वसुदेव 2. नागराज 3. नागराजसमी 4. नागराज 5. कल्याणी पुत्री मिनासमी |
| | | | | 364/12 | मिजी | शुष्क | 402 | 1. मिनासमी के पुत्र वसुदेव 2. नागराज 3. नागराजसमी 4. नागराज 5. कल्याणी पुत्री मिनासमी |
| | | | | 364/19 | मिजी | शुष्क | 138 | 1. मिनासमी के पुत्र वसुदेव 2. नागराज 3. नागराजसमी 4. नागराज 5. कल्याणी पुत्री मिनासमी |
| | | | | 365/3/1 | मिजी | नम | 322 | रुद्रम पत्नी अन्ना |
| | | | | 365/3/2 | मिजी | नम | 217 | 1. रामन पत्नी सुधियाविधाय 2. लालराज पुत्र सुधियाविधाय 3. अरुणम पुत्र एन. सुन्दम |
| | | | | 365/3/3 | मिजी | नम | 116 | अरुणम पुत्र एन. सुन्दम |
| | | | | 365/3/4 | मिजी | नम | 176 | आनन्दराज पुत्र पाडी |
| | | | | 365/3/5 | मिजी | नम | 100 | 1. अहमद शरिफ पुत्र काथर 2. कश्मिरा ब्रम पत्नी अहमद शरिफ |
| | | | | 365/3/6 | मिजी | नम | 50 | दीशपतिर पुत्र ईरुल्लापिल्ले |
| | | | | 365/3/7 | मिजी | नम | 50 | मनमोदी पुत्र राजगणि |
| | | | | 365/3/8 | मिजी | नम | 150 | 1. राजमनिमल पत्नी रसु असरी 2. लक्ष्मणमुरम पुत्र रसु असरी |
| | | | | 365/3/9 | मिजी | नम | 100 | 1. लक्ष्मण पुत्र सुशामनिकम 2. जे. रामनगवल पुत्र करुमियाकोनार 3. काटीयान्न पत्नी मनुमुगवेल |
| | | | | 365/3/10 | मिजी | नम | 50 | मिनासमी पत्नी राजशङ्करन |
| | | | | 365/3/11 | मिजी | नम | 100 | पुनमिनी पुत्र मिनासमी |
| | | | | 365/3/12 | मिजी | नम | 250 | 1. लक्ष्मण असरी के पुत्र मुरम 2. कश्मिरन |
| | | | | 365/3/13 | मिजी | नम | 50 | 1. थमराज असरी के पुत्र मुरम 2. कश्मिरन |
| | | | | 365/3/14 | मिजी | नम | 50 | सुरेशराज पुत्र राजगण |
| | | | | 365/4/1 | मिजी | नम | 250 | सुरेशराज पुत्र राजगण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|------------|------|-------|------|---|
| | | | | 365/4सी | निजी | नम | 50 | जोसफ पुत्र जेवियर |
| | | | | 365/4डी | निजी | नम | 200 | 1. वरगीस के पुत्र जार्ज |
| | | | | | | | | 2. मारिय अंथोनी |
| | | | | | | | | 3. माईकल |
| | | | | 365/4ई | निजी | नम | 50 | 1. वरगीस के पुत्र जार्ज |
| | | | | | | | | 2. मारिय अंथोनी |
| | | | | | | | | 3. माईकल |
| | | | | | | | | 4. जोसफ पुत्र जेवियर |
| | | | | | | | | 5. सीतालक्ष्मी पत्नी कानतासामी |
| | | | | | | | | 6. अंगमल पत्नी रामासामीचेथियार |
| | | | | 365/4एफ | निजी | नम | 50 | अरिकोडी पत्नी मुकियानादर |
| | | | | 365/4जी | निजी | नम | 200 | अंगमल पत्नी रामासामीचेथियार |
| | | | | 365/4एच | निजी | नम | 50 | 1. सीथालक्ष्मी पत्नी कंधासामी चेथियार |
| | | | | | | | | 2. अंगमल पत्नी रामासामीचेथियार |
| | | | | | | | | 3. सख्या पत्नी इनाटटन |
| | | | | 365/6ए | निजी | नम | 250 | सख्या पत्नी इनाटटन |
| | | | | 365/5बी | निजी | नम | 100 | राजाराम पुत्र पेरियासामी |
| | | | | 365/5सी | निजी | नम | 100 | चन्द्रन पुत्र कालीमुथु |
| | | | | 365/5डी | निजी | नम | 150 | चन्द्रन पुत्र कालीमुथु |
| | | | | 365/5ई | निजी | नम | 300 | करुपिया पुत्र धीनाकोनर |
| | | | | 365/5एफ | निजी | नम | 300 | मुनीसामी पुत्र रमियाकोनर |
| | | | | 365/5जी | निजी | नम | 100 | पकिम पुत्र कोटालमपिल्लै |
| | | | | 365/5एच | निजी | नम | 150 | पकिम पुत्र कोटालमपिल्लै |
| | | | | 365/6ए1 | निजी | नम | 400 | चिन्नाकोनर पुत्र करुपासामी कोनर |
| | | | | 365/6ए2ए | निजी | नम | 300 | 1. अरपुथमनिमल पत्नी डेविड चिल्लाय |
| | | | | | | | | 2. अनाथयमल पत्नी पुनिया |
| | | | | | | | | 3. वसंथन |
| | | | | | | | | 4. अम्मापिल्लै |
| | | | | 365/6ए2बी | निजी | नम | 100 | भास्करन पुत्र कयाम्बु |
| | | | | 365/6ए2सी | निजी | नम | 50 | अयादुरई पुत्र राजाकानु |
| | | | | 365/6ए3 | निजी | नम | 1010 | 1. चिन्नाचामी के पुत्र वासुदेवन |
| | | | | | | | | 2. नागराजन |
| | | | | | | | | 3. नारायनसामी |
| | | | | | | | | 4. थामोथरन |
| | | | | | | | | 5. कल्याणी पुत्री चिन्नासामी गार्डियन मदर सिवाकमामल |
| | | | | 365/7 | निजी | नम | 400 | अनन्दाकृष्णन पुत्र अमृतालिगानादर |
| | | | | 365/8 | निजी | नम | 150 | कोटियाचामी पुत्र धीनारकोनर |
| | | | | 365/9 | निजी | नम | 100 | मथुचेलवम पुत्र मुकिया |
| | | | | 366/2ए | निजी | शुष्क | 140 | आनन्दराज पुत्र पांडी माइनर गार्डियन फादर पांडी |
| | | | | 366/2बी1ए | निजी | शुष्क | 113 | दुरईपांडी पुत्र चिन्नाकोनर |
| | | | | 366/2बी1बी | निजी | शुष्क | 150 | जोनपिटर पुत्र सुसईमनिकम |
| | | | | 366/2बी2 | निजी | शुष्क | 68 | रवि पुत्र अययर वेलर |
| | | | | 366/2सी | निजी | शुष्क | 227 | थंगावल असासी के पुत्र मुरुगन |
| | | | | | | | | काथीरिसन |
| | | | | 366/2डी | निजी | शुष्क | 50 | 1. दुरईपांडी पुत्र चिन्नाकोनर |
| | | | | | | | | 2. थंगावल असासी पुत्र करुपिया असासी |
| | | | | | | | | 3. करुपनन पुत्र करुपनन |
| | | | | 366/2एफ | निजी | शुष्क | 110 | थिरुपति पुत्र पांडी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|---|
| | | | | 366/2जी | निजी | शुष्क | 100 | दुरईपांडी पुत्र चिन्नाकोनार |
| | | | | 366/2आई | निजी | शुष्क | 93 | मसानाम चेथियार पुत्र मोटियनचेथियार |
| | | | | 366/2 जे | निजी | शुष्क | 150 | जोसफ पुत्र जेवियर |
| | | | | 366/2के | निजी | शुष्क | 50 | 1. गोविन्दन पुत्र रंगासामी 2. मदासामी पुत्र मोटियनचेथियार 3. जोसफ पुत्र जेवियर 4. सधासिवम पुत्र सेरुवाकोनार 5. अन्थानीमल पत्नी ईरुथाराज 6. सीथालक्ष्मी पत्नी कांथासामी चेथियार |
| | | | | 366/2एम | निजी | शुष्क | 103 | एन्थानीमल पत्नी ईरुथाराज |
| | | | | 366/2एन | निजी | शुष्क | 150 | अरिकोडी पत्नी मुकियानादर |
| | | | | 366/2ओ | निजी | शुष्क | 12 | 1. कासीलिंगम पुत्र सेरुवाकोनार 2. अन्थानीमल पत्नी ईरुथाराज 3. सीथालक्ष्मी पत्नी कांथासामी चेथियार 4. करुप्पनन पुत्र करुप्पनन |
| | | | | 366/3ए | निजी | शुष्क | 25 | करुप्पनन पुत्र करुप्पनन |
| | | | | 366/3बी | निजी | शुष्क | 89 | करुप्पिया पुत्र थीनारकोनार |
| | | | | 366/3सी | निजी | शुष्क | 68 | मीनीची पत्नी मुथुकमाची |
| | | | | 366/3डी | निजी | शुष्क | 74 | मीनीची पत्नी मुथुकमाची |
| | | | | 366/3ई1 | निजी | शुष्क | 79 | सैथावलियन पुत्र मुनियासामीकोनार |
| | | | | 366/3ई2 | निजी | शुष्क | 81 | चन्द्रन पुत्र मुनियांदीकोनार |
| | | | | 366/3ई3 | निजी | शुष्क | 98 | राजाराम पुत्र पेरियासामी |
| | | | | 366/3एफ | निजी | शुष्क | 58 | सैथावलियन पुत्र पेरियासामी |
| | | | | 366/3जी | निजी | शुष्क | 145 | मुनीसामी पुत्र पेरिकरुपाकोनार |
| | | | | 366/3एच2 | निजी | शुष्क | 115 | 1. बालुचामी के पुत्र शेखर 2. वेंकदेश |
| | | | | 366/3आई1 | निजी | शुष्क | 59 | बालुचामी पुत्र पेरियाकरुपाकोनार |
| | | | | 366/3आई2 | निजी | शुष्क | 100 | मुनीयासामी पुत्र पेरिकरुपाकोनार |
| | | | | 366/3जे | निजी | शुष्क | 468 | अलीराज पुत्र मुकन असासी |
| | | | | 366/3के | निजी | शुष्क | 343 | घनलक्ष्मी पत्नी सदायंदी कोनार |
| | | | | 366/3एल | निजी | शुष्क | 94 | कोटियाचामी पुत्र थीनारकोनार |
| | | | | 366/3एम | निजी | शुष्क | 400 | 1. पुनिया पुत्र अरुमुगम 2. मुथुलक्ष्मी पुत्र कीजवान 3. पालाचामी पुत्र पेरियाकरुप्पन 4. सैथावलियन पुत्र रमियाकोनार 5. सैथावलियन पुत्र पेरियाकरुप्पन 6. मुनीसामी 7. राजाराम पुत्र पेरियासामी 8. बालाकृष्णन पुत्र मुथुकृष्णन 9. करुप्पियासरवई पुत्र उदईयासरवई 10. अलीराज पुत्र मुकन असासी 11. घनलक्ष्मी पत्नी सदायंदी कोनार 12. कोटियाचामी पुत्र करुप्पनन |
| | | | | 366/3एन | निजी | शुष्क | 1030 | सैथावलियन पुत्र रमियाकोनार |
| | | | | 366/39 | निजी | शुष्क | 85 | गननशेखरन पुत्र महालिंगमपिल्लै |
| | | | | 524/1 | निजी | नम | 350 | बालाकृष्णन पुत्र अनामलीकोनार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----------|------|-------|------|---|
| | | | | 524/2 | निजी | शुष्क | 83 | 1. करुणसरवाई के पुत्र धवामनि 2. मसीलामनि |
| | | | | 524/3 | निजी | नम | 1850 | बालाकृष्ण पुत्र अनामलीकोनार |
| | | | | 525/2ए1ए | निजी | नम | 21 | साधानाम पुत्र चिन्मायकोन |
| | | | | | | | 90 | |
| | | | | | | | 69 | |
| | | | | 525/2ए1बी | निजी | नम | 80 | बालराज पुत्र ईरुथयाराज |
| | | | | 525/2ए2 | निजी | नम | 85 | बालागुरु पुत्र चेलियासरवाई |
| | | | | 525/2ए3 | निजी | नम | 100 | मुथुमारी पत्नी राजाराम |
| | | | | 525/2ए4 | निजी | नम | 100 | एल. एस. सी परमासिवम पुत्र चिन्माय चेलियार |
| | | | | 525/3 | निजी | नम | 18 | संकरापाडियन पुत्र रथिनायेलचेलियार |
| | | | | 525/4 | निजी | नम | 19 | पाडियन पुत्र सुन्दरासु |
| | | | | 534/44 | निजी | शुष्क | 5 | 1. गोविन्दसामीनायडू के पुत्र कमाची 2. विजयरंगन 3. विजयालक्ष्मी पत्नी पुरुशोत्तम |
| | | | | 537/12 | निजी | नाथम् | 148 | 1. गोविन्दसामी नायडू के पुत्र राजाराम 2. वरधाराजन 3. सुबुरायालु 4. राधाकृष्णन |
| | | | | 537/13 | निजी | नाथम् | 80 | 1. सुबुरायालु की पुत्री अनुसुया 2. सुभाषिनी |
| | | | | 537/14 | निजी | नाथम् | 33 | बालामल पत्नी रामराजनायडू |
| | | | | 537/16 | निजी | नाथम् | 27 | सेधामराई पत्नी शेखर |
| | | | | 537/17 | निजी | नाथम् | 21 | 1. अंगननायडू के पुत्र बालाचन्द्रन 2. पदमानापन @ शेखर 3. रामाचन्द्रन 4. बोस 5. कानन 6. अंगनन नायडू की पुत्री सुशीला 7. पदमावति |
| | | | | 537/21 | निजी | नाथम् | 356 | गोविन्दराजुलु नायडू पुत्र आर. एस. रामराज |
| | | | | 537/24 | निजी | नाथम् | 22 | 1. कुथनमपालम पुत्र साधनमपालम 2. महामाई पत्नी कुथनमपालम |
| | | | | 537/25 | निजी | नाथम् | 265 | कानुचामी पुत्र ए. एस. अयाथीनायडू |
| | | | | 537/26 | निजी | नाथम् | 63 | 1. रामासामी के पुत्र गोविन्दन 2. राजा गोपाल 3. धन्नामल पत्नी गोविन्दन 4. आर के गोविन्दसामी के पुत्र कामाची 5. विजयरंगन 6. पुरुशोत्तम 7. जया पत्नी बालाकृष्ण 8. वैकटेशन पुत्र बालाकृष्ण |
| | | | | 541/3 | निजी | नाथम् | 4 | कानन पुत्र पालचामी |
| | | | | 542/6 | निजी | नाथम् | 13 | कृष्णानारायण पुत्र कुमारन |
| | | | | 542/14 | निजी | नाथम् | 25 | मलकालाई पुत्र कोमली |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|------|-------|-----|-------------------------------------|
| | | | | 543/2 | निजी | नाथम् | 58 | 1. करुपिया के पुत्र कमाची |
| | | | | | | | | 2. सनमुगम |
| | | | | | | | | 3. सभापति |
| | | | | 543/3 | निजी | नाथम् | 76 | पेरियासामी पुत्र पेरियाकरुप्पन |
| | | | | 543/4 | निजी | नाथम् | 38 | वीरान पुत्र वीरान |
| | | | | 543/5 | निजी | नाथम् | 45 | पप्पा पुत्री पेरियमपिल्लै |
| | | | | 543/6 | निजी | नाथम् | 69 | मुरुगेसन पुत्र मयांदी |
| | | | | 543/7 | निजी | नाथम् | 25 | सभापति पुत्र करुपिया |
| | | | | 543/8 | निजी | नाथम् | 26 | अलगामल पत्नी मोलायन |
| | | | | 543/10 | निजी | नाथम् | 14 | 1. अलगान के पुत्र कोमली |
| | | | | | | | | 2. नागन |
| | | | | 543/11 | निजी | नाथम् | 12 | मुकम्मल पत्नी सुन्दरराजु |
| | | | | 543/12 | निजी | नाथम् | 17 | कोमली पुत्र पेरियामपिल्लै |
| | | | | 543/14 | निजी | नाथम् | 13 | महेन्द्रन पुत्र अलगान |
| | | | | 543/15 | निजी | नाथम् | 18 | वेलाईचामी पुत्र मुकियन |
| | | | | 543/16 | निजी | नाथम् | 20 | कमाची पुत्र करुपिया |
| | | | | 543/17 | निजी | नाथम् | 26 | पचामल पत्नी पारामन |
| | | | | 543/18 | निजी | नाथम् | 65 | रोजाप्पु पुत्र वेलु |
| | | | | 551/2 | निजी | नाथम् | 114 | 1. जयसुन्दरी पत्नी आर कृष्ण |
| | | | | | | | | 2. सरवनाकुमार पुत्र कृष्ण |
| | | | | 551/7 | निजी | नाथम् | 5 | 1. अम्मापिल्लै पत्नी कृष्ण |
| | | | | | | | | 2. कृष्ण के पुत्र कानन |
| | | | | | | | | 3. रामन |
| | | | | | | | | 4. लक्ष्मणन |
| | | | | | | | | 5. धनलक्ष्मी पुत्री कृष्ण |
| | | | | 551/8 | निजी | नाथम् | 16 | 1. अम्मापिल्लै पत्नी कृष्ण |
| | | | | | | | | 2. कृष्ण के पुत्र कानन |
| | | | | | | | | 3. रामन |
| | | | | | | | | 4. लक्ष्मणन |
| | | | | | | | | 5. धनलक्ष्मी पुत्री कृष्ण |
| | | | | 551/9 | निजी | नाथम् | 150 | 1. महाराजन के पुत्र सीवासुब्रामनियन |
| | | | | | | | | 2. रामासुब्रामनियन |
| | | | | | | | | 3. वैकटासुब्रामनियन |
| | | | | | | | | 4. बालासुब्रामनियन |
| | | | | | | | | 5. महाराजन की पुत्री विजयलक्ष्मी |
| | | | | | | | | 6. रुकमि |
| | | | | | | | | 7. राजेश्वरी |
| | | | | 551/11 | निजी | नाथम् | 210 | जोथीराजन पुत्र मुथुराज |
| | | | | 551/12 | निजी | नाथम् | 4 | धवामनि पुत्र करुप्पनम सरवाई |
| | | | | 551/13 | निजी | नाथम् | 15 | अम्मापिल्लै पत्नी कृष्ण |
| | | | | 551/14 | निजी | नाथम् | 21 | करुपिया पुत्र गुरुनथानसरवाई |
| | | | | 551/15 | निजी | नाथम् | 28 | अप्पनराज पुत्र गुरुनथानसरवाई |
| | | | | 551/16 | निजी | नाथम् | 95 | महालिंगमसरवाई पुत्र सथापनसरवाई |
| | | | | 551/19 | निजी | नाथम् | 48 | 1. थंगलक्ष्मी पत्नी वेलाईचामी |
| | | | | | | | | 2. आनन्दकुमार पुत्र वेलाचामी |
| | | | | | | | | 3. लथा पुत्री वेलाचामी |
| | | | | 551/20 | निजी | नाथम् | 81 | मरनाटन पुत्र रकप्पन सरवाई |
| | | | | 551/22 | निजी | नाथम् | 130 | अरुमुगम पुत्र करुपियासरवाई |
| | | | | 551/24 | निजी | नाथम् | 55 | राजेन्दन पुत्र रकप्पन सरवाई |
| | | | | 552/33 | निजी | नाथम् | 15 | अययनकलाई पुत्र गुरुनाथन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|------|-------|-----|---|
| | | | | 552/47 | निजी | नाथम् | 1 | पांडीदुई पुत्र पेरियासामी |
| | | | | 552/48 | निजी | नाथम् | 1 | करपाईमल पत्नी करुपासामी |
| | | | | 552/49 | निजी | नाथम् | 3 | पोनुपप्पु सरवाई पुत्र मुथीरुलनसरवाई |
| | | | | 552/50 | निजी | नाथम् | 22 | कृष्णन पुत्र थंगामुथुसरवाई |
| | | | | 552/51 | निजी | नाथम् | 35 | सोमानाथन पुत्र संगईया थेवर् |
| | | | | 573/8 | निजी | नाथम् | 24 | सेथुराम पुत्र मरिअप्पन चेथियार |
| | | | | 573/10 | निजी | नाथम् | 31 | पकियम पत्नी अथियन |
| | | | | 573/11 | निजी | नाथम् | 33 | 1. सुन्दमचेथियार पुत्र रामासामी चेथियार 2. राजेश्वरी पत्नी सुन्दमचेथियार |
| | | | | 573/12 | निजी | नाथम् | 18 | पांडीमल पत्नी अलागरचेथियार |
| | | | | 573/13 | निजी | नाथम् | 41 | 1. पांडीमल पत्नी अलागरचेथियार 2. सेथुचेथियार के पुत्र मनिकम 3. रविशेखर |
| | | | | 573/14 | निजी | नाथम् | 41 | राजेन्द्रन पुत्र मोतियादी |
| | | | | 574/14 | निजी | नाथम् | 30 | भास्करन पुत्र करुपिया चेथियार |
| | | | | 574/15 | निजी | नाथम् | 62 | 1. वारया चेथियार के पुत्र भास्करन 2. करुनाकरन 3. संधिल |
| | | | | 574/16 | निजी | नाथम् | 14 | थंगाराज पुत्र अलागरसामी चेथियार |
| | | | | 574/18 | निजी | नाथम् | 56 | रामुचेथियार पुत्र अलागरसामी चेथियार |
| | | | | 574/19 | निजी | नाथम् | 33 | सेथुचेथियार पुत्र मयानचेथियार |
| | | | | 574/21 | निजी | नाथम् | 9 | पांडी पुत्र वीरुमाकोनार |
| | | | | 574/22 | निजी | नाथम् | 96 | गोपालराम पुत्र रामासामीचेथियार |
| | | | | 574/23 | निजी | नाथम् | 17 | लोगागुरु पत्नी गोपालराम |
| | | | | 574/24 | निजी | नाथम् | 92 | करपिया चेथियार पुत्र मुथालुचेथियार |
| | | | | 574/25 | निजी | नाथम् | 19 | चेलाचामी पुत्र करुप्पनन |
| | | | | 574/26 | निजी | नाथम् | 110 | 1. पप्पु पत्नी करुपासामी 2. सेल्वा पत्नी पशुपति |
| | | | | 574/27 | निजी | नाथम् | 24 | चेलाचामी पुत्र करुप्पनन |
| | | | | 574/28 | निजी | नाथम् | 225 | राजेन्द्रन पुत्र पिचाकुतिनादर |
| | | | | 574/29 | निजी | नाथम् | 91 | थंगाराज पुत्र अलागरसामी चेथियार |
| | | | | 574/30 | निजी | नाथम् | 21 | 1. दुईपांडी पुत्र काथन 2. अलागरमल पत्नी काथन |
| | | | | 574/31 | निजी | नाथम् | 19 | भास्करन पुत्र करुपिया चेथियार |
| | | | | 574/32 | निजी | नाथम् | 36 | 1. सेथुचेथियार के पुत्र सुकुमार 2. त्यागराजन |
| | | | | 574/35 | निजी | नाथम् | 46 | अलागरमल पत्नी चेलम चेथियार |
| | | | | 574/36 | निजी | नाथम् | 146 | 1. नारायणाकोनार के पुत्र पलानीवेल 2. करुप्पनन 3. थीरुमल |
| | | | | 574/39 | निजी | नाथम् | 10 | 1. वेलुपांडीधन के पुत्र मुरुगसन 2. साथानम 3. नागराजन 4. कुमार गाडियन मदर लक्ष्मीयामल |
| | | | | 574/40 | निजी | नाथम् | 48 | करुपिया पत्नी कृष्णन |
| | | | | 574/41 | निजी | नाथम् | 33 | चेलाचामी पुत्र करुप्पनन |
| | | | | 574/42 | निजी | नाथम् | 41 | वेलुईचामी पुत्र सीवालिंगाकोनार |
| | | | | 574/44 | निजी | नाथम् | 35 | कुपंगी पुत्र करुप्पाकोनार |
| | | | | 574/45 | निजी | नाथम् | 34 | नटराजन पुत्र करुपियापिल्लै |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|-------------------|-----------|------|-------|------|---|
| | | | | 574/46 | निजी | नाथम् | 18 | पांडी पुत्र वीरुमाकोनार |
| | | | | 574/47 | निजी | नाथम् | 26 | पिच्चीया पुत्र पोसाकोनार |
| | | | | 575/7 | निजी | नाथम् | 23 | देवामनीयमल पत्नी नारासिगम |
| | | | | 575/8 | निजी | नाथम् | 61 | पालानीयांदी पुत्र करुपनन |
| | | | | 575/9 | निजी | नाथम् | 133 | कमाचीमल पत्नी रामु |
| | | | | 575/10 | निजी | नाथम् | 36 | पोनराज पुत्र दुरईपाडियन |
| | | | | 575/11 | निजी | नाथम् | 26 | सेथुरमन पुत्र पेथाननचेथियार |
| | | | | 575/12 | निजी | नाथम् | 51 | राजेन्द्रन पुत्र मुथु मनिकम @ मुथनन चेथियार |
| | | | | 575/13 | निजी | नाथम् | 83 | 1. कासी पुत्र पुनिया नादिर 2. रमेश पुत्र सुब्रामनियन |
| | | | | 575/14 | निजी | नाथम् | 62 | सुबिया पुत्र सुन्दरापंडाराम |
| | | | | 575/15 | निजी | नाथम् | 39 | 1. रामासामी पुत्र पिच्ची 2. अम्मापिल्ले पत्नी पिच्चीपंडाराम |
| | | | | 575/29 | निजी | नाथम् | 52 | टनागराजु पुत्र मुथुचामी |
| | | | | 575/30 | निजी | नाथम् | 34 | गीतालक्ष्मी पत्नी अरुनाचलम |
| | | | | 575/32 | निजी | नाथम् | 12 | पांडी पत्नी अयावु |
| | | | | 575/34 | निजी | नाथम् | 36 | वेलाईचामी पुत्र वेलाईन |
| | | | | 575/36 | निजी | नाथम् | 25 | पलानीवेल पुत्र सुबन |
| | | | | 575/37 | निजी | नाथम् | 15 | ईदिश पत्नी मुरुगसन |
| | | | | 575/38 | निजी | नाथम् | 20 | पलानीवेल पुत्र सुबया |
| | | | | 575/39 | निजी | नाथम् | 17 | पलानीवेल पुत्र सुबया |
| | | | | 575/44 | निजी | नाथम् | 15 | मुरुगराज पुत्र पलानी |
| | | | 4)कुलासेकरनकोट्टई | 150/2 | निजी | शुष्क | 160 | 1. आर. राधाकृष्णन पुत्र स्व. रामाकोनार 2. रामासामी थेवर पुत्र वेलाईचामी थेवर |
| | | | | 150/7ए | निजी | शुष्क | 700 | आर. राधाकृष्णन पुत्र स्व. रामाकोनार |
| | | | | 151/1बी | निजी | शुष्क | 1461 | सिवा पुत्र स्व. सीवालिंगाकोनार |
| | | | | 151/4बी | निजी | शुष्क | 350 | सिवा पुत्र स्व. सीवालिंगाकोनार |
| | | | | 151/5ए | निजी | शुष्क | 275 | राजेश्वरन सेम देवाराम पुत्र डेविड |
| | | | | 151/8ए1 | निजी | शुष्क | 550 | राजेश्वरन सेम देवाराम पुत्र डेविड |
| | | | | 152/4बी | निजी | शुष्क | 805 | आर. ईलांगो पुत्र स्व. रामाकोनार |
| | | | | 152/6ए | निजी | शुष्क | 159 | सिवा पुत्र स्व. सीवालिंगाकोनार |
| | | | | 152/9ए | निजी | शुष्क | 390 | आर. ईलांगो पुत्र (स्व.) रामाकोनार |
| | | | | 152/10ए | निजी | शुष्क | 1175 | एन. पलानीचामी पुत्र नचीमुथु गाउंडर |
| | | | | 153/6ए1 | निजी | शुष्क | 700 | गुरु बंगारसामी |
| | | | | 153/6बी | निजी | शुष्क | 475 | आर. सी. मिसन |
| | | | | 153/7सी | निजी | शुष्क | 12 | 1. करुप्पाचामी के पुत्र गोपाल 2. राजेन्द्रन |
| | | | | 153/7डी1 | निजी | शुष्क | 400 | आर. सी. मिसन |
| | | | | 153/7ई1 | निजी | शुष्क | 1140 | आर. सी. मिसन |
| | | | | 159/3ए1ए | निजी | शुष्क | 775 | आर. ईलांगो पुत्र स्व. रामाकोनार |
| | | | | 159/3ए1सी | निजी | शुष्क | 230 | एम. रानी पत्नी मुथुकलाई |
| | | | | 159/4ए1 | निजी | शुष्क | 1625 | 1. भवानी पत्नी रमन 2. मनिकनदन पुत्र रामाकोनार |
| | | | | 159/5 | निजी | शुष्क | 215 | आर. ईलांगो पुत्र स्व. रामाकोनार |
| | | | | 162/1ए3 | निजी | शुष्क | 430 | दुरईपांडी पुत्र एम. सी. मलाईकोनार |
| | | | | 162/37 | निजी | नाथम् | 230 | के. कांथावेल पुत्र कुमारसन |
| | | | | 162/38 | निजी | नाथम् | 47 | पुचामल पत्नी शनमुगम |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----------|------|-------|------|---|
| | | | | 162/4ए1 | निजी | शुष्क | 855 | 1. सोलामलाई के पुत्र अजागु 2. वेलाईचानी 3. रामासामी मुपर के पुत्र अजागन 4. मायन 5. रामन |
| | | | | 162/4ए3 | निजी | शुष्क | 220 | वेलायीचानी पुत्र सोलामलाई मुपर |
| | | | | 162/40 | निजी | नाथम् | 69 | वेलायीचानी पुत्र सोलामलाई मुपर |
| | | | | 162/47 | निजी | नाथम् | 173 | 1. शेखर पुत्र सुबामणियन 2. मुथाजु पुत्र रामासामी |
| | | | | 162/8ए6आई | निजी | शुष्क | 80 | 1. सुबामणियन के पुत्र शेखर 2. राजेन्द्रन |
| | | | | 162/8ए6जे | निजी | शुष्क | 85 | रत्निलवेल |
| | | | | 162/8ए6के | निजी | शुष्क | 15 | 1. एस चिलापन 2. सुबाईया 3. धानम् 4. नारायण 5. एन सीथालक्ष्मी 6. आर नालमल 7. ईन्दुरानी 8. बालामनी 9. सुब्रह्मन्नीपिल्लै 10. कुमारसामी |
| | | | | 162/11ए1 | निजी | शुष्क | 195 | थाल्लाईवाई पाकीराजनपुरम् डायरी सोसायटी |
| | | | | 162/65 | निजी | नाथम् | 220 | पीचाईमनी पुत्र धादमनी सरवाई |
| | | | | 165/10सी | निजी | शुष्क | 2000 | 1. जयरामन पुत्र चिन्नासामी 2. रुकमनी पत्नी जयरामन 3. विजयकुमार पुत्र जयरामन |
| | | | | 165/10डी | निजी | शुष्क | 150 | एम मुथु पत्नी मीनाधि सुन्दरम |
| | | | | 165/10ई | निजी | शुष्क | 1560 | 1. जयरामन पुत्र चिन्नासामी 2. रुकमनी पत्नी जयरामन 3. विजयकुमार पुत्र जयरामन |
| | | | | 195/5 | निजी | शुष्क | 1245 | जी श्रीनगामल पत्नी गोविन्दराज |
| | | | | 195/6 | निजी | शुष्क | 300 | वैकिटमल पत्नी पुनईया नेकर |
| | | | | 195/7 | निजी | शुष्क | 1000 | अधिमथु |
| | | | | 195/8 | निजी | शुष्क | 372 | प्रभु संकर पुत्र पलानियप्पन |
| | | | | 195/10 | निजी | शुष्क | 1210 | एन. पलानिचावी पुत्र नाधिमथुमाउंडर |
| | | | | 196/7 | निजी | शुष्क | 1960 | पोनकानडा पेरुमल पुत्र पीचामुथु नादर |
| | | | | 196/8 | निजी | शुष्क | 1950 | रामा पाडियन पत्नी स्वर्गिय पाडीयन 2. स्वर्गिय पाडीयन के पुत्र सेलबम् 3. धंगम 4. राजा |
| | | | | 196/9बी | निजी | शुष्क | 420 | 1. नागलक्ष्मी पत्नी रामाईयाराज 2. रामाईयाराज के पुत्र मागुदापथीराज 3. शातिनारायणराज 4. कोन्डाल मनिवनन |
| | | | | 196/9सी | निजी | शुष्क | 3260 | पोनकानडा पेरुमल पुत्र पीचामुथु नादर |
| | | | | 196/1 | निजी | शुष्क | 1720 | अर्जुन पुत्र चोकाप्पन |
| | | | | 196/2 | निजी | शुष्क | 2400 | अर्जुन पुत्र चोकाप्पन |
| | | | | 196/3 | निजी | शुष्क | 2250 | एस. एम चिन्नया पुत्र मरपा गाउंडर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|------------|------|-------|-----------|--|
| | | | | 198/4ए4 | निजी | शुष्क | 1300 | 1. मुनियामल पत्नी स्वर्गिय पलानियाडी 2. चिन्नुसरवाई के पुत्र चन्दरन 3. राजनगम |
| | | | | 198/5सी1 | निजी | शुष्क | 4600 | अर्जुन पुत्र चोकाप्पन |
| | | | | 198/5सी2 | निजी | शुष्क | 550 | राजनगम पुत्र चिन्नुसरवाई |
| | | | | 198/5सी3 | निजी | शुष्क | 1055 | 1. मुनियामल पत्नी स्वर्गिय पलानियाडी 2. चिन्नुसरवाई के पुत्र चन्दरन 3. राजनगम |
| | | | | 198/5सी4 | निजी | शुष्क | 854 | चिन्नाकरुपु पुत्र चन्दरन |
| | | | | 198/5सी5 | निजी | शुष्क | 35 | राजनगम पुत्र चिन्नुसरवाई |
| | | | | 198/5सी6 | निजी | शुष्क | 300 | 1. मुनियामल पत्नी स्वर्गिय पलानियाडी 2. चिन्नुसरवाई के पुत्र चन्दरन 3. राजनगम |
| | | | | 198/7ए | निजी | शुष्क | 340 | अर्जुन पुत्र चोकाप्पन |
| | | | | 198/7बी | निजी | शुष्क | 1300 | राजनगम पुत्र चिन्नुसरवाई |
| | | | | 198/7सी | निजी | शुष्क | 500 | चिन्नाकरुपु पुत्र चन्दरन |
| | | | | 198/7डी | निजी | शुष्क | 1400 | 1. मुनियामल पत्नी पलानियाडी 2. चिन्नुसरवाई के पुत्र चन्दरन 3. राजनगम |
| | | | | 201/4 | निजी | शुष्क | 230 | 1. तमिलनाडु सिविल सप्लाय कार्पोसन 2. कमीशनर, वाडीपति पचायत युनियन |
| | | | | 201/5 | निजी | नाथम् | 26 | चिन्नासामी पुत्र कायामबु |
| | | | | 201/9 | निजी | नाथम् | 40 | आरमुगम पुत्र पलानि |
| | | | | 201/11 | निजी | नाथम् | 34 | अलगारसामी पुत्र मुनियप्पन |
| | | | | 201/13 | निजी | नाथम् | 24 | पी.पी.चाईयमल पत्नी पकियम |
| | | | | 201/24 | निजी | नाथम् | 18 | पेरुमल पुत्र विलान |
| | | | | 201/32 | निजी | नाथम् | 22 | समाईकलाई पुत्र मानियन |
| | | | | 201/33 | निजी | नाथम् | 11 | वि. शेखर पुत्र वेलाईचामी |
| | | | | 206/1बी1ए | निजी | शुष्क | 590 | सत्यामुर्ति पुत्र वेलाईचामी |
| | | | | 206/1बी1बी | निजी | शुष्क | 230 | 1. वेलाईचामी के पुत्र मायन 2. अजगन |
| | | | | 206/2बी1ए | निजी | शुष्क | 106 | विजय पुत्री पोन्नुचामी |
| | | | | 206/2बी1बी | निजी | शुष्क | 179 | अयामल पत्नी रामासामी |
| | | | | 206/2बी1सी | निजी | शुष्क | 23 360 | 1. जेसुराजा 2. ए. विनसेनट 3. अम्लाराज 4. अरुलडासन 5. नागामल 6. बोस 7. मुथुकानन 8. पाडियामल 9. रामन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|------------|------|-------|------|---|
| | | | | 206/2बी2 | निजी | शुष्क | 690 | 1. ए. विनसेनट 2. अम्लाराज 3. गुरुनाथन् 4. नानावली 5. जेसुराज 6. अरुलथासन 7. धनीलराज 8. सेलवारज 9. नागामल 10. पीटर 11. महीमाडोस 12. बोस 13. मुथुकानि 14. पाडियामल 15. पाडियन 16. गुरुवामल 17. रामन 18. करुप्पया |
| | | | | 206/2बी3 | निजी | शुष्क | 100 | मायन पुत्र मायन |
| | | | | 207/2ए1ए | निजी | शुष्क | 155 | अजगन पुत्र सोलाईमलाई |
| | | | | 207/2ए1बी | निजी | शुष्क | 560 | 1. चन्द्रशेखरन पुत्र मयन्दि |
| | | | | | | | 37 | 2. एस रज्जीत पुत्र सुन्दरराजन |
| | | | | 207/2ए2ए | निजी | शुष्क | 350 | मुथुईयाराज पुत्र चिननाथबी |
| | | | | 207/2बी2बी | निजी | शुष्क | 500 | 1. अजगन पुत्र सोलामलाई 2. रामाई पत्नी अजगन 3. रामासामी पुत्र मायामुप्पर 4. सामीमुप्पर पुत्र मुथुअजगु 5. मायन पुत्र थिरुमनी 6. कुडुमलाई पुत्र आयन 7. अजगु पुत्र सोलामलाई 8. गौविन्दामल पत्नी अनमल्लई |
| | | | | 207/2ए1सी | निजी | शुष्क | 245 | अजगन पुत्र सोलामलाई |
| | | | | 207/3बी1ए1 | निजी | शुष्क | 1380 | 1. शकारीयमल पत्नी स्वा. नटराजाथेवर 2. सी. दुराई 3. आर धन्म |
| | | | | 207/3बी1ए2 | निजी | शुष्क | 100 | राधीदेवी पत्नी स्वर्गिय मुरुगसन |
| | | | | 207/3बी1ए3 | निजी | शुष्क | 100 | राजागोपाल पुत्र वेलायुधम पिल्लै |
| | | | | 291/3बी1 | निजी | शुष्क | 260 | 1. विलीकोनार की पुत्री सुन्थमल 2. राजाधी 3. स्वीर्गिय एन्डीकोनर के पुत्र कारुपु 4. वेलारसु 5. कृष्णन |
| | | | | 291/3बी2 | निजी | शुष्क | 240 | 1. विलीकोनार की पुत्री सुन्थमल 2. राजाधी |
| | | | | 291/3बी3 | निजी | शुष्क | 345 | 1. ऐन्डीकोनर के पुत्र कारुपु 2. वेलारसु 3. कृष्णन |
| | | | | 291/4बी | निजी | शुष्क | 83 | ए. आर सोमासुन्दम चेतियार पुत्र अरुनाचलम् चेतियार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|---|
| | | | | 295/1 | निजी | शुष्क | 3775 | डेविड पुत्र ईसरील |
| | | | | 295/2 | निजी | शुष्क | 295 | चन्द्रश पत्नी आई डेविड |
| | | | | 296/2 | निजी | शुष्क | 2690 | चन्द्रश पत्नी आई डेविड |
| | | | | 296/3 | निजी | शुष्क | 3800 | एम रामर पुत्र मुरुकन्धी |
| | | | | 296/4ए | निजी | शुष्क | 670 | ईडु राधाकृष्णन् पुत्र ईडुकोन्डाल रेडियर |
| | | | | 296/5ए | निजी | शुष्क | 1650 | डी. कारुपिया पुत्र दुराईसामी |
| | | | | 297/2 | निजी | शुष्क | 260 | डेविड पुत्र ईसरील नादर |
| | | | | 297/3 | निजी | शुष्क | 1245 | डेविड पुत्र ईसरील नादर |
| | | | | 312/3बी | निजी | शुष्क | 1140 | एस. इन्दुरानी पत्नी सुबाईय |
| | | | | 312/4बी1 | निजी | शुष्क | 185 | शान्ति पत्नी राजेन्द्रन |
| | | | | 312/4बी2 | निजी | शुष्क | 225 | राजेन्द्रन पुत्र पालचामी |
| | | | | 312/4बी3 | निजी | शुष्क | 1200 | सी. सुन्दरी पत्नी आर चन्द्रन् |
| | | | | 312/5बी | निजी | शुष्क | 2600 | ए आर सोमासुन्दम चेतियार पुत्र अरुनाचलम चेतियार |
| | | | | 312/6बी1 | निजी | शुष्क | 200 | 1. विलीकोनार की पुत्री सुन्धमल 2. राजाथी 3. स्वीर्गिय अन्डीकोनर के पुत्र कारुपु 4. वेलासासु 5. कृष्णन |
| | | | | 312/6बी2 | निजी | शुष्क | 200 | 1. विलीकोनार की पुत्री सुन्धमल 2. राजाथी |
| | | | | 313/5 | निजी | शुष्क | 750 | एस. इन्दुरानी पत्नी सुबाईय |
| | | | | 313/6 | निजी | शुष्क | 1500 | एस. इन्दुरानी पत्नी सुबाईय |
| | | | | 313/7 | निजी | शुष्क | 960 | एस. इन्दुरानी पत्नी सुबाईय |
| | | | | 313/8 | निजी | शुष्क | 1990 | एस. इन्दुरानी पत्नी सुबाईय |
| | | | | 313/9 | निजी | शुष्क | 750 | एस. इन्दुरानी पत्नी सुबाईय |
| | | | | 313/10 | निजी | शुष्क | 950 | एस. इन्दुरानी पत्नी सुबाईय |
| | | | | 314/1ए | निजी | शुष्क | 1690 | त्यागराजन पुत्र संगुपिल्लै |
| | | | | 314/1बी | निजी | शुष्क | 1625 | 1. टी सानगुपिल्लै पुत्र थंगामुथुपिल्लै 2. पोनामल पुत्री थंगामुथुपिल्लै |
| | | | | 314/1सी | निजी | शुष्क | 340 | 1. माईनर्स रानी 2. शिवकुमार 3. चन्द्रावथन गाडियन मदर चिलापलानियमल |
| | | | | 314/2 | निजी | शुष्क | 135 | त्यागराजन पुत्र संगुपिल्लै |
| | | | | 315/2 | निजी | शुष्क | 300 | 1. माईनर्स रानी 2. शिवकुमार 3. चन्द्रावथन गाडियन मदर चिलापलानियमल |
| | | | | 315/3 | निजी | नम | 50 | 1. माईनर्स रानी 2. शिवकुमार 3. चन्द्रावथन गाडियन मदर चिलापलानियमल |
| | | | | 315/4ए | निजी | नम | 120 | 1. माईनर्स रानी 2. शिवकुमार 3. चन्द्रावथन गाडियन मदर चिलापलानियमल |
| | | | | 315/4बी1 | निजी | नम | 80 | 1. माईनर्स रानी 2. शिवकुमार 3. चन्द्रावथन गाडियन मदर चिलापलानियमल |
| | | | | 316/5 | निजी | शुष्क | 6380 | कं कुमारसामी पुत्र कृष्णारेडियर |
| | | | | 316/7 | निजी | शुष्क | 1020 | मुनियामल पत्नी मुथन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|---|
| | | | | 317/6 | निजी | शुष्क | 1090 | आर सुबाईय पुत्र रामालिंगम |
| | | | | 317/7 | निजी | शुष्क | 1760 | आर सुबाईय पुत्र रामालिंगम |
| | | | | 317/8 | निजी | शुष्क | 2425 | आर सुबाईय पुत्र रामालिंगम |
| | | | | 326/2सी | निजी | शुष्क | 3780 | मुरुगसन पुत्र सेयुककोनार |
| | | | | 326/4 | निजी | शुष्क | 30 | मुरुगसन पुत्र सेयुककोनार |
| | | | | 340/1 | निजी | शुष्क | 340 | 1. माईनर्स रानी 2. शिवकुमार 3. चन्द्रावधन गाडियन मदर विलापलानियमल |
| | | | | 343/1डी | निजी | शुष्क | 1200 | टी.पोन पेरुमल पुत्र थावामनी सरवाई |
| | | | | 343/1ई2 | निजी | शुष्क | 280 | 1. कान्तासामी गाउंडर के पुत्र पलानिचामी 2. नालुचामी |
| | | | | 343/1ई3 | निजी | शुष्क | 4700 | के पलानिचामी पुत्र कान्तासामी |
| | | | | 343/1ई4 | निजी | शुष्क | 8400 | पी नालुचामी पुत्र पलानिचामीगाउंडर |
| | | | | 343/1ई5 | निजी | शुष्क | 200 | पलानिचामी पुत्र कान्तासामी गाउंडर |
| | | | | 343/1ई6 | निजी | शुष्क | 4700 | पलानिचामी पुत्र कान्तासामी गाउंडर |
| | | | | 343/1एफ1 | निजी | शुष्क | 3800 | 1. पलानिचामी पुत्र कान्तासामी गाउंडर 2. सेलवालक्ष्मी पत्नी पलानिचामी |
| | | | | 343/1एफ2 | निजी | शुष्क | 3700 | सरस्वती पत्नी चिन्ताचामी |
| | | | | 346/4ए | निजी | शुष्क | 3030 | थिरुमलाईचामी पुत्र कुप्पानगाउंडर |
| | | | | 346/4बी3 | निजी | शुष्क | 2035 | कालीयप्पागाउंडर पुत्र कालीयप्पागाउंडर |
| | | | | 347/2 | निजी | शुष्क | 6 | 1. वानजाथल पत्नी करुपासामी 2. मुथुलक्ष्मी 3. सीलवी 4. मुरुगनधम |
| | | | | 347/3ए1 | निजी | शुष्क | 325 | विल्लामुथु पुत्र मुथुसामी गाउंडर |
| | | | | 347/3ए2 | निजी | शुष्क | 150 | 1. वानजाथल पत्नी करुपासामी 2. मुथुलक्ष्मी 3. सीलवी 4. मुरुगनधम |
| | | | | 347/3बी | निजी | शुष्क | 4660 | शिवासामी गाउंडर पुत्र कुप्पानगाउंडर |
| | | | | 347/4 | निजी | शुष्क | 540 | शिवासामी गाउंडर पुत्र कुप्पानगाउंडर |
| | | | | 348/1बी | निजी | शुष्क | 3885 | शिवासामी गाउंडर पुत्र कुप्पानगाउंडर |
| | | | | 348/2 | निजी | शुष्क | 235 | 1. पाप्पाईमल पत्नी वेक्तासामी रेडियार 2. वेक्तासामी रेडियार की पुत्री ईन्नानी 3. शिलवारानी 4. जया 5. कालारानी 6. पुत्र राजागोपाल |
| | | | | 348/3 | निजी | शुष्क | 2165 | बी कारुपन्न गाउंडर पुत्र वेलाईगाउंडर |
| | | | | 350/5बी | निजी | शुष्क | 140 | वेक्तासामी रेडियार पुत्र लिगारेडियार |
| | | | | 353/2 | निजी | शुष्क | 62 | 1. वी नहेरु वेक्तासामी 2. रेवथी पुत्री वेक्तासामी 3. वेक्तामल पत्नी रामुरेडियार |
| | | | | 353/3 | निजी | शुष्क | 735 | 1. पी. वेलाऊचामी पुत्र पलानिचामी गाउंडर 2. एम. पलानिचामी पुत्र मुथुसामी |
| | | | | 353/4 | निजी | शुष्क | 715 | 1. पी. वेलाऊचामी पुत्र पलानिचामी गाउंडर 2. एम. पलानिचामी पुत्र मुथुसामी |
| | | | | 354/2 | निजी | शुष्क | 6050 | 1. वी नहेरु वेक्तासामी 2. रेवथी पुत्री वेक्तासामी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|------|-------|------|---|
| | | | | 354/3 | निजी | शुष्क | 5700 | 1. पी. वेलाऊचामी 2. एम. पालानिचामी |
| | | | | 354/4 | निजी | शुष्क | 4670 | रामाकृष्णन पुत्र सुबारेडियर |
| | | | | 355/2ए1 | निजी | शुष्क | 3815 | वेलुचामी पुत्र विल्लाप्पागाउंडर |
| | | | | 356/2 | निजी | शुष्क | 1300 | विल्लामुथु पुत्र मुथुसामी गाउंडर |
| | | | | 356/3 | निजी | शुष्क | 12 | 1. मुथुराज पुत्र चिल्लामुथु 2. शानमुगावेल पुत्र शिवासामीगाउंडर |
| | | | | 356/9 | निजी | शुष्क | 1300 | एस. शानमुगावेल पुत्र शिवासामीगाउंडर |
| | | | | 534/3 | निजी | नाथम् | 80 | रामन पुत्र मारियन |
| | | | | 534/4 | निजी | नाथम् | 32 | अजगर पुत्र अयामपेरुमल |
| | | | | 534/5 | निजी | नाथम् | 176 | एस. सेखर पुत्र सुबारमणिपिल्लै |
| | | | | 534/14 | निजी | नाथम् | 4 | |
| | | | | | | | 37 | मूथुकुट्टी पुत्र सोलाई |
| | | | | 534/15 | निजी | नाथम् | 50 | 1. रामासामी 2. मूथुकुट्टी |
| | | | | 534/17 | निजी | नाथम् | 34 | 1. रामासामी के पुत्र कनईया 2. पौलचामी |
| | | | | 534/18 | निजी | नाथम् | 43 | एम अययाकन्नु |
| | | | | 534/19 | निजी | नाथम् | 9 | सोलाई पुत्र वेलाचामी |
| | | | | 534/38 | निजी | नाथम् | 2 | सोलाई पुत्र वेलाचामी |
| | | | | 534/39 | निजी | नाथम् | 53 | एम अययाकन्नु |
| | | | | 534/40 | निजी | नाथम् | 12 | रामु पुत्र मयन |
| | | | | 536/15 | निजी | नाथम् | 18 | 1. अजगु पुत्र शोलाईमलाई 2. अलगामल |
| | | | | 536/17 | निजी | नाथम् | 43 | एस मुथुवेल पुत्र स्वामीनाथन |
| | | | | 536/18 | निजी | नाथम् | 131 | पुनगोडी पत्नी देवराज |
| | | | | 537/1 | निजी | नाथम् | 193 | कै. मारियन पुत्र कंगामुपर |
| | | | | 537/2 | निजी | नाथम् | 155 | थंगामल पत्नी स्वीगीय शिवालिगम |
| | | | | 537/3 | निजी | नाथम् | 110 | पाथ्याईमल पत्नी चिन्नारेकन्न |
| | | | | 537/4 | निजी | नाथम् | 50 | नालियामल पत्नी मुथु थेवर |
| | | | | 537/5 | निजी | नाथम् | 19 | शिवाकुमार पुत्र मुथु थेवर |
| | | | | 537/6 | निजी | नाथम् | 17 | मुथुकृष्णन पुत्र मुथुथेवर |
| | | | | 537/7 | निजी | नाथम् | 18 | एम. रवि पुत्र मुथु थेवर |
| | | | | 537/9 | निजी | नाथम् | 90 | पेराईसामी कोनार पुत्र वेलाईचामी कोनार |
| | | | | 537/10 | निजी | नाथम् | 161 | 1. शिवालिगम के पुत्र दुराईपाडी 2. मुथु 3. कासी 4. भूमि |
| | | | | 537/11 | निजी | शुष्क | 6 | चिनाईयकोनार पुत्र पेरीयासामी कोनार |
| | | | | 537/19 | निजी | नाथम् | 145 | पी. सुन्दराजन पुत्र पेरीयासामी थेवर |
| | | | | 537/20 | निजी | नाथम् | 121 | पी. चन्द्रा पुत्री पेरीयासामी थेवर |
| | | | | 538/13 | निजी | नाथम् | 117 | परमासिवम पुत्र कांथन |
| | | | | 538/28 | निजी | नाथम् | 14 | काथीरवेल पुत्र रामन |
| | | | | 538/31 | निजी | नाथम् | 90 | 1. पाप्पुमल पत्नी नागन 2. राजा पुत्र नागन |
| | | | | 538/33 | निजी | नाथम् | 47 | रामानाथन पुत्र मुथु |
| | | | | 539/20 | निजी | नाथम् | 94 | एस. गुरुसामी पुत्र सीनीराजा |
| | | | | 539/21 | निजी | नाथम् | 72 | चिन्नाचामी पुत्र अयवर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------------|--------------------|---|---------|------|-------|------|---|
| | | | | 539/22 | निजी | नाथम् | 82 | 1. दी. सोलाई पुत्र वेलुचामी 2. वेलुचामी की पुत्री पलानीमल 3. पकियम |
| | | | | 540/1 | निजी | नाथम् | 50 | पेरियासामी |
| | | | | 540/3 | निजी | नाथम् | 15 | करुणईया पत्नी स्व. वेलियन |
| | | | | 540/5 | निजी | नाथम् | 7 | नागराजन पुत्र वेलियन |
| | | | | 544/23 | निजी | नाथम् | 45 | पी. ओचाधेवर पुत्र पीनाधेवर |
| | | | | 544/25 | निजी | नाथम् | 38 | लक्ष्मी पत्नी पेरियासामी |
| | | | | 544/28 | निजी | नाथम् | 27 | लक्ष्मी पत्नी पेरियासामी |
| | | | | 544/30 | निजी | नाथम् | 96 | 1. अययर पुत्र चिन्नामुथु 2. अइयानकलाई पुत्र स्व. सोलाईपन |
| | | | | 544/31 | निजी | नाथम् | 86 | 1. अययर पुत्र चिन्नामुथु 2. अइयानकलाई पुत्र स्व. सोलाईपन |
| | | | | 544/33 | निजी | नाथम् | 25 | अलागरसामी पुत्र (स्व.) सोलाईमलाई |
| | | | | 544/38 | निजी | नाथम् | 26 | कालीमल पत्नी (स्व.) वीरानन |
| | | | | 544/39 | निजी | नाथम् | 31 | गननमुथु पुत्र गुरुसामी |
| | | | | 544/40 | निजी | नाथम् | 65 | एस. राजु पुत्र (स्व.) सीनी |
| | | | | 544/41 | निजी | नाथम् | 29 | एस. मुथुमल |
| | | | | 545/2 | निजी | नाथम् | 49 | 1. स्व. चिन्नासामी के पुत्र घर्मराज 2. सिंगराज |
| | | | | 545/3 | निजी | नाथम् | 30 | पेरुमई पत्नी स्व. रामास्वामी |
| | | | | 545/6 | निजी | नाथम् | 24 | मसीलामानी पुत्र अमासी |
| | | | | 545/9 | निजी | नाथम् | 51 | 1. वेलाचामी के पुत्र रामाचंद्रन 2. स्व. रामालिंगम 3. अरिचंद्रन |
| | | | | 545/12 | निजी | नाथम् | 48 | मुनियादी पुत्र पुवी |
| | | | | 545/13 | निजी | नाथम् | 58 | सिंगराज पुत्र चिन्नाचामी |
| | | | | 545/14 | निजी | नाथम् | 78 | अययर पुत्र कोमली |
| | 2) उत्तरी मदुरै | 1) थेनुर प्रथम विट | | 7/1बी | निजी | शुष्क | 2725 | थेनुर थनीर पंथल ऐक्टिंग मैनेजर |
| | | | | 8/1बी1ए | निजी | शुष्क | 1080 | 1. सुन्दरराज पुत्र पुसरी 2. थीरुवाई पत्नी पुवी 3. वेटाई पुत्र अरुमुगम 4. पलानीमल पुत्री चलन 5. चिन्नाया पुत्र रमन 6. पंचवस्नम पत्नी पांडी 7. पांडी के पुत्र बोस 8. मयादी 9. मुरुगन 10. अरुमुगम 11. गनेशन 12. कानन 13. पिच्ची 14. पनीस्सेल्वम पुत्र पिच्ची 15. वेलयनसरवाई 16. पम्बीयन असासी 17. विलारसरवाई 18. जवानकिनकिन सायबू 19. सेख अमीर सायबू 20. रमन सम्पन 21. एस. कथरमेथिन पुत्र एस. सेख इब्राहिम साहिब |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|------|--|
| | | | | 8/4ए | निजी | शुष्क | 130 | अययपन पुत्र वीरपाथीरन |
| | | | | 9/5ए1 | निजी | शुष्क | 176 | करुप्पनन पुत्र कांथामुथुसरवाई |
| | | | | 9/5ए3 | निजी | शुष्क | 24 | डा. पारवतिवरथिनी पत्नी कनगावल मनोहरन |
| | | | | 9/5ए4 | निजी | शुष्क | 586 | संगीता पुत्री एस. वीरपथिरन |
| | | | | 10/4ए1 | निजी | शुष्क | 40 | अब्बास (मदुरई) |
| | | | | 10/4ए4 | निजी | शुष्क | 136 | रशिया बेगम पत्नी मेनुस्थीन |
| | | | | 11/2ए | निजी | शुष्क | 150 | थेनुर थनीर पाथल ऐक्टिंग मेनेजर |
| | | | | 11/2बी | निजी | शुष्क | 50 | थेनुर थनीर पाथल ऐक्टिंग मेनेजर |
| | | | | 13/1बी1 | निजी | नम | 1860 | 1. ए. प्यारी बेगम पत्नी मोहम्मद शेरिफ 2. मुसदक अलिकन पुत्र मकिसकन |
| | | | | 13/2 | निजी | नम | 35 | 1. ए. प्यारी बेगम पत्नी मोहम्मद शेरिफ 2. मुसदक अलिकन पुत्र मकिसकन |
| | | | | 13/5ए1 | निजी | शुष्क | 1940 | अबदुल अजिसखान पुत्र मथिनिकान |
| | | | | 13/5ए2 | निजी | शुष्क | 520 | लता पत्नी मुरुगन |
| | | | | 13/5बी | निजी | शुष्क | 350 | अबदुल अजिसखान पुत्र मथिनिकान |
| | | | | 15/2सी3ए | निजी | शुष्क | 330 | 1. आर. पदमावति 2. पी. आर. सरवनन |
| | | | | 15/3 | निजी | शुष्क | 470 | बालासरस्वति पत्नी मयादी |
| | | | | 15/4 | निजी | शुष्क | 423 | आर. पदमावति |
| | | | | 16/1ए2 | निजी | शुष्क | 3 | लक्ष्मी पत्नी कानन |
| | | | | 16/2ए1बी | निजी | शुष्क | 67 | लक्ष्मी पत्नी कानन |
| | | | | 16/2ए1ए | निजी | शुष्क | 122 | एल. सेथीलकुमार लिगासामी |
| | | | | 16/2ए2 | निजी | शुष्क | 176 | साथया सरवाई पुत्र चिदमपरमसरवाई |
| | | | | 17/1बी | निजी | नम | 80 | 1. पनीरसेल्वम पुत्र एस. एम. नटराजन 2. पी. आर. सरवनन |
| | | | | 18/4 | निजी | नम | 70 | 1. ए. उसफ शेरिफ 2. काथर शेरिफ 3. मोहम्मद शेरिफ 4. कबूर शेरिफ |
| | | | | 19/2 | निजी | नम | 1070 | 1. अमरज्योति पुत्री गोपाल 2. गोतम पुत्र कासीनदार 3. रमेशबाबू पुत्र वैकटाचलापथी |
| | | | | 21/1ए1 | निजी | नम | 200 | थालीवर, थेनुर पालीवसल |
| | | | | 21/4बी | निजी | नम | 880 | कजिनी मोहम्मद पुत्र समसुदीन |
| | | | | 21/5ए | निजी | नम | 510 | कै. नयना राउथर |
| | | | | 22/1बी | निजी | नम | 1465 | 1. सीवागमीयमल 2. पी. सुगुना 3. पी. सटेला 4. ईमालडा डेविड 5. पी. अरुलराज 6. पी. परमासिवम 7. एम. मनोज 8. एम. जाफरसेट 9. वनाजा 10. कै. सेल्वा कुमार 11. मरीसाबीवी 12. कै. मुरुमुथु 13. एम. एस. सलीम |
| | | | | 22/2 | निजी | नम | 40 | 1. पी. थारमर 2. वी. मुथुकृष्णन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----------|------|-------|------|---|
| | | | | 97/1 | निजी | शुष्क | 735 | मै. शीलारानी टेक्सटाईलस लि. |
| | | | | 97/2 | निजी | शुष्क | 115 | मै. शीलारानी टेक्सटाईलस लि. |
| | | | | 97/3 | निजी | शुष्क | 2 | मै. शीलारानी टेक्सटाईलस लि. |
| | | | | 99/1 | निजी | शुष्क | 1745 | मै. शीलारानी टेक्सटाईलस लि. |
| | | | | 99/2 | निजी | शुष्क | 350 | मै. शीलारानी टेक्सटाईलस लि. |
| | | | | 99/3 | निजी | शुष्क | 120 | मै. शीलारानी टेक्सटाईलस लि. |
| | | | | 99/4 | निजी | शुष्क | 115 | मै. शीलारानी टेक्सटाईलस लि. |
| | | | | 100/8ए | निजी | शुष्क | 840 | एस. राजेन्द्रन पुत्र शनमुगासुन्दरम पिल्लै |
| | | | | 100/8बी3 | निजी | शुष्क | 25 | मीनालोसानी पत्नी करीकल्लन |
| | | | | 100/8बी1ए | निजी | शुष्क | 1185 | 1. अरुमुगम पुत्र पांडी 2. मुनिमल पत्नी चेलापांडियन 3. सेधु पत्नी रमईया 4. जे. मुनियामल पत्नी जयामनि 5. पालाचामी पुत्र अरुमुगम 6. वालीमेल पत्नी पालाचामी 7. कंधासामी पुत्र अरुमुगम |
| | | | | 102/3ए | निजी | शुष्क | 680 | पेथामल पत्नी गनेशन |
| | | | | 102/3बी | निजी | शुष्क | 1010 | पेथामल पत्नी गनेशन |
| | | | | 102/3सी | निजी | शुष्क | 1800 | 1. जोसफ डेनियलस फर्सेस पुत्र जोसफ एंथोनी फर्सेस 2. ननसिस फर्सेस पत्नी जोसफ एंथोनी फर्सेस |
| | | | | 102/4 | निजी | शुष्क | 368 | मनीमेललाई पत्नी राजामनी |
| | | | | 102/5 | निजी | शुष्क | 310 | मधुरामपाल पत्नी गनपति |
| | | | | 102/6 | निजी | शुष्क | 320 | मुथुलक्ष्मी पत्नी गोविन्दराजन |
| | | | | 103 | निजी | शुष्क | 1890 | ईस्ट इंडिया कार्पोरेशन, थेनुर |
| | | | | 105/1बी1 | निजी | शुष्क | 1700 | घनशेखरन पुत्र रामाचंद्रन |
| | | | | 105/1बी5 | निजी | शुष्क | 150 | टी. कामराज |
| | | | | 105/3 | निजी | शुष्क | 925 | 1. के. नीला 2. के. धनम |
| | | | | 108/1बी | निजी | नम | 964 | घनदीसवरी पत्नी नेदुनचेजिया. पांडियन |
| | | | | 119/1 | निजी | नाथम् | 43 | आर. सुबुलक्ष्मी |
| | | | | 119/2 | निजी | नाथम् | 24 | मुथु पत्नी गनेशन |
| | | | | 119/3 | निजी | नाथम् | 25 | रमईयाकोनार पुत्र थीरुवेट्याकोनार |
| | | | | 119/5 | निजी | नाथम् | 52 | मीनाचीमल पत्नी एम. करुपियाकोनार |
| | | | | 127/8 | निजी | शुष्क | 990 | मै. शीलारानी टेक्सटाईलस लि. |
| | | | | 134/1 | निजी | नाथम् | 5 | 1. पिच्चामल पत्नी स्व. सोमासुन्दरम चेथियार 2. सेथुरमन पुत्र स्व. सोमासुन्दरम चेथियार 3. स्व. सोमासुन्दरम चेथियार की पुत्री सरोजा 4. जयलक्ष्मी 5. मुथुलक्ष्मी |
| | | | | 134/2 | निजी | नाथम् | 26 | सेथुरमन पुत्र स्व. सामासुन्दरम चेथियार |
| | | | | 134/3 | निजी | नाथम् | 30 | सबिया पत्नी बाबू |
| | | | | 134/4 | निजी | नाथम् | 24 | 1. करुपाचेथियार के पुत्र के. नटराजन 2. के. पनीरसेल्वम |
| | | | | 134/5 | निजी | नाथम् | 23 | लक्ष्मी पत्नी रामाकृष्णन |
| | | | | 134/6 | निजी | नाथम् | 45 | मुमताज |
| | | | | 134/7 | निजी | नाथम् | 45 | रामाकृष्णन पुत्र मुथूरुलन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|------|-------|-----|--|
| | | | | 134/8 | निजी | नाथम् | 47 | धीरावियम पुत्र मुथुकृष्णन चेथियार |
| | | | | 134/9 | निजी | नाथम् | 44 | पालाचामी पुत्र मुथुकृष्णन चेथियार |
| | | | | 134/10 | निजी | नाथम् | 103 | वीरपथिरन पुत्र वेलाईनसरवाई |
| | | | | 134/12 | निजी | नाथम् | 35 | करुपिया पत्नी स्व. एम. नारायणन |
| | | | | 134/14 | निजी | नाथम् | 35 | सुन्दराजन पुत्र पुरुरी |
| | | | | 134/15 | निजी | नाथम् | 49 | जयरामन पुत्र चिन्नाईय |
| | | | | 134/17 | निजी | नाथम् | 34 | पिच्ची पुत्र पेरायीसामी |
| | | | | 134/18 | निजी | नाथम् | 59 | बोस पुत्र पेरीईसामी |
| | | | | 134/19 | निजी | नाथम् | 120 | थीरुवेटीयाकोनार पुत्र पेरियमपिल्लैकोनार |
| | | | | 134/20 | निजी | नाथम् | 101 | अरुमुगम पुत्र वेटाई |
| | | | | 134/21 | निजी | नाथम् | 9 | मीनाल पत्नी सेवुगन |
| | | | | 134/25 | निजी | नाथम् | 65 | शेखर पुत्र सेवुगनसम्पन |
| | | | | 134/27 | निजी | नाथम् | 35 | 1. भगवान के पुत्र करुप्पन 2. भगवान 3. पावी |
| | | | | 134/30 | निजी | नाथम् | 2 | जयरामन पुत्र चिन्नाईय |
| | | | | 134/31 | निजी | नाथम् | 98 | अजागमल पत्नी पेरायासामी |
| | | | | 135/2 | निजी | नाथम् | 60 | राजा पुत्र पुनिया |
| | | | | 135/3 | निजी | नाथम् | 80 | के. पेरुमल पुत्र करुथन |
| | | | | 136/2 | निजी | नाथम् | 65 | 1. मुकनसरवाई पुत्र ईरुलाप्पनसरवाई 2. मुरुगन पुत्र मुकनसरवाई |
| | | | | 136/4 | निजी | नाथम् | 111 | चिन्नामल पत्नी सकारिया |
| | | | | 137/2 | निजी | नाथम् | 74 | 1. सी. पेरीयाकरुपाथेवर की पुत्री मलारकोडी 2. मुथुलक्ष्मी 3. पांडी पुत्र सी. पेरीयाकरुपाथेवर 4. पी. थालामबुसरवाई पुत्र पम्पईनसरवाई 5. अंगमल पत्नी थालम्बु |
| | | | | 137/4 | निजी | नाथम् | 85 | पी. थालामबुसरवाई पुत्र पम्पईनसरवाई |
| | | | | 139/2 | निजी | नाथम् | 80 | मनोनमानी पत्नी स्व. मारथंडन |
| | | | | 139/4 | निजी | नाथम् | 77 | 1. एम. सुबईया 2. श्रीथर पुत्र स्व. मारथंडन 3. मिनाची 4. लक्ष्मी 5. चन्द्रा |
| | | | | 139/5 | निजी | नाथम् | 63 | आर. वली |
| | | | | 139/7 | निजी | नाथम् | 152 | धनालक्ष्मी पत्नी मुथुचामी |
| | | | | 139/8 | निजी | नाथम् | 130 | धनालक्ष्मी पत्नी मुथुचामी |
| | | | | 139/9 | निजी | नाथम् | 29 | धनालक्ष्मी पत्नी मुथुचामी |
| | | | | 140/1 | निजी | नाथम् | 234 | धशरथन पुत्र वेलाचामी |
| | | | | 140/2 | निजी | नाथम् | 165 | कंथासामी पुत्र संगारातिगमपिल्लै |
| | | | | 140/3 | निजी | नाथम् | 46 | 1. पी. मुरुगन पुत्र पलानीयापिल्लै 2. एम. सेल्वी पत्नी मुरुगन |
| | | | | 142/2 | निजी | नाथम् | 95 | पेचीमल |
| | | | | 142/3 | निजी | नाथम् | 33 | परमासामी पुत्र सवारीमलाई |
| | | | | 142/4 | निजी | नाथम् | 32 | कान् पुत्र गोविन्दसामी पिल्लै |
| | | | | 143/1 | निजी | नाथम् | 79 | शीनीथेवर पुत्र ओचाथेवर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|------|-------|-----|---|
| | | | | 143/3 | निजी | नाथम् | 239 | 1. टी. लोगानाथन 2. टी. रामासिगम 3. सुन्दरराज 4. करुनानिधि 5. राजेन्द्रन 6. कर्मागम |
| | | | | 143/5 | निजी | नाथम् | 1 | एस. वीरालक्ष्मीमल |
| | | | | 143/6 | निजी | नाथम् | 90 | 1. विलसन पुत्र मुथईयानादर 2. वी. सुमंथी पत्नी विल्सन |
| | | | | 143/9 | निजी | नाथम् | 36 | वैकदासामी पुत्र अलागरसामी |
| | | | | 143/10 | निजी | नाथम् | 34 | एन. कंगावली पत्नी स्व. पी. नारायणन |
| | | | | 144/1 | निजी | नाथम् | 106 | चेलापांडी पुत्र मुनियांदी |
| | | | | 144/5 | निजी | नाथम् | 111 | लक्ष्मी पत्नी धर्मराजन |
| | | | | 144/6 | निजी | नाथम् | 70 | आचुकलाई पुत्र चिन्नाथेवर |
| | | | | 144/8 | निजी | नाथम् | 1 | एस नटराजन |
| | | | | 146/2 | निजी | शुष्क | 25 | मुरुगेसन पुत्र पांडीकोनार |
| | | | | 146/3बी1 | निजी | नम | 95 | विश्वभारती पुत्र गनेसा अययर |
| | | | | 146/14ए | निजी | शुष्क | 210 | विश्वभारती पुत्र गनेसा अययर |

[फा. सं. भाराराप्रा/तक./एलए/बीएसएम/नागरी 3(डी)5/2006]

पी. एस. राणा, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2007

S.O. 57(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1213(E), dated the 28th July, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 28th July, 2006 and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 7 on the stretch of land from Km 409.000 to Km 427.000 (Bangalore-Bale-Madurai-Section) in Madurai District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express" and "Dhinathanthi", both dated the 20th September, 2006, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And, whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 409.000 to Km 427.000 (Bangalore-Salem-Madurai Section) of the National Highway No.7 in the State of Tamil Nadu.

| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in square metres) | Name of the land owner / Interested persons |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Madurai | 1.Vadipatti | (1)Nagari | 18/2A | Private | Dry | 4000 | Jashwanth Babu S/o. PAK Alagarsamy |
| | | | | 19/5 | Private | Wet | 06 | Kulam Moideenkan ghor saibu S/o. Mathinabeevi 1, Late.Mahaboobsh a saibu sons Gabharkhan ghor 2, Yusubkhan 3, Mathoomali 4, Amiraan 5, Babun 6, Amirbeevi 7, Budan beevi 8, Kathar beevi 9, Pappammal 10, Piyari 11. |
| | | | | 20/2 | Private | Dry | 900 | Jashwanth Babu S/o. PAK Alagarsamy |
| | | | | 55/1A | Private | Wet | 200 | Kajalakshmi W/o. M.Chandrasekara n |
| | | | | 55/2A | Private | Wet | 130 | Balaji Ferros Industries Director Krishnan |
| | | | | 55/3A | Private | Wet | 100 | J. Gireeda Sudhasini W/o. David Prathapsingh |
| | | | | 55/4A | Private | Wet | 67 | J. Gireeda, Sudhasini W/o. David Prathapsingh |
| | | | | 55/5A1 | Private | Wet | 50 | Panneerselvam S/o. Muniyandi Nadar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|----------|-----|-----|---|
| | | | | 55/5A2 | Private. | Wet | 200 | Sivapackiyam W/o.Muniyandi (Late) 1, Muniyandi (Late) sons Panneerselvam 2, Krishnan 3, Madasamy 4, Chandrasekaran 5. |
| | | | | 57/6 | Private | Wet | 165 | Simfra Frozen Foods Pvt., Ltd., Director Francis J.Pallan |
| | | | | 57/7 | Private | Wet | 150 | Simfra Frozen Foods Pvt., Ltd., Director Francis J.Pallan |
| | | | | 57/8A1 | Private | Wet | 800 | Nagari Fenner Conveyor Belting Pvt., Ltd., Director T.G.Mohanram |
| | | | | 57/8A2 | Private | Wet | 100 | Nagari Fenner Conveyor Belting Pvt.Ltd., Director T.G.Mohanram |
| | | | | 57/9A | Private | Wet | 300 | Fenner Conveyor Belting Pvt.Ltd., Director R.Wilkinson |
| | | | | 57/10A | Private | Wet | 250 | Fenner Conveyor Belting Pvt., Ltd., Director R.Wilkinson |
| | | | | 63/1 | Private | Wet | 700 | Essan S/o. Kamaraj |
| | | | | 63/2A | Private | Wet | 350 | Essan S/o. Kamaraj |
| | | | | 63/2C | Private | Wet | 115 | Essan S/o. Kamaraj |
| | | | | 63/3B | Private | Wet | 161 | Unique Belting Pvt.Ltd., Guardian R.Rajasudhakaran (Present Managing Director) |
| | | | | 63/3C | Private | Wet | 290 | Unique Belting Pvt.Ltd., Guardian R.Rajasudhakaran (Present Managing Director) |
| | | | | 63/3D | Private | Wet | 67 | Unique Belting Pvt.Ltd., Guardian R.Rajasudhakaran (Present Managing Director) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 63/6 | Private | Wet | 09 | Jeyasekaran S/o. Kasiraman Chettiar |
| | | | | 64/3A | Private | Wet | 1200 | Essan S/o. Kamaraj |
| | | | | 68/1A | Private | Wet | 1150 | Sornam W/o. Arumugampillai 1, Arumugampillai sons Murugesan 2, Subramani 3, Chinnaponnu ammal W/o. Manivel 4, Rebekka Navamani W/o. Prabhakar Navamani 5. |
| | | | | 69/1A1A | Private | Wet | 475 | Shanmugeshwari W/o. Anandhakrishnan |
| | | | | 69/1A1B | Private | Wet | 1650 | Anandhakrishnan S/o. Ramasamynadar |
| | | | | 69/1A2 | Private | Wet | 700 | S.Rejendran S/o. Sangunadar |
| | | | | 69/3A | Private | Wet | 667 | Rebekka Navamani W/o. Prabhakar Navamani |
| | | | | 70/1 | Private | Dry | 1600 | Shanmugeshwari W/o. Anandhakrishnan |
| | | | | 73/1A | Private | Dry | 400 | Murugesan S/o. Arumugampillai |
| | | | | 73/1B1B | Private | Dry | 150 | Shanthi W/o. Elango |
| | | | | 73/3 | Private | Dry | 2150 | Jashwanth Babu S/o. PAPK Alagarsamy |
| | | | | 74/1 | Private | Dry | 264 | Jashwanth Babu S/o. PAPK Alagarsamy |
| | | | | 74/2 | Private | Dry | 600 | Alon S/o. A.C. Kamaraj |
| | | | | 75/1 | Private | Wet | 300 | Abdulkathar S/o. Abdul Muthalif 1, Jokarabeevi W/o. Abdulkathar 2. |
| | | | | 75/2B1 | Private | Wet | 300 | Sethulakshmiamm al W/o. Krishnasamypillai |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|-----|---|
| | | | | 75/2B2A | Private | Wet | 250 | Sudhakar S/o. Krishnasamy |
| | | | | 75/2B3 | Private | Wet | 150 | Hudsun Agro Products Ltd., Managing Director R.G.Chandramohan |
| | | | | 75/3 | Private | Wet | 100 | Hudsun Agro Products Ltd., Managing Director R.G.Chandramohan |
| | | | | 76/1B | Private | Wet | 200 | Hudsun Agro Products Ltd., Managing Director R.G.Chandramohan |
| | | | | 76/2B | Private | Wet | 50 | Hudsun Agro Products Ltd., Managing Director R.G.Chandramohan |
| | | | | 76/4A2 | Private | Wet | 238 | M.M. Hi.Tech. Cold Storage Pvt.Ltd., Director Tmt.A.V.S.Savithri mmal |
| | | | | 77/1B | Private | Wet | 200 | M/s.Anaimalaies Agencies Madurai Partner P.K.Duraisamy S/o. P.K.Krishnasamy Goundar |
| | | | | 77/2B | Private | Wet | 50 | M/s.Anaimalaies Agencies Madurai Partner P.K.Duraisamy S/o. P.K.Krishnasamy Goundar |
| | | | | 78/1A2 | Private | Wet | 05 | Gajini Mohamed S/o. Shamsudeen |
| | | | | 78/1B3 | Private | Wet | 100 | M/s. Foam Vishnu Pvt.Ltd., Director M. Panneerselvam |
| | | | | 78/1C2A | Private | Wet | 100 | Thangaraj S/o. Govindasamy |
| | | | | 78/1C2B | Private | Wet | 27 | Muniyandi S/o. Ponniahnadar 1, Panneerselvam S/o. Muniyandi 2, Sharmila W/o. M. Krishnan 3, Suganthadevi W/o. Madasamy 4. |
| | | | | 78/2B | Private | Wet | 314 | Panneerselvam S/o. Muniyandi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|-----------------|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 78/3B1B | Private | Wet | 86 | Navaneethan S/o. Muthureddiar |
| | | | | 78/4 | Private | Wet | 110 | Navaneethan S/o. Muthureddiar |
| | | | | 78/3B1A | Private | Wet | 680 | Sakthivadivel S/o. Natarajapillai 1, Rajeshwariammal W/o. Natarajapillai |
| | | | | 78/3B2 | Private | Wet | 77 | J.T. Fabrics Pvt.Ltd., Director Monoj R.Sha |
| | | | | 78/3B3 | Private | Wet | 450 | Rajeshwariammal W/o. Natarajapillai |
| | | | | 78/1B1 | Private | Wet | 450 | Rajeshwariammal W/o. Natarajapillai |
| | | | (2)Thathampatti | 19/1B | Private | Dry | 4830 | Kannan, S/o. Subbareddiar |
| | | | | 19/2A | Private | Dry | 9108 | Muthaiah Thevar sons Karupaiah 1, Vellaichamy 2, Ramasamy 3, Pushpavalli W/o. Natarajan 4, Natarajan daughters Subalakshmi 5, Subapiriya 6. |
| | | | | 19/2C | Private | Dry | 545 | Malaichamy S/o. Ramasamy Thevar |
| | | | | 19/3 | Private | Dry | 1020 | Muthaiah Thevar sons Karupaiah 1, Vellaichamy 2, Ramasamy 3, Pushpavalli W/o. Natarajan 4, Natarajan daughters Subalakshmi 5, Subapiriya 6. |
| | | | | 23/1 | Private | Dry | 16 | Sarashwathi W/o. Sangaiah Thevar 1, Sangaiah Thevar daughters Santhi 2, Lalitha devi 3, Paradha devi 4, Santhia devi 5, Sangaiah Thevar sons Palamurugan 6, Ayyanar @ Satheeshkumar 7. |
| | | | | 23/2A | Private | Dry | 161 | Ramasamy Thevar S/o. Karuppasamy Thevar |
| | | | | 23/2B | Private | Dry | 270 | Mookkammal W/o. Velchamy Thevar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|----------|--|
| | | | | 24/1 | Private | Dry | 3700 | Sarashwathi W/o. Sangaiah Thevar 1, Sangaiah Thevar daughters Santhi 2, Lalitha devi 3, Paradha devi 4, Santhia devi 5, Sangaiah Thevar sons Palamurugan 6, Ayyanar @ Satheeshkumar 7. |
| | | | | 24/2A | Private | Dry | 3831 | Mookkammal W/o. Velchamy Thevar |
| | | | | 26/1 | Private | Dry | 408 | Santhi W/o. Sangaralingam |
| | | | | 26/3A1 | Private | Dry | 2093 | Seeniammal W/o. Ramasamy Thevar 1, Muthiah Thevar sons Karuppiyah 2, Vellaichamy 3, Ramasamy 4, Pushpavalli W/o. Natarajan 5, Natarajan daughters Subalakshmi 6, Subapiriya 7, Ramasamy Thevar sons Thiruvettai Thevar 8, Malaichamy Thevar 9. |
| | | | | 26/3A3 | Private | Dry | 84 | Malaichamy S/o. Ramasamy Thevar |
| | | | | 29/1 | Private | Dry | 909 | Natesan S/o. Ramakrishnan |
| | | | | 29/2 | Private | Dry | 796 | Panaiyan Ambalam sons Rajendiran 1, Krishnan 2, Dhanapandi 3. |
| | | | | 32/1 | Private | Dry | 3043 | Selvam S/o. Krishnareddiar |
| | | | | 32/2 | Private | Dry | 3800 | Govindaraj S/o. Krishnan |
| | | | | 33/6 | Private | Dry | 448 | Selvam S/o. Krishnareddiar |
| | | | | 33/7A | Private | Dry | 1409 | Raji W/o. Ramkumar |
| | | | | 33/7C | Private | Dry | 33 06 | Ellammal W/o. Jegannathan 1, Jegannathan sons Vasantharaj 2, Nilavazhgan 3. Raji W/o. Ramkumar 4. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|--|
| | | | | 33/8A | Private | Dry | 50 | Raji W/o. Ramkumar |
| | | | | 33/8B | Private | Dry | 1094 | Ellammal W/o. Jegannathan 1, Jegannathan sons Vasantharaj 2, Nilavazhgan 3. |
| | | | | 35/3B1 | Private | Dry | 361 | Parattaiappillai sons Ramakrishnan 1, Muthukrishnan 2. |
| | | | | 35/3B2 | Private | Dry | 550 | Kalarani W/o. Karuthakannan |
| | | | | 52/1 | Private | Dry | 3408 | Ellammal W/o. Jegannathan 1, Jegannathan sons Vasantharaj 2, Nilavazhgan 3. |
| | | | | 52/4 | Private | Dry | 340 | Pangaru reddiar sons Kannapiran 1, Venkatesan 2. |
| | | | | 53/1A | Private | Dry | 50 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 53/1B | Private | Dry | 3909 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 53/2A | Private | Dry | 1080 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 53/2B | Private | Dry | 1116 | Pappu reddiar sons Rengasamy 1, Boopathy 2. |
| | | | | 53/3 | Private | Dry | 42 | Pappu reddiar sons Rengasamy 1, Boopathy 2. |
| | | | | 54/1A | Private | Dry | 63 | Navaneethakrishn an S/o. Ramasamy reddiar |
| | | | | 54/1B | Private | Dry | 1727 | Ramasamy Naidu sons Thirupathy 1, Gurusamy 2, Janakiammal W/o. Ramasamy Naidu 3. |
| | | | | 54/1D1 | Private | Dry | 1780 | Logamatha W/o. Desabandhu 1, Desabandhu sons Sakkaravarthi 2, Magudapathi 3. |
| | | | | 54/2 | Private | Dry | 1088 | Logamatha W/o. Desabandhu 1, Desabandhu sons Sakkaravarthi 2, Magudapathi 3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-------|---------|-----|------|--|
| | | | | 56/2. | Private | Dry | 637 | Logamatha W/o. Desabandhu 1, Desabandhu sons Sakkaravarthi 2, Magudapathi 3. |
| | | | | 60/1A | Private | Dry | 15 | Elangovan, S/o. Govindareddiar 1, Venkitasamy S/o. Govindareddiar 2, Rajammal W/o. Ramasamy 3. |
| | | | | 60/1B | Private | Dry | 502 | G. Ramasamy |
| | | | | 60/2A | Private | Dry | 198 | Elangovan, S/o. Govindareddiar 1, Venkitasamy S/o. Govindareddiar 2, Rajammal W/o. Ramasamy 3. |
| | | | | 60/2C | Private | Dry | 1899 | Janaki W/o. Gopal |
| | | | | 60/3A | Private | Dry | 273 | G. Ramasamy |
| | | | | 60/3B | Private | Dry | 1997 | Govindareddiar sons Venkidasamy reddiar 1, Ramasamy reddiar 2, Gopal @ Elangovan 3. |
| | | | | 60/4 | Private | Dry | 1682 | Chinnammal W/o. Late Mani 1, Mani sons Vellaian 2, Andiyappan 3, Mani daughters Valli 4, Boongothai 5, Santhi 6. |
| | | | | 60/5A | Private | Dry | 345 | Baby Girija W/o. Rajasekaran |
| | | | | 60/5B | Private | Dry | 1856 | Janaki W/o. Gopal |
| | | | | 60/6 | Private | Dry | 1063 | Raju, S/o. Gurusamy 1, Jeyaraman, S/o. Gurusamy 2. |
| | | | | 60/7 | Private | Dry | 1994 | Raju, S/o. Gurusamy 1, Jeyaraman, S/o. Gurusamy 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-------|---------|-----|------|--|
| | | | | 61 | Private | Dry | 3209 | Elangovan, S/o. Govindareddiar 1, Venkitasamy S/o. Govindareddiar 2, Rajammal W/o. Ramasamy 3. |
| | | | | 62/1 | Private | Dry | 2028 | Elangovan, S/o. Govindareddiar 1, Venkitasamy S/o. Govindareddiar 2, Rajammal W/o. Ramasamy 3. |
| | | | | 63/2A | Private | Dry | 1013 | Elangovan, S/o. Govindareddiar 1, Venkitasamy S/o. Govindareddiar 2, Rajammal W/o. Ramasamy 3. |
| | | | | 64/2A | Private | Dry | 1599 | R. Rathakrishnan S/o. Ramasamy reddiar 1, R. Pappaiyan S/o. Ramasamy reddiar 2. |
| | | | | 64/2B | Private | Dry | 621 | Pappureddiar S/o. Muthureddiar 1, Gopalakrishnan S/o. Muthureddiar 2. |
| | | | | 64/4 | Private | Dry | 116 | Pappureddiar S/o. Muthureddiar 1, Gopalakrishnan S/o. Muthureddiar 2. |
| | | | | 66/1 | Private | Dry | 4480 | Rajammal W/o. Potramareddiar 1, Potramareddiar daughters Vasantha 2, Parimala 3. |
| | | | | 66/2 | Private | Dry | 2245 | Duraisamyreddiar S/o. Kumarreddiar 1, Sumathi W/o. Kannan 2. |
| | | | | 66/3A | Private | Dry | 1057 | Natarajan S/o. Ayyadurai Asari 1, Sundaravalli @ Rajammal W/o. Natarajan 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-------|---------|-----|-------------|---|
| | | | | 66/3B | Private | Dry | 110 | Chellammal W/o. Muthaiah Asari 1, Muthaiah Asari daughters Valli 2, Tamilchelvi 3, Muthaiah Asari sons Pandi 4, Nagaraj manickam 5. |
| | | | | 66/5A | Private | Dry | 273 | Natarajan S/o. Ayyadurai Asari 1, Sundaravalli @ Rajammal W/o. Natarajan 2. |
| | | | | 66/5B | Private | Dry | 84 | Chellammal W/o. Muthaiah Asari 1, Muthaiah Asari daughters Valli 2, Tamilchelvi 3, Muthaiah Asari sons Pandi 4, Nagaraj manickam 5. |
| | | | | 69/1A | Private | Dry | 1339 | Jayaraman S/o. Kumarreddiar 1, Rajagopal S/o. Kumarreddiar 2. |
| | | | | 69/1A | Private | Dry | 194 3543 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 69/1B | Private | Dry | 7851 | Athilakshmiamma I W/o. Kumarreddiar |
| | | | | 69/3 | Private | Dry | 52 | Rajeshwari W/o. Janakarajan |
| | | | | 69/4A | Private | Dry | 71 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 70/2 | Private | Dry | 2900 | Ramasamy S/o. Karanthamalai 1, Guruvijaya W/o. Vellaichamy 2. |
| | | | | 70/1A | Private | Dry | 100 | Sivasubramanian sons Venkitachalam 1, Alagesan 2. |
| | | | | 70/1B | Private | Dry | 202 | Sivasubramanian sons Venkitachalam 1, Alagesan 2. |
| | | | | 71/1 | Private | Dry | 26 | Sivasubramanian sons Venkitachalam 1, Alagesan 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|--|
| | | | | 71/2 | Private | Dry | 92 | Sivasubramanian sons Venkitachalam 1, Alagesan 2. |
| | | | | 71/3 | Private | Dry | 712 | Murugesan Asari S/o. Vellaichamy Asari 1, Venkitajalapathi Mudaliar sons Sivasubramanian 1, Anbalagan 2. |
| | | | | 72/2C | Private | Dry | 11 | Subbareddiar S/o. Palchamy reddiar |
| | | | | 96/2 | Private | Dry | 125 | Thirumalaivasan S/o. Govindareddiar |
| | | | | 96/3 | Private | Dry | 3613 | Kumar reddiar sons C.K. Rengasamyred diar 1, Duraisamy reddiar 2. |
| | | | | 96/4A | Private | Dry | 2124 | Gopinath S/o. Seenivasan |
| | | | | 96/4B | Private | Dry | 970 | Navamani W/o. Ramanujam |
| | | | | 116/2 | Private | Wet | 12 | Gandhi S/o. Chinnathambi reddiar |
| | | | | 117/1 | Private | Wet | 5367 | Govindasamy S/o. Meenatchi reddiar |
| | | | | 117/2A | Private | Dry | 340 | Govindasamy S/o. Meenatchi reddiar |
| | | | | 117/2B | Private | Dry | 228 | Kanthisamy sons Darmaraj 1, Kannan 2, daughter Malliga 3. |
| | | | | 117/3 | Private | Dry | 33 | Kanthisamy sons Darmaraj 1, Kannan 2, daughter Malliga 3. |
| | | | | 117/4 | Private | Wet | 3318 | Narayanasamy S/o. Govindareddiar |
| | | | | 119/1 | Private | Wet | 36 | Narayanasamy S/o. Govindareddiar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-------|---------|-----|------|--|
| | | | | 119/2 | Private | Wet | 891 | R.Radhakrishnan S/o. Ramasamy reddiar 1, R.Pappaiyan S/o. Ramasamy reddiar 2. |
| | | | | 119/3 | Private | Wet | 968 | R.Radhakrishnan S/o. Ramasamy reddiar 1, R.Pappaiyan S/o. Ramasamy reddiar 2. |
| | | | | 119/6 | Private | Wet | 1474 | R.Rathakrishnan S/o. Ramasamy reddiar 1, R.Pappaiyan S/o. Ramasamy reddiar 2. |
| | | | | 119/8 | Private | Wet | 2288 | Gandhi S/o. Chinnathambi reddiar |
| | | | | 122 | Private | Wet | 2692 | Gandhi S/o. Chinnathambi reddiar |
| | | | | 123/1 | Private | Wet | 1027 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 123/2 | Private | Wet | 881 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 123/3 | Private | Wet | 335 | Dhanalakshmi W/o. Rengasamy reddiar |
| | | | | 123/4 | Private | Wet | 09 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 124/1 | Private | Wet | 2785 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 124/2 | Private | Wet | 01 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |
| | | | | 125/1 | Private | Wet | 4711 | Rengasamy S/o. Kumar reddiar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-------|---------|-----|------|--|
| | | | | 125/2 | Private | Wet | 289 | Gurusamy reddiar sons V.G.Govindaraj 1, Ramanathan 2, Gurusamy reddiar daughters Alamelu 3, Govindammal 4, Renukadevi W/o. V.G.Venkidasamy 5, Venkidasamy sons V.Suresh 6, V.Ramesh 7, Alamelu @ Mangaiyarkarasi 8. |
| | | | | 125/3 | Private | Wet | 1000 | Gurusamy reddiar sons V.G.Govindaraj 1, Ramanathan 2, Gurusamy reddiar daughters Alamelu 3, Govindammal 4, Renukadevi W/o. V.G.Venkidasamy 5, Venkidasamy sons V.Suresh 6, V.Ramesh 7, Alamelu @ Mangaiyarkarasi 8. |
| | | | | 125/4 | Private | Wet | 1962 | Vijeyarenganathan S/o. Ramasamy Reddiar |
| | | | | 126/7 | Private | Wet | 140 | Vijeyarenganathan S/o. Ramasamy Reddiar 1, C.K.Rengasamy S/o. Kumar reddiar 2, Annalakshmi W/o. Vijeyarenganathan 3. |
| | | | | 126/9 | Private | Wet | 132 | Vijeyarenganathan S/o. Ramasamy Reddiar 1, C.K.Rengasamy S/o. Kumar reddiar 2, Annalakshmi W/o. Vijeyarenganathan 3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|---|
| | | | | 127/1A | Private | Wet | 1774 | Seetharaman S/o. Veeralagu reddiar |
| | | | | 127/1B | Private | Wet | 331 | Vekidasamy reddiar sons Sethuraman 1, Ramachandran 2, Thirupathi 3. |
| | | | | 127/3 | Private | Wet | 1272 | Alagarsamy S/o. Sangaralingam reddiar |
| | | | | 128/2B | Private | Wet | 747 | Vekidasamy reddiar sons Ramachandran 1, Thirupathi 2. |
| | | | | 128/3 | Private | Wet | 700 | Dhanalakshmi W/o. Rengasamy reddiar 1, Rengasamy reddiar sons Kumar 2, Palaraman 3, Rengasamy reddiar daughters Kalavathi 4, Kalaichelvi 5. |
| | | | | 128/4 | Private | Wet | 700 | Vijeyarenganathan S/o. Ramasamy Reddiar |
| | | | | 128/5D | Private | Wet | 1622 | R.Pappaian S/o. Rengasamy reddiar |
| | | | | 195/2A | Private | Dry | 123 | E. Murali S/o. Ellamareddiar |
| | | | | 195/2B | Private | Dry | 1375 | Subbulakshmi W/o. Muthureddiar |
| | | | | 196/4 | Private | Wet | 3005 | E. Singamareddi S/o. Ellamareddiar |
| | | | | 197/1 | Private | Dry | 2894 | Pappureddiar S/o. Muthureddiar 1, Gopalakrishnan S/o. Muthureddiar 2. |
| | | | | 197/2 | Private | Dry | 2457 | Pappureddiar S/o. Muthureddiar 1, Gopalakrishnan S/o. Muthureddiar 2. |
| | | | | 197/3 | Private | Dry | 350 | Palchamy reddiar S/o. Muthureddiar |
| | | | | 198/2 | Private | Dry | 842 | Ramachandran S/o. Venkidasamy reddiar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|---|
| | | | | 198/3 | Private | Dry | 4443 | Durairaj S/o. Venkidasamy reddiar |
| | | | | 198/4 | Private | Dry | 6063 | Pappureddi S/o. Venkidasamy reddiar |
| | | | | 199/5 | Private | Dry | 3625 | Karupiah S/o. Ramasamy servai |
| | | | | 200 | Private | Dry | 7700 | Raju @ Ramasamy reddiar S/o. Ramasamy reddiar 1, Lakshmiammal W/o. Ramasamy 2, Panneer selvam S/o. Ramasamy 3. |
| | | | | 201/1 | Private | Dry | 975 | Karupiah S/o. Ramasamy servai |
| | | | | 201/7A | Private | Dry | 4262 | Raju @ Ramasamy reddiar S/o. Ramasamy reddiar 1, Lakshmiammal W/o. Ramasamy 2, Panneer selvam S/o. Ramasamy 3. |
| | | | | 202/3 | Private | Dry | 500 | Karupiah S/o. Ramasamy servai |
| | | | | 202/5A | Private | Wet | 278 | Karupiah S/o. Ramasamy servai |
| | | | | 203 | Private | Wet | 2750 | Sivasubramanian sons Sivabalan 1, Duraimoorthy 2, Venkitachalam 3, Alagesan 4. |
| | | | | 213 | Private | Wet | 3985 | Sakkaravarthi S/o. Desabandhu |
| | | | | 214/1 | Private | Wet | 1569 | Logamatha W/o. Desabandhu 1, Desabandhu sons Sakkaravarthi 2, Magudapathi 3. |
| | | | | 214/2 | Private | Wet | 6111 | Logamatha W/o. Desabandhu 1, Desabandhu sons Sakkaravarthi 2, Magudapathi 3. |
| | | | | 216/1 | Private | Wet | 110 | Ravi S/o. Gurusamy reddiar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|----------------|--------|---------|-----|------|---|
| | | | | 217/1 | Private | Wet | 1233 | Ravi S/o. Gurusamy reddiar |
| | | | | 218/4 | Private | Wet | 12 | Dhanalakshmi W/o. Rengasamy reddiar 1, Rengasamy reddiar sons Kumar 2, Palaraman 3, Rengasamy reddiar daughters Kalavathi 4, Kalaichelvi 5. |
| | | | | 219/1 | Private | Wet | 1080 | Vijeyarenganatha n S/o. Ramasamy Reddiar |
| | | | | 219/3 | Private | Wet | 1018 | Dhanalakshmi W/o. Rengasamy reddiar 1, Rengasamy reddiar sons Kumar 2, Palaraman 3, Rengasamy reddiar daughters Kalavathi 4, Kalaichelvi 5. |
| | | | | 238/2B | Private | Wet | 276 | Deivanayagam S/o. Thayumana Muthailiar |
| | | | | 238/4B | Private | Dry | 950 | Karuppiyah Servai S/o. Ramasamy servai |
| | | | (3)Thanichiyam | 54/2 | Private | Dry | 209 | Jothirajan S/o. Muthuraj Servai |
| | | | | 54/6A | Private | Dry | 180 | Jeyasundari W/o. R. Krishnan 1, Saravanakumar S/o. R. Krishnan 2. |
| | | | | 54/7A1 | Private | Dry | 46 | Vallatharasu S/o. Karuppiyah Servai |
| | | | | 54/7A2 | Private | Dry | 39 | Ganesan S/o. Chandrasekaran |
| | | | | 54/7A3 | Private | Dry | 128 | Selvam S/o. Chandrasekaran |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------------|--|
| | | | | 54/7A4 | Private | Dry | 01 | Duraisamy Servai sons Ramiah 1, Krishnamoorthy 2, Marichellapandian S/o. Ponram 3, Ganesan S/o. Sivathiah 4. |
| | | | | 54/7C | Private | Dry | 250 | Duraisamy Servai sons Ramiah 1, Krishnamoorthy 2, Marichellapandian S/o. Ponram 3, Ganesan S/o. Sivathiah 4. |
| | | | | 54/17 | Private | Dry | 13 | Arumugam S/o. Karuppiyah Servai |
| | | | | 55/1 | Private | Dry | 680 | Karuppiyah Goundar S/o. Savarimalai Goundar |
| | | | | 55/2 | Private | Dry | 1170 | K.Muthuchamy S/o. Karuppanagoundar |
| | | | | 55/3 | Private | Dry | 636 | Krishnan S/o. Ponniah Servai |
| | | | | 55/4 | Private | Dry | 390 | Rakkappan Servai sons Rajendran 1, Arumugam 2, Vellaichamy 3, Mohan 4. |
| | | | | 58/1A | Private | Dry | 42 | Tamilselvi W/o. Selvaraj 1, Jeyakumar S/o. Selvaraj 2, Rani W/o. Nagarajan 3, Soundrarajan S/o. Karuppanapillai 4. |
| | | | | 58/1B | Private | Dry | 219 | Muthukkarupa goundar sons Muthuchamy @ Panaiyuran 1, Rajendran 2. |
| | | | | 58/2 | Private | Dry | 558 620 | Ayyanar S/o. Vellaiyagoundar 1, Azhu S/o. Kannan 2, Ayyavu sons Devadoss 3, Mahendran 4, Thangam 5, Sabarimalai 6. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|--|
| | | | | 58/3 | Private | Dry | 519 | Palanichamy S/o. Chinnugoundar |
| | | | | 63/1A1 | Private | Dry | 406 | Ramasamy S/o. Subbareddiar |
| | | | | 63/1A2 | Private | Dry | 211 | Dayalan @ Rengappareddiar S/o. Chennama reddiar |
| | | | | 63/2A | Private | Dry | 123 | Manikandan S/o. Somasundaram |
| | | | | 63/3A | Private | Dry | 206 | Rajasuthakaran S/o. Rajagopal |
| | | | | 63/4A1 | Private | Dry | 525 | Karuppiah Goundar S/o. Savarimalai goundar |
| | | | | 63/5B | Private | Dry | 450 | Thangarajan S/o. Karmegam |
| | | | | 63/7 | Private | Dry | 930 | Thangaraj S/o. Mani @ Karmegam Servai 1, Shobana W/o. Sadasivam 2. |
| | | | | 70/1 | Private | Dry | 847 | Govindammal W/o. Meenatchi reddiar |
| | | | | 70/2 | Private | Dry | 699 | M.S.Ramasamy S/o. Chennamareddiar |
| | | | | 70/3 | Private | Dry | 1039 | Raveendran S/o. S.Ramasamy |
| | | | | 70/5 | Private | Dry | 955 | Kannar, S/o. S.Ramasamy |
| | | | | 70/6 | Private | Dry | 76 | Ramasamy S/o. Subbareddiar |
| | | | | 71/1 | Private | Dry | 165 | Jeya W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Azhumurugan 2, Muthuselvakumar 3, Arunkumar 4 Guardian Mother Jeya |
| | | | | 71/3 | Private | Dry | 1737 | Jeya W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Azhumurugan 2, Muthuselvakumar 3, Arunkumar 4 Guardian Mother Jeya |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|---|
| | | | | 71/4 | Private | Dry | 2206 | Jeya W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Azhumurugan 2, Muthuselvakumar 3, Arunkumar 4 Guardian Mother Jeya |
| | | | | 71/5 | Private | Dry | 2029 | Jeya W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Azhumurugan 2, Muthuselvakumar 3, Arunkumar 4 Guardian Mother Jeya |
| | | | | 72/1A | Private | Dry | 115 | Sangaiah S/o. Nallathambi 1, Muthukumaran S/o. Paramasamy 2. |
| | | | | 72/1B | Private | Dry | 49 | Parthasarathi S/o. Alagarsamy Naidu |
| | | | | 72/1C | Private | Dry | 20 | Parthasarathi S/o. Alagarsamy Naidu |
| | | | | 81/2 | Private | Dry | 402 | Ebram S/o. Appadurai for St. Joseph Destitute Trust |
| | | | | 81/3 | Private | Dry | 270 | Ebram S/o. Appadurai for St. Joseph Destitute Trust |
| | | | | 81/4 | Private | Dry | 363 | Balachandran S/o. Angana Naidu |
| | | | | 82/2 | Private | Dry | 122 | Jeyachandran S/o. Ovireddiar |
| | | | | 82/3 | Private | Dry | 213 | Padma W/o. P. Sethurajan |
| | | | | 85/5A | Private | Dry | 461 | Padma W/o. P. Sethurajan |
| | | | | 85/5B | Private | Dry | 212 | Padma W/o. P. Sethurajan |
| | | | | 86/6A | Private | Dry | 114 | Bharathi W/o. Muthukaruppan |
| | | | | 86/8A2 | Private | Dry | 115 | Parthasarathi S/o. Alagarsamy Naidu |
| | | | | 86/8A3 | Private | Dry | 78 | Varatharajan S/o. Perumal Iyer |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 86/9A1 | Private | Dry | 267 | Thiruvengadam S/o. Seshiah |
| | | | | 86/9A2 | Private | Dry | 78 | Radhakrishnan S/o. Muthukaruppan |
| | | | | 86/10A | Private | Dry | 175 | Parthasarathi Naidu sons Subburengan 1, Sudharsanan 2, Narayanaraj 3, Soundararaj 4, Nagaraj 5, Venkittammal W/o. Parthasarathi 6. |
| | | | | 94/1 | Private | Natham | 45 | Thiruvengadam Iyer sons Seenivasan 1, Sundararaj 2, Govindaraj 3. |
| | | | | 94/3 | Private | Natham | 26 | Sundararajan S/o. Arumugam Chettiar |
| | | | | 94/5 | Private | Natham | 125 | Rengasamy Naidu sons Subbiah 1, Narayanan 2. |
| | | | | 94/7 | Private | Natham | 60 | Selvarani W/o. Subburam 1, Subburam daughters Indhumathi 2, Vijayalakshmi 3, Vidhya 4, Gopinath S/o. Surendran 5. |
| | | | | 94/9 | Private | Natham | 14 | Subbulakshmi W/o. R.K. Govindan |
| | | | | 94/12 | Private | Natham | 07 | Nagalakshmi W/o. Govindan |
| | | | | 94/14 | Private | Natham | 107 | Seenivasanaidu sons Govindaraj 1, Uthayachandran 2, Banumathi 3, Mahendran 4, Latha 5, Sharmila 6. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-------|---------|--------|------|--|
| | | | | 94/15 | Private | Natham | 44 | Seenivasanaidu sons Govindaraj 1, Uthayachandran 2, Banumathi 3, Mahendran 4, Latha 5, Sharmila 6. |
| | | | | 94/16 | Private | Natham | 70 | Gokila W/o. R. Govindaraj |
| | | | | 94/17 | Private | Natham | 72 | Sugumar S/o. Sundarajaidu |
| | | | | 94/18 | Private | Natham | 160 | Subburayalu S/o. Govindarasulu |
| | | | | 94/19 | Private | Natham | 69 | Ramachandran S/o. Kamatchinaidu |
| | | | | 94/20 | Private | Natham | 64 | Rengasamy Naidu sons govindaraj 1, Chellapandi 2. |
| | | | | 94/21 | Private | Natham | 30 | Indhirani W/o. Narayanasamy 1, Renganayaki W/o. Gopal 2. |
| | | | | 94/22 | Private | Natham | 29 | Venkittammal W/o. Parthasarathi |
| | | | | 94/23 | Private | Natham | 24 | Thiruvalluvan S/o. Kumar 1, Raja S/o. Thiruvalluvan 2. |
| | | | | 96/1 | Private | Dry | 72 | Sundararaj Naidu sons Sampathkumar 1, Mohan 2. |
| | | | | 96/2 | Private | Dry | 2368 | Sundararaj Naidu sons Sampathkumar 1, Mohan 2. |
| | | | | 96/3A | Private | Dry | 300 | Rengasamy sons Alagarsamy 1, Janarthanam 2, Balakrishnan 3, Rengasamy S/o. Alagarsamy 4, Alagarsamy S/o. Palchamy Naidu 5, Govindasamy S/o. Pandurengan 6. |
| | | | | 96/4 | Private | Dry | 1830 | K.R.K. Sankar S/o. K.R. Kanagavel |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|---|
| | | | | 96/6 | Private | Dry | 985 | Sundararaj Naidu sons Sampathkumar 1, Mohan 2. |
| | | | | 96/7A | Private | Dry | 50 | Subbulakshmi W/o. Radhakrishnan |
| | | | | 96/8A | Private | Dry | 50 | Anthoniraj S/o. Jesu 1, Sethuraman, S/o. Seetharamnaidu 2. |
| | | | | 96/9A | Private | Dry | 100 | Subbulakshmi W/o. Radhakrishnan |
| | | | | 96/10B | Private | Dry | 100 | Gokila W/o. Govindaraj |
| | | | | 96/11A | Private | Dry | 159 | Balachandran S/o. Angananaidu |
| | | | | 96/12A | Private | Dry | 478 | Balachandran S/o. Angananaidu |
| | | | | 98/1 | Private | Dry | 988 | Kaliammal W/o. Pushpavanam |
| | | | | 98/2 | Private | Dry | 1267 | Krishnasamy naidu S/o. Veerappan naidu |
| | | | | 98/3 | Private | Dry | 2044 | Sundararaj Naidu sons Sampathkumar 1, Mohan 2. |
| | | | | 99/4 | Private | Dry | 1385 | Meena W/o. Rameshbabu |
| | | | | 99/7B | Private | Dry | 2186 | V.S.P. Kannan S/o. Palchamy |
| | | | | 100/2 | Private | Dry | 1356 | Pandi Nadar S/o. Thandavanadar |
| | | | | 100/3A | Private | Dry | 2673 | Sakkaraichamy S/o. Murugakonar |
| | | | | 100/3B | Private | Dry | 2289 | Poul Sebastian S/o. Gnanaprakasham |
| | | | | 100/4 | Private | Dry | 100 | Subbulakshmi W/o. Packiyam |
| | | | | 101/1 | Private | Dry | 1856 | Dharani W/o. Chandrasekaran |
| | | | | 101/2 | Private | Dry | 1696 | R.N. Pakkirisamy S/o. S.R. Natarajan |
| | | | | 102/1B | Private | Dry | 16 | Pandi Nadar S/o. Thandavanadar |
| | | | | 102/1C | Private | Dry | 621 | Muthuchamy S/o. Karupiah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|---|
| | | | | 102/2 | Private | Dry | 1735 | Sakthivel S/o. Devarajan |
| | | | | 102/3 | Private | Dry | 1018 | Alagarsamy reddiar S/o. Alagappa reddiar |
| | | | | 104/3A2 | Private | Dry | 718 | Kalavathi W/o. Pitchai |
| | | | | 104/3B2 | Private | Dry | 393 | Mallika W/o. Kannan |
| | | | | 104/4B | Private | Dry | 49 | Dhanalakshmi W/o. Subbaraj 1, Subbaraj daughters Karthigailakshmi 2, Abirami 3. |
| | | | | 104/5 | Private | Dry | 102 | Sakthivel S/o. Devarajan |
| | | | | 104/6B2 | Private | Dry | 306 | Mallika W/o. Kannan |
| | | | | 104/6C2 | Private | Dry | 428 | Mallika W/o. Kannan |
| | | | | 104/6D2 | Private | Dry | 162 | Mallika W/o. Kannan |
| | | | | 116/1B | Private | Dry | 1457 | K.R.K.Sankar S/o. K.R.Kanagavel |
| | | | | 117/1 | Private | Dry | 550 | Dharani W/o. Chandrasekaran |
| | | | | 117/2 | Private | Dry | 850 | R.N.Pakkirisamy S/o. S.R. Natarajan |
| | | | | 117/3 | Private | Dry | 250 | R.N.Pakkirisamy S/o. S.R. Natarajan |
| | | | | 117/5 | Private | Dry | 450 | Amuthan minor daughters Mekala 1, Amutha 2. Guardian mother Vijaya |
| | | | | 118/1A | Private | Dry | 50 | Sakkaraichamy S/o. Murugakonar |
| | | | | 118/1B | Private | Dry | 250 | Poul Sebastian S/o. Gnanaprakasham |
| | | | | 118/2 | Private | Dry | 200 | Meena W/o. Ramesh |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|-----|---|
| | | | | 118/4 | Private | Dry | 300 | Balakrishnan S/o. Rengasamy naidu 1, Alagarsamy naidu S/o. Anganan naidu 2, Alagarsamy naidu S/o. Palchamy naidu 3. |
| | | | | 118/5 | Private | Dry | 300 | Subbaraj S/o. Gurusamy reddy |
| | | | | 118/6 | Private | Dry | 450 | Noonguthayammal @ Lakshmiammal W/o. Alagarsamy |
| | | | | 118/7 | Private | Dry | 700 | Alagarsamy naidu sons Sundararajan 1, Jegatheesan 2. |
| | | | | 118/8A | Private | Dry | 100 | Anthoniraj S/o. Jesu |
| | | | | 118/8B | Private | Dry | 50 | Subbanaidu S/o. Kamatchinaidu |
| | | | | 118/9 | Private | Dry | 350 | K.Pandi 1, K.Muthusamy 2, K.Mayaperumal 3, Subbulakshmi W/o. Radhakrishnan 4. |
| | | | | 118/10 | Private | Dry | 100 | Kamatchi S/o. Kamatchinaidu |
| | | | | 158/1A | Private | Dry | 200 | Muthukrishnan S/o. Kamatchinaidu |
| | | | | 158/1B | Private | Dry | 200 | Muthurengan S/o. Kamatchinaidu |
| | | | | 158/1C | Private | Dry | 22 | Kamatchi naidu sons Thambiah 1, Muthukrishnan 2, Muthu subburam 3, Muthurengan 4. |
| | | | | 158/3 | Private | Dry | 496 | Bharathi W/o. Muthukaruppan |
| | | | | 158/4A | Private | Dry | 250 | S.S.Sudha W/o. Murali |
| | | | | 158/4B | Private | Dry | 31 | Gokila W/o. Govindaraj |
| | | | | 158/5 | Private | Dry | 312 | Radhakrishnan S/o. Govindasamy naidu |
| | | | | 158/7A1 | Private | Dry | 176 | S.S.Sudha W/o. Murali |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 158/7A2 | Private | Dry | 213 | Saraswathi W/o. Santhanam 1, Nagalakshmi W/o. Soundrarajan 2. |
| | | | | 159/2A | Private | Dry | 547 | Sundararaj S/o. Gurusamy |
| | | | | 159/2B | Private | Dry | 607 | Govindammal W/o. Rengannaidu |
| | | | | 159/4 | Private | Dry | 1799 | Sundararajan chettiar S/o. Arumugam chettiar |
| | | | | 159/7 | Private | Dry | 379 | Vadugapatti Shri Varadharaja Perumal Kovil Trustees Rajagopal sons Balasubramanian 1, Narayanan 2. |
| | | | | 160/1 | Private | Dry | 1355 | Sundararajan chettiar S/o. Arumugam chettiar |
| | | | | 172/1 | Private | Dry | 1597 | Padma W/o. Sethurajan |
| | | | | 172/2A1 | Private | Dry | 1443 | Padma W/o. Sethurajan |
| | | | | 172/2A2 | Private | Dry | 1489 | Muthirulayeeammal W/o. Thangiah Servai |
| | | | | 173/1 | Private | Dry | 300 | Anganan @ Akkulunaidu S/o. Venkidusamy |
| | | | | 173/2 | Private | Dry | 300 | Thiruvengadam S/o. Seshiah 1, Dhanalakshmi W/o. Solaiappan 2. |
| | | | | 173/3 | Private | Dry | 450 | Parthasarathi Naidu sons Subburengan 1, Sudharsanan 2, Narayanaraj 3, Soundararaj 4, Nagaraj 5, Venkittammal W/o. Parthasarathi 6. |
| | | | | 173/4 | Private | Dry | 350 | Padma W/o. Sethurajan |
| | | | | 173/5 | Private | Dry | 250 | Jeyachandran S/o. Ovireddiar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|-----|--|
| | | | | 173/6 | Private | Dry | 750 | Sundarajan chettiar S/o. Arumugam chettiar |
| | | | | 173/9A | Private | Dry | 40 | Saraswathi W/o. Santhanam 1, Nagalaksmi W/o. Soundrarajan 2. |
| | | | | 173/9B | Private | Dry | 30 | Muthukrishnan S/o. Kamatchinaidu |
| | | | | 173/9C | Private | Dry | 30 | Muthurengan S/o. Kamatchinaidu |
| | | | | 173/10A | Private | Dry | 300 | K. Thambiah S/o. Kamatchinaidu |
| | | | | 173/10B | Private | Dry | 150 | Bharathi W/o. Muthukaruppan |
| | | | | 173/11 | Private | Dry | 100 | S.S.Sudha W/o. Murali |
| | | | | 173/12 | Private | Dry | 150 | Govindarajulu naidu S/o. Ramaraj |
| | | | | 173/13 | Private | Dry | 450 | Radhaammal W/o. Sarangan 1, Suguna W/o. Govindaraj 2. |
| | | | | 173/15 | Private | Dry | 300 | Sundarajan chettiar S/o. Arumugam chettiar |
| | | | | 173/16 | Private | Dry | 700 | Padma W/o. Sethurajan |
| | | | | 173/17A | Private | Dry | 700 | Periyar sons Poosari sons Chinnian Poosari 1, Veerian Poosari 2. |
| | | | | 173/17B | Private | Dry | 750 | Thangiah servai S/o. Ramasamy servai |
| | | | | 174/1 | Private | Dry | 500 | Alagarsamy naidu sons Rajaram 1, Govindarajulu 2, Parthasarathi 3, Rajendran 4, Sangiah S/o. Nallathambi 5, Muthukumaran S/o. Paramasamy servai 6. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|---|
| | | | | 174/2 | Private | Dry | 1350 | Jeya W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Azhumurugan 2, Muthuselvakumar 3, Arunkumar 4 Guardian Mother Jeya |
| | | | | 174/3A | Private | Dry | 250 | Govindammal W/o. Meenatchi reddiar |
| | | | | 174/3B | Private | Dry | 200 | M.S.Ramasamy S/o. Chennamareddiar |
| | | | | 174/3C | Private | Dry | 200 | Raveendran S/o. S.Ramasamy |
| | | | | 174/5 | Private | Dry | 700 | M/s. Mahendra Sublub Services Limited |
| | | | | 174/6 | Private | Dry | 100 | Chellammal W/o. Sundararaj |
| | | | | 174/7 | Private | Dry | 150 | Alamelammal W/o. Rengasamy reddiar |
| | | | | 174/8 | Private | Dry | 350 | M/s. Mahendra Sublub Services Limited |
| | | | | 174/9 | Private | Dry | 300 | Karumbakonar sons Muthu 1, Kuppusamy 2, Santhanam 3, Nagaraj 4, Gopalakrishnan 5. |
| | | | | 174/10 | Private | Dry | 150 | M/s. Mahendra Sublub Services Limited |
| | | | | 174/11 | Private | Dry | 900 | Jeya W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Azhumurugan 2, Muthuselvakumar 3, Arunkumar 4 Guardian Mother Jeya |
| | | | | 175/2 | Private | Dry | 1130 | M/s. Mahendra Sublub Services Limited |
| | | | | 175/3 | Private | Dry | 514 | Dhanapandiamm al W/o. Parthasarathi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|---|
| | | | | 175/4 | Private | Dry | 583 | Alamelammal W/o. Rengasamy reddyar |
| | | | | 175/5 | Private | Dry | 1970 | M/s. Mahendra Sublub Services Limited |
| | | | | 176/1 | Private | Dry | 684 | Duraipandi S/o. Pitchaipillai |
| | | | | 176/2 | Private | Wet | 580 | Rajendran S/o. Palanichamy |
| | | | | 176/4A | Private | Wet | 120 | Jeyasundari W/o. Krishnan 1, Saravanakumar S/o. Krishnan 2. |
| | | | | 176/4B | Private | Wet | 1129 | Panchayamam W/o. Ramanujam 1, Ramanujam sons Hariharan 2, Kannan 3. |
| | | | | 176/5 | Private | Wet | 927 | Jeyasundari W/o. Krishnan 1, Saravanakumar S/o. Krishnan 2. |
| | | | | 176/6 | Private | Wet | 163 | Jeyasundari W/o. Krishnan 1, Saravanakumar S/o. Krishnan 2. |
| | | | | 177/4B | Private | Wet | 807 | Karumbakonar sons Muthu 1, Kuppusamy 2, Santhanam 3, Nagaraj 4, Gopalakrishnan 5. |
| | | | | 177/5 | Private | Wet | 272 | Karumbakonar sons Muthu 1, Kuppusamy 2, Santhanam 3, Nagaraj 4, Gopalakrishnan 5. |
| | | | | 191/1 | Private | Dry | 160 | Duraipandi S/o. Pitchaipillai |
| | | | | 191/2 | Private | Dry | 50 | Duraipandi S/o. Pitchaipillai |
| | | | | 191/4 | Private | Dry | 43 | Pandurengan sons Santharam @ Ramesh 1, Senthilkumar 2. |
| | | | | 191/10 | Private | Dry | 125 | Arumugam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 192/1B | Private | Dry | 318 | Jothirajan S/o. Muthuraj servai |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|------|--|
| | | | | 192/3A | Private | Dry | 2797 | Balamurugan S/o. Jothirajan 1, Jeya W/o. Krishnan 2. |
| | | | | 192/8 | Private | Dry | 119 | Nambimoorthis S/o. Sethuramalinga konar |
| | | | | 194/1 | Private | Dry | 1125 | Sethuramalingam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 194/5 | Private | Dry | 296 | Sethuramalingam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 195/1 | Private | Dry | 1090 | Sethuramalingam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 195/2 | Private | Dry | 150 | Sethuramalingam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 195/3B | Private | Dry | 100 | Sethuramalingam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 195/4B | Private | Dry | 350 | Sethuramalingam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 195/5A | Private | Dry | 1040 | Vellaiyagoundar sons Ayyanar 1, Kannan 2, Alagu 3, Karuppanagoundar sons Panaiyuran 4, Pandi 5, Savarimalai goundar sons Muthugoundar 6, Karuppiyah 7, Karuppiyah goundar sons Selvam 8, Nagarajan 9, Karuppiyah konar S/o. Karuppanakonar 10, Ramasamy reddiar S/o. Chennamareddiar 11, Marnattan S/o. Rakkappan servai 12, Thavamani S/o. Karuppiyah servai 13, Vellaiservai sons Karuppiyah 14, Arumugam 15, Ramasamy S/o. Subbiahreddiar 16. |
| | | | | 195/5B | Private | Dry | 100 | Jeyarani W/o. Krishnan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-----|-----|---|
| | | | | 195/5C | Private | Dry | 250 | Vellaiyagoundar sons Ayyanar 1, Kannan 2, Alagu 3, Karupanagoundar sons Panaiyuran 4, Pandi 5, Savarimalai goundar sons Muthugoundar 6, Karuppiyah 7, Karuppiyah goundar sons Selvam 8, Nagarajan 9, Karuppiyah konar S/o. Karuppanakonar 10, Ramasamy reddiar S/o. Chennamareddiar 11, Marnattan S/o. Rakkappan servai 12, Thavamani S/o. Karuppiyah servai 13, Vellaiservai sons Karuppiyah 14, Arumugam 15, Ramasamy S/o. Subbiahreddiar 16, Santhi W/o. Rajan 17. |
| | | | | 195/6A | Private | Dry | 94 | Mariammai W/o. Samayanservai |
| | | | | 195/6B | Private | Dry | 45 | Muthuchamy S/o. Karuppanagoundar |
| | | | | 195/6C | Private | Dry | 03 | Angammal W/o. Chinnachamy goundar |
| | | | | 195/7A | Private | Dry | 250 | Karumbakonar sons Muthu 1, Kuppusamy 2, Santhanam 3, Nagaraj 4, Gopalakrishnan 5. |
| | | | | 195/8A | Private | Dry | 140 | Senthilkumar S/o. Pandurengan 1, Chinniah konar sons Santhanam 2, Balakrishnan 3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|-----|---|
| | | | | 195/9 | Private | Dry | 08 | Jayasundari W/o. Krishnan 1, Saravakumar S/o. Krishnan 2. |
| | | | | 195/11A | Private | Dry | 147 | Karuppiyah servai sons Chakkarapani 1, Sethuramalingam 2, |
| | | | | 195/10 | Private | Dry | 80 | Senthilkumar S/o. Pandurengan 1, Chinniah konar sons Santhanam 2, Balakrishnan 3. |
| | | | | 195/12 | Private | Dry | 78 | Karuppiyah servai sons Chakkarapani 1, Sethuramalingam 2, |
| | | | | 195/13 | Private | Dry | 344 | Jothirajan S/o. Muthuraj servai |
| | | | | 196/2A | Private | Dry | 100 | Karumbakonar sons Muthu 1, Kuppusamy 2, Santhanam 3, Nagaraj 4, Gopalakrishnan 5. |
| | | | | 196/4 | Private | Dry | 250 | Duraipandi S/o. Pitchaipillai |
| | | | | 196/5 | Private | Dry | 300 | Arumugam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 196/6 | Private | Dry | 100 | Pandurengan sons Santharam @ Ramesh 1, Senthilkumar 2. |
| | | | | 196/7 | Private | Dry | 100 | Arumugam S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 196/10 | Private | Dry | 350 | Chakkarapani S/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 198/1 | Private | Dry | 41 | Pandiammal W/o. Karuppiyah servai |
| | | | | 198/3 | Private | Dry | 242 | Jeya W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Azhumurugan 2, Muthuselvakumar 3, Arunkumar 4 Guardian Mother Jeya, Jothirajan S/o. Muthuraj 5. |
| | | | | 198/5 | Private | Dry | 08 | Athilakshmi W/o. Chelliah |
| | | | | 198/6 | Private | Dry | 361 | Arumugam S/o. Karuppiyah servai |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|---|
| | | | | 198/9A | Private | Dry | 21 | Nagalakshmi W/o. Bose |
| | | | | 198/9B | Private | Dry | 14 | Veeranan Servai S/o. Karuppanan servai |
| | | | | 198/9C | Private | Dry | 05 | Thanikodi servai S/o. Karuppanan servai |
| | | | | 198/10A | Private | Dry | 95 | Karuppiah S/o. Karuppiah |
| | | | | 198/10B | Private | Dry | 130 | Chandrasekaran S/o. Dhanuskodi |
| | | | | 198/11 | Private | Dry | 270 | Pekiyasamy S/o. Muthirulan |
| | | | | 198/14 | Private | Dry | 58 | Kinattan S/o. Samykannu |
| | | | | 198/17 | Private | Dry | 40 | Kinattan S/o. Samykannu |
| | | | | 198/18 | Private | Dry | 50 | Kinattan S/o. Samykannu |
| | | | | 200/1A | Private | Dry | 936 | Chakkarapani S/o. Karuppiah servai |
| | | | | 209/2 | Private | Dry | 2250 | Desikan S/o. Subramania iyer |
| | | | | 209/4A | Private | Dry | 420 | Pandi S/o. Raman 1, Alagammal W/o. Murugan 2, Krishnan S/o. Marnattan 3, Andichamy S/o. Periyasamy 4, Susila W/o. Andichamy 5, Vasantha D/o. Mayandiservai 6, Perumal S/o. Naguservai 7, Kannan S/o. Subbareddiar 8, Vellaichamy S/o. Marnattan 9, Karuppiah S/o. Sigappu @ Arumugam servai 10, Jayamuthu W/o. Veeriah 11, Rajangam S/o. Vellai 12, Pushpam 13. |
| | | | | 209/4B | Private | Dry | 28 | Thangaraj S/o. Gurunathan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|--------|-------------|--|
| | | | | 209/5 | Private | Dry | 874 | Muthukrishnan S/o. Karuppiah servai |
| | | | | 212/2 | Private | Dry | 1288 | Thakkar Arulmigu Ayyanar Kovil |
| | | | | 212/3 | Private | Dry | 2267 418 | Thakkar Arulmigu Ayyanar Kovil |
| | | | | 213/2A1 | Private | Dry | 50 | Karuppiah Servai sons Vijayan 1, Manoharan 2. |
| | | | | 213/2A2 | Private | Dry | 30 | Rakku W/o. Arumugam 1, Muthuraj S/o. Vellaiservai 2, Kaliammal W/o. Muthuraj 3. |
| | | | | 213/2A3 | Private | Dry | 54 | Ramamoorthy sons Hariharan 1, Kanthavelar 2. |
| | | | | 213/2A5 | Private | Dry | 55 | Hariharan Velar S/o. Ramamoorthy |
| | | | | 213/2A6 | Private | Dry | 82 | Natarajan S/o. Arunachalavelar |
| | | | | 213/2A7 | Private | Dry | 124 | Ramamoorthy sons Hariharan 1, Kanthavelar 2. |
| | | | | 213/2A8 | Private | Dry | 56 | Santhanavelar S/o. Ramamoorthy |
| | | | | 213/2A9 | Private | Dry | 36 | Hariharan Velar S/o. Ramamoorthy |
| | | | | 213/2B1 | Private | Dry | 30 | Hariharan Velar S/o. Ramamoorthy |
| | | | | 213/2B2 | Private | Dry | 50 | Karuppiah servai S/o. Karuppiah servai |
| | | | | 213/2B3 | Private | Dry | 35 | Anandhavalli D/o. Chandrasekaran |
| | | | | 213/2B4 | Private | Dry | 35 | Natarajan S/o. Arunachalavelar |
| | | | | 213/1C | Private | Natham | 45 | Kalliammal W/o. Muthuraj |
| | | | | 216/2 | Private | Natham | 67 | Krishnan S/o. Irulappanservai |
| | | | | 216/5 | Private | Natham | 76 | Jayasundari W/o. Krishnan 1, Saravanakumar S/o. Krishnan 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|--------|------|---|
| | | | | 216/6 | Private | Natham | 79 | Velammal W/o. Karupiah 1, Karupiah daughters Leela 2, Panchavarnam 3, Tamilarasi 4, Saekala 5, Pandimeena 6, Shanmugam S/o. Karupiah 7. |
| | | | | 216/7 | Private | Natham | 45 | Jayasundari W/o. Krishnan 1, Saravanakumar S/o. Krishnan 2. |
| | | | | 289/5 | Private | Dry | 985 | Krishnan Servai S/o. Rakkappan servai 1, Ponnuchamy servai S/o. Samikannu servai 2. |
| | | | | 291/1A | Private | Dry | 798 | Krishnan S/o. Ponniah servai 1, Jayasundari W/o. Krishnan 2, Saravanakumar S/o. Krishnan 3. |
| | | | | 298/1 | Private | Wet | 440 | Balakrishnan S/o. Annamalaikonar |
| | | | | 298/2 | Private | Wet | 565 | Pradeep Gupta S/o. Athmaram Gupta |
| | | | | 300/1 | Private | Wet | 1382 | Balakrishnan S/o. Annamalaikonar |
| | | | | 300/2 | Private | Wet | 488 | Kasthuri W/o. T.G.Mohanram |
| | | | | 300/3 | Private | Wet | 488 | Sivakamiammal W/o. Chinnachamy 1, Chinnachamy sons Vasudevan 2, Nagarajan 3, Narayanasamy 4, Dhamotharan 5, Kalyani D/o. Chinnachamy 6. |
| | | | | 301 | Private | Wet | 900 | Bharath Petroleum Corporation Limited |
| | | | | 317/20A1 | Private | Wet | 100 | Nagarajan S/o. Chellamani |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|-----|-------------|--|
| | | | | 317/20A2 | Private | Wet | 76 | Jeyaraman S/o. Chinnachamy chettiar |
| | | | | 317/20B | Private | Wet | 200 | Karuppanan S/o. Santhanakrishnan |
| | | | | 317/21A1 | Private | Wet | 101 1226 | Murugesan S/o. Ramuchettiar 1, Manoharan S/o. Muthukrishnan 2, Krishnasamy S/o. Kuppanchettiar 3, Mohan S/o. Valaguruvan 4, Jothilakshmi W/o. Mohan 5, Yogamadhavan S/o. Sundaraj konar 6. |
| | | | | 317/22A | Private | Wet | 858 | Santhanakrishnan S/o. Karuppanakonar |
| | | | | 317/22B | Private | Wet | 756 | Amudha W/o. Annamalai |
| | | | | 317/27A1 | Private | Wet | 109 | Muthukrishnan sons Arunagiri 1, Karunanithi 2, Manoharan 3. |
| | | | | 317/27A2 | Private | Wet | 43 | Karuppiyah S/o. Udayar servai 1, Chellammal W/o. Karuppiyah 2. |
| | | | | 317/27B | Private | Wet | 16 | Murugesan S/o. Narayanapillai |
| | | | | 317/28 | Private | Wet | 100 | Sethuramalingam S/o. Sethuchettiar |
| | | | | 317/29 | Private | Wet | 100 | Jeyaraman S/o. Chinnachamy chettiar |
| | | | | 317/30 | Private | Wet | 190 | Kumaresan S/o. Duraipandian |
| | | | | 317/32 | Private | Wet | 150 | Madurai Veeran S/o. Rajagopal |
| | | | | 317/33 | Private | Wet | 150 | Nagarajan S/o. Duraipandian |
| | | | | 317/34 | Private | Wet | 100 | Packiam W/o. Athithan |
| | | | | 317/35 | Private | Wet | 150 | Kaluvayee W/o. Karuppathevar |
| | | | | 317/37 | Private | Wet | 130 | Theertham S/o. Vellaichamy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|--------|------|--|
| | | | | 317/38 | Private | Wet | 200 | Selvam S/o. Sivanandithevar 1, Thedachelvam W/o. Selvam 2. |
| | | | | 318/2A1A | Private | Wet | 1546 | Santhanakrishnan S/o. Karuppanakonar 1, Latha W/o. Thirupathisamy 2. |
| | | | | 318/1B1A | Private | Wet | 376 | Mohan S/o. Palchamy Konar 1, Jegatheesan S/o. Thiruvengadakon ar 2. |
| | | | | 318/2B | Private | Wet | 250 | Kalyani W/o. Mutharasan |
| | | | | 318/1A2 | Private | Wet | 902 | Muthuveeran S/o. Rajuthevar |
| | | | | 325/6 | Private | Natham | 25 | Rajagopal sons Maduraiveeran 1, Rengarajan 2, Raja 3, Prabu 4. |
| | | | | 325/7 | Private | Natham | 14 | Sundararajan S/o. Surulichettiar |
| | | | | 325/8 | Private | Natham | 08 | Shanmugathamm al W/o. Jeyaraman chettiar |
| | | | | 325/9 | Private | Natham | 61 | Mariamamm W/o. Sethuchettiar |
| | | | | 325/10 | Private | Natham | 44 | Thalivar, 24. Manai Telugu chettiar Uravinmurai sangam |
| | | | | 325/14 | Private | Natham | 31 | Paramasivam S/o. Chinnaian Chettiar |
| | | | | 325/15 | Private | Natham | 57 | Anguthai W/o. Muthiah Maniyam |
| | | | | 325/16 | Private | Natham | 59 | Muthumani W/o. Sekar |
| | | | | 325/17 | Private | Natham | 04 | Palanichamy chettiar S/o. Alagirichettiar |
| | | | | 325/18 | Private | Natham | 21 | Kannappan chettiar S/o. Subbiah chettiar |
| | | | | 325/19 | Private | Natham | 27 | Palanichamy chettiar S/o. Alagarsamy chettiar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 325/22 | Private | Natham | 11 | Muthupandi S/o. Alagarsamy chettiar |
| | | | | 325/23 | Private | Natham | 48 | Duraipandi S/o. Alagarsamy reddiar 1, Muthanan Chettiar sons Govindan 2, Paraman 3. |
| | | | | 325/24 | Private | Natham | 30 | Muthanan Chettiar sons Govindan 1, Paraman 2. |
| | | | | 325/25 | Private | Natham | 34 | Nataraja nadar S/o. Sundaramahalingam |
| | | | | 325/26 | Private | Natham | 182 | Rajendran sons Anbukani 1, Rajasekar 2, Pitchaikani 3, Soundarapandian 4, Ravichandran 5, Nataraja nadar sons Rathinavelu 6, Dhanuskodi 7. |
| | | | | 325/28 | Private | Natham | 160 | Baskaran S/o. Karuppupandi |
| | | | | 325/29 | Private | Natham | 11 | Ponniah chettiar S/o. Pothanchettiar |
| | | | | 325/30 | Private | Natham | 27 | Sekar S/o. Muthuchamy chettiar |
| | | | | 325/31 | Private | Natham | 92 | Sekar S/o. Muthuchamy chettiar |
| | | | | 325/62 | Private | Natham | 60 | Thalivar, 24. Manai Telugu chettiar Uravinmurai sangam |
| | | | | 326/2B | Private | Dry | 15 | Narayanakonar sons Palanivel 1, Karuppanan 2, Thirumal 3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 326/70 | Private | Natham | 119 | Rajammal W/o. Seruvalingam 1, Seruvalingam sons Periyannan 2, Vairamuthuramalingam 3, Vadakasilingam 4, Athimoolam 5, Seruvalingam daughters Dhanalakshmi 6, Muthulakshmi 7, Annapoorani 8, Parameshwari 9, Valarmathi 10, Sudhadevi 11. |
| | | | | 326/72 | Private | Natham | 365 | Narayanakonar sons Palanivel 1, Karuppanan 2, Thirumal 3. |
| | | | | 326/73 | Private | Natham | 68 | Narayanakonar sons Palanivel 1, Karuppanan 2, Thirumal 3. |
| | | | | 331/1 | Private | Wet | 383 | A.V.Muthiah S/o. Valathan |
| | | | | 331/2 | Private | Wet | 186 | A.V.Muthiah S/o. Valathan |
| | | | | 331/3 | Private | Wet | 110 | Narayasamy konar sons Thirumalai 1, Gopal 2. |
| | | | | 331/5A1 | Private | Wet | 129 | Pandi S/o. Palchamy konar |
| | | | | 331/5A2 | Private | Wet | 382 | Mahalingam S/o. Sannasichettiar 1, Pandi S/o. Palchamy konar 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|--------|-----|---|
| | | | | 331/5B | Private | Wet | 283 | Pethanan chettiar sons Sethuchettiar 1, Alagirisamy 2, Krishnan 3, Nagarajan 4, Pethanan chettiar daughters Meenakshi 5, Lakshmi 6, Eswari 7, Subbammal 8, Krishnaveni W/o. Pandi 9. |
| | | | | 331/6A | Private | Wet | 65 | Narayanasamy konar S/o. Karupanakonar |
| | | | | 332/1A | Private | Dry | 36 | Vadivachi Kovil Temporary Trustee |
| | | | | 332/1B | Private | Dry | 45 | Karunanithi S/o. Vellaiappan |
| | | | | 332/1C | Private | Dry | 55 | Kannayee W/o. Dhanapandi |
| | | | | 332/1D | Private | Dry | 64 | A.V.Muthiah S/o. Valathan |
| | | | | 332/8A | Private | Dry | 75 | Alagammal W/o. Vellimalai |
| | | | | 332/8B | Private | Dry | 98 | Booman samban S/o. Uruman |
| | | | | 332/9 | Private | Dry | 37 | Vellaiappan S/o. Karuppanan |
| | | | | 332/9C | Private | Dry | 38 | Sekar S/o. Alagarsamy |
| | | | | 332/13 | Private | Natham | 100 | A.V.Muthiah S/o. Valathan |
| | | | | 332/14A | Private | Natham | 40 | Valarmathi W/o. Rajamani |
| | | | | 332/14B | Private | Natham | 20 | Pandi S/o. Raman |
| | | | | 332/14C | Private | Natham | 40 | Thangamani S/o. Vellaian |
| | | | | 332/15A | Private | Dry | 16 | Sangukonar S/o. Seruvakonar 1, Aruljothi W/o. Sangukonar 2. |
| | | | | 332/15B | Private | Dry | 19 | Muthuchamy S/o. Periyakaruppan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 332/15C | Private | Dry | 08 | Pappa W/o. Sivalingam 1, Sivalingam sons Thirugnanam 2, Nagarajan 3, Selvarajan 4, |
| | | | | 332/21 | Private | Natham | 22 | Amudha W/o. Chinnian |
| | | | | 332/22 | Private | Natham | 64 | Natarajan S/o. Maruthappan |
| | | | | 332/23 | Private | Natham | 92 | Gandhimathi W/o. Karuppiah |
| | | | | 332/24 | Private | Natham | 83 | Gandhimathi W/o. Karuppiah |
| | | | | 332/26 | Private | Natham | 52 | Pooranam W/o. Krishna iyer 1, Thangamani S/o. Vellaian 2, |
| | | | | 332/27 | Private | Natham | 86 | Kamatchiammal W/o. Ramarchettiar |
| | | | | 332/30 | Private | Natham | 17 | Thavamani S/o. Booman |
| | | | | 332/31 | Private | Natham | 14 | Poongothai W/o. Azhumalai |
| | | | | 332/33 | Private | Natham | 46 | Veerappa S/o. Perian |
| | | | | 332/34 | Private | Natham | 24 | Kumaresan S/o. Madurai Veeran |
| | | | | 332/48 | Private | Natham | 20 | Rajammal W/o. Vellaichamy |
| | | | | 332/49 | Private | Natham | 37 | Booman S/o. Karuppanan |
| | | | | 332/58 | Private | Natham | 50 | Muppuli S/o. Muniyandi |
| | | | | 332/83 | Private | Natham | 51 | Pandiarajan S/o. Azhgan |
| | | | | 333/1 | Private | Dry | 400 | Pandian S/o. Chinniahkonar |
| | | | | 333/2 | Private | Dry | 250 | Pandian S/o. Chinniahkonar |
| | | | | 334/11 | Private | Dry | 09 | Ranichelvam W/o. Rajan |
| | | | | 334/13 | Private | Dry | 26 | K.Rajendrababu S/o. Kanniahnaidu (S.N.P. Dairy Milk Owner) |
| | | | | 334/16 | Private | Dry | 37 | K.Rajendrababu S/o. Kanniahnaidu S.N.P. Dairy Milk |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 334/17 | Private | Dry | 83 | K. Rajendrababu S/o. Kanniahnaidu (S.N.P. Dairy Milk Owner). |
| | | | | 337/1 | Private | Dry | 87 | Vellaiseruvakonar sons Balsubramaniyan 1, Kasilingam 2, Seruvalingam 3, Nandhagopal 4. |
| | | | | 337/6B | Private | Dry | 88 | Duraipandi S/o. Velayutham maniam 1, Kala W/o. Mohanasundaram 2. |
| | | | | 337/7A | Private | Dry | 131 | Kala W/o. Mohanasundaram |
| | | | | 337/7B | Private | Dry | 162 | Periyasamy S/o. Sadaiyandi 1, Pandiammal W/o. Periyasamy 2. |
| | | | | 340/1B1 | Private | Dry | 31 | P. Rajagopal |
| | | | | 340/1B2 | Private | Dry | 88 | P. Rajagopal |
| | | | | 341/1A | Private | Dry | 93 | Kamatchi Maheshbose S/o. Subash Bose |
| | | | | 341/5 | Private | Dry | 343 | Kamatchi Maheshbose S/o. Subash Bose |
| | | | | 341/6 | Private | Dry | 1126 | Ajithbabu S/o. Balasubramani |
| | | | | 343/2A | Private | Dry | 300 | Kamatchi Maheshbose S/o. Subash Bose |
| | | | | 343/2B | Private | Dry | 150 | Kamatchi Maheshbose S/o. Subash Bose |
| | | | | 344/3 | Private | Wet | 1518 | Geethalakshmi W/o. Arunachalam 1, Thangaraj S/o. Mappillaichamy 2, Arunachalam sons, Rajeshkumar 1, Minor Karthikeyan 2. |
| | | | | 344/5A | Private | Wet | 851 | Chandra W/o. David |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|-----|---|
| | | | | 344/5B | Private | Wet | 674 | Viji George S/o. Jariserian Director Madras Suspensors Private Ltd., |
| | | | | 344/6 | Private | Wet | 538 | Ajithbabu S/o. Balasubramanian |
| | | | | 345/1 | Private | Dry | 56 | Ajithbabu S/o. Balasubramanian |
| | | | | 345/2 | Private | Dry | 53 | Bandurengan sons S.P.Ramesh 1, Senthilkumar 2, Chinnlahkonar sons Duraipandi 3, Balakrishnan 4, Santhanam 5, Subbiah maniyam S/o. Velayutham 6, Shanmugam S/o. Subbiahmaniyam 7, Goethalakshmi W/o. Arunachalam 8, Thangaraj S/o. Mappillaichamy maniyam 9, Thangalah maniyam S/o. Arumugam maniyam 10, Alagarsamy S/o. Kuppuachamy Iyer 11, Jeyakodi S/o. Chellachamy @ Chinnachamy maniyam 12 |
| | | | | 345/3 | Private | Dry | 53 | Madurai R.K. Rock Producers Private Limited |
| | | | | 349/2A1 | Private | Dry | 520 | Meenatchi Foots (India) Private Limited Manager L.Bhuvaneswari W/o.Laurens |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|-----|----------------------|--|
| | | | | 349/2A2 | Private | Dry | 102 | Geethalakshmi W/o. Arunachalam 1, Thangaraj S/o. Mappillaichamy 2, Arunachalam sons Rajeshkumar 1, Minor Karthikeyan 2. |
| | | | | 349/3A | Private | Dry | 200 | Ramesh S/o. Pandurengan |
| | | | | 349/3B | Private | Dry | 200 | Senthilkumar S/o. Pandurengan |
| | | | | 349/5 | Private | Dry | 100 | Geethalakshmi W/o. Arunachalam 1, Thangaraj S/o. Mappillaichamy 2, Arunachalam sons Rajeshkumar 1, Minor Karthikeyan 2. |
| | | | | 349/4 | Private | Dry | 487 | R. Rathinakumar S/o. Ramachandran 1, M. Karthikeyan S/o. Muthukaruppan 2. |
| | | | | 349/6 | Private | Dry | 415 | Geethalakshmi W/o. Arunachalam 1, Thangaraj S/o. Mappillaichamy 2, Maharajamaniyam S/o. Velayuthammaniam 3, Chellappa S/o. Jeyakodi 4, Pandurengan sons Ramesh 5, Senthilkumar 6, Chinniahkonar sons C. Santhanam 7, Balakrishnan 8. |
| | | | | 350/17A1 | Private | Wet | 38 49 22 17 | P. Jeyakumar S/o. Periyasamy |
| | | | | 350/17A2 | Private | Wet | 50 | Ravichandran S/o. Muthiah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|-----|------|---|
| | | | | 350/17B | Private | Wet | 630 | Meenatchi Foots (India) Private Limited Manager L. Bhuvaneswari W/o. Laurens |
| | | | | 350/18A | Private | Wet | 526 | Ajithbabu S/o. Balasubramani |
| | | | | 350/19A1 | Private | Wet | 250 | J. Ranjithamary W/o. E. Johnson 1, Thangaraj S/o. Mappillaichamy maniyam 2, Geethalakshmi W/o. Arunachalam 3. |
| | | | | 350/19A2 | Private | Wet | 300 | Meenatchi Foots (India) Private Limited Manager L. Bhuvaneswari W/o. Laurens |
| | | | | 350/24 | Private | Wet | 100 | Ravichandran S/o. Muthiah |
| | | | | 350/25 | Private | Wet | 150 | M. Ramar S/o. Muthiah |
| | | | | 350/26 | Private | Wet | 295 | Pappa W/o. Karmegam |
| | | | | 350/27 | Private | Wet | 268 | Pappa W/o. Karmegam |
| | | | | 364/7 | Private | Dry | 1005 | Chinnachamy sons Vasudevan 1, Nagarajan 2, Narayanasamy 3, Thamotharan 4, Kalyani D/o. Chinnachamy 5. |
| | | | | 364/12 | Private | Dry | 402 | Chinnachamy sons Vasudevan 1, Nagarajan 2, Narayanasamy 3, Thamotharan 4, Kalyani D/o. Chinnachamy 5. |
| | | | | 364/19 | Private | Dry | 138 | Chinnachamy sons Vasudevan 1, Nagarajan 2, Narayanasamy 3, Thamotharan 4, Kalyani D/o. Chinnachamy 5. |
| | | | | 365/3A1 | Private | Wet | 322 | Rakkammal W/o. Andl |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|-----|-----|--|
| | | | | 365/3A2 | Private | Wet | 217 | Rajammal W/o. Subbiahchettiar 1, Solarajan S/o. Subbiahchettiar 2, Arumugam S/o. N.Sundaram 3 |
| | | | | 365/3A3 | Private | Wet | 116 | Arumugam S/o. N.Sundaram |
| | | | | 365/3A4 | Private | Wet | 176 | Anandharaj S/o. Pandi |
| | | | | 365/3A5 | Private | Wet | 100 | Ahamed Sheriff S/o. Kathar 1, Karjira begam W/o. Ahamed sheriff 2. |
| | | | | 365/3A6 | Private | Wet | 50 | Veerapathiran S/o. Irulappapillai |
| | | | | 365/3A7 | Private | Wet | 50 | Paunpandi S/o. Rajamani |
| | | | | 365/3A8 | Private | Wet | 150 | Rajamaniammal W/o. Rasu Asari 1, Saravanamurugan S/o. Rasu Asari 2, |
| | | | | 365/3A9 | Private | Wet | 100 | Johnpeter S/o. Susaimanickam 1, K.Shanmgavel S/o. Karuppiahkonar 2, Pandiammal W/o. Shanmugavel 3. |
| | | | | 365/3A10 | Private | Wet | 50 | Vijayalakshmi W/o. Rajasekaran |
| | | | | 365/3A11 | Private | Wet | 100 | Duraipandi S/o. Chinniahkonar |
| | | | | 365/3A12 | Private | Wet | 250 | Thangavel Asari sons Murugan 1, Kathiresan 2. |
| | | | | 365/3A13 | Private | Wet | 50 | Thangavel Asari sons Murugan 1, Kathiresan 2. |
| | | | | 365/4A | Private | Wet | 50 | Surilirajan S/o. Rajappan |
| | | | | 365/4B | Private | Wet | 250 | Surilirajan S/o. Rajappan |
| | | | | 365/4C | Private | Wet | 50 | Joseph S/o. Xavier |
| | | | | 365/4D | Private | Wet | 200 | Vargeese sons George 1, Maria Anthoni 2, Michael 3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|-----|-----|--|
| | | | | 365/4E | Private | Wet | 50 | Vargeese sons George 1, Maria Anthoni 2, Michael 3, Joseph S/o. Xavier 4, Seethalakshmi W/o. Kanthasamy 5, Angammal W/o. Ramasamy chettiar 6. |
| | | | | 365/4F | Private | Wet | 50 | Arikodi W/o. Mookiahnadar |
| | | | | 365/4G | Private | Wet | 200 | Anngammal W/o. Ramasamy chettiar |
| | | | | 365/4H | Private | Wet | 50 | Seethalakshmi W/o. Kanthasamy chettiar 1, Anngammal W/o. Ramasamy chettia r 2, Saratha W/o. Enattan 3. |
| | | | | 365/5A | Private | Wet | 250 | Saratha W/o. Enattan |
| | | | | 365/5B | Private | Wet | 100 | Rajaram S/o. Periyasamy |
| | | | | 365/5C | Private | Wet | 100 | Chandran S/o. Kalimuthu |
| | | | | 365/5D | Private | Wet | 150 | Chandran S/o. Kalimuthu |
| | | | | 365/5E | Private | Wet | 300 | Karuppiyah S/o. Thinarkonar |
| | | | | 365/5F | Private | Wet | 300 | Muniasamy S/o. Ramiahkonar |
| | | | | 365/5G | Private | Wet | 100 | Packiam S/o. Courtallampillai |
| | | | | 365/5H | Private | Wet | 150 | Packiam S/o. Courtallampillai |
| | | | | 365/6A1 | Private | Wet | 400 | Chinniahkonar S/o. Karuppasamy konar |
| | | | | 365/6A2A | Private | Wet | 300 | Arputhamaniamm al W/o. David Chelliah 1, Annathayammal W/o. Ponniah 2, Vasanthan 3, Ammapillai 4. |
| | | | | 365/6A2B | Private | Wet | 100 | Baskaran S/o. Kayambu |
| | | | | 365/6A2C | Private | Wet | 50 | Ayyadurai S/o. Rajakannu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|-----|------|---|
| | | | | 365/6A3 | Private | Wet | 1010 | Chinnachamy sons Vasudevan 1, Nagarajan 2, Narayanasamy 3, Thamotharan 4, Kalyani D/o. Chinnachamy 5. Guardian Mother Sivakamiammal |
| | | | | 365/7 | Private | Wet | 400 | Anandhakrishnan S/o. Amirthalinganadar |
| | | | | 365/8 | Private | Wet | 150 | Kottaichamy S/o. Thinnarkonar |
| | | | | 365/9 | Private | Wet | 100 | Muthuchelvam S/o. Mookkiah |
| | | | | 366/2A | Private | Dry | 140 | Anandharaj S/o. Pandi Minor Guadian Father Pandi |
| | | | | 366/2B1A | Private | Dry | 113 | Duraipandi S/o. Chinniahkonar |
| | | | | 366/2B1B | Private | Dry | 150 | Johnpeter S/o. Susaimanickam |
| | | | | 366/2B2 | Private | Dry | 68 | Ravi S/o. Ayyanar velar |
| | | | | 366/2C | Private | Dry | 227 | Thangavel Asari sons Murugan 1, Kathiresan 2. |
| | | | | 366/2D | Private | Dry | 50 | Duraipandi S/o. Chinniahkonar 1, Thangavel Asari S/o. Karuppiyah Asari 2, Karuppanan S/o. Karuppanan 3. |
| | | | | 366/2F | Private | Dry | 110 | Thirupathy S/o. Pandi |
| | | | | 366/2G | Private | Dry | 100 | Duraipandi S/o. Chinniahkonar |
| | | | | 366/2I | Private | Dry | 93 | Masanam chettiar S/o. Mottaiyanchettiar |
| | | | | 366/2J | Private | Dry | 150 | Joseph S/o. Xevier |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|-----|---|
| | | | | 366/2K | Private | Dry | 50 | Govindan S/o. Rengasamy 1, Madasamy S/o. Mottaiyanchettiar 2, Joseph S/o. Xevier 3, Sathasivam S/o. Seruvakonar 4, Anthoniammal W/o. Iruthayaraj 5, Seethalakshmi W/o. Kanthasamy chettiar 6. |
| | | | | 366/2M | Private | Dry | 103 | Anthoniammal W/o. Iruthayaraj |
| | | | | 366/2N | Private | Dry | 150 | Arikodi W/o. Mookkiahnadar |
| | | | | 366/2O | Private | Dry | 12 | Kasilingam S/o. Seruvakonar 1, Anthoniammal W/o. Iruthayaraj 2, Seethalakshmi W/o. Kanthasamychettiar 3, Karuppanan S/o. Karuppanan 4. |
| | | | | 366/3A | Private | Dry | 25 | Karuppanan S/o. Karuppanan |
| | | | | 366/3B | Private | Dry | 89 | Karuppiah S/o. Thinnarkonar |
| | | | | 366/3C | Private | Dry | 68 | Minichi W/o. Muthukamatchi |
| | | | | 366/3D | Private | Dry | 74 | Minichi W/o. Muthukamatchi |
| | | | | 366/3E1 | Private | Dry | 79 | Santhavaliyan S/o. Muniyasamykonar |
| | | | | 366/3E2 | Private | Dry | 81 | Chandran S/o. Muniyandikonar |
| | | | | 366/3E3 | Private | Dry | 98 | Rajaram S/o. Periyasamy |
| | | | | 366/3F | Private | Dry | 58 | Santhavaliyan S/o. Periyakaruppan |
| | | | | 366/3G | Private | Dry | 145 | Muniyasamy S/o. Periyakaruppakon ar |
| | | | | 366/3H2 | Private | Dry | 115 | Baluchamy sons Sekar 1, Venkadesh 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|-----|----------------|---|
| | | | | 366/311 | Private | Dry | 59 | Baluchamy S/o. Periyakaruppakon ar |
| | | | | 366/312 | Private | Dry | 100 | Muniyasamy S/o. Periyakaruppakon ar |
| | | | | 366/3J | Private | Dry | 468 | Alliraj S/o. Mookkan asari |
| | | | | 366/3K | Private | Dry | 343 | Dhanalakshmi W/o. Sadaiyandi konar |
| | | | | 366/3L | Private | Dry | 94 | Kottaichamy S/o. Thinnarkonar |
| | | | | 366/3M | Private | Dry | 400 | Ponniyah S/o. Arumugam 1, Muthukamatchi S/o. Kizhvan 2, Palchamy S/o. Periyakaruppan 3, Santhavaliyan S/o. Ramiahkonar 4, Santhavaliyan S/o. Periyakaruppan 5, Muniyasamy 6, Rajaram S/o. Periyasamy 7, Balakrishnan S/o. Muthukrishnan 8, Karuppiahservai S/o. Udiyarservai 9, Alliraj S/o. Murugan asari 10, Dhanalakshmi W/o. Sadaiyandi Konar 11, Kottaichamy S/o. Karuppanan 12. |
| | | | | 366/3N | Private | Dry | 1030 | Santhavaliyan S/o. Ramiahkonar |
| | | | | 366/39 | Private | Dry | 85 | Gnanasekaran S/o. Mahalingampillai |
| | | | | 524/1 | Private | Wet | 350 | Balakrishnan S/o. Annamalikonar |
| | | | | 524/2 | Private | Dry | 83 | Karuppananservai sons Thavamani 1, Masilamani 2. |
| | | | | 524/3 | Private | Wet | 1850 | Balakrishnan S/o. Annamalikonar |
| | | | | 525/2A1A | Private | Wet | 21 90 69 | Santhanam S/o. Chinniahkone |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|--------|-----|---|
| | | | | 525/2A1B | Private | Wet | 80 | Balraj S/o. Iruthayaraj |
| | | | | 525/2A2 | Private | Wet | 85 | Balaguru S/o. Chelliahsevai |
| | | | | 525/2A3 | Private | Wet | 100 | Muthumari W/o. Rajaram |
| | | | | 525/2A4 | Private | Wet | 100 | L.S.C. Paramasivam S/o. Chinniah chettiar |
| | | | | 525/3 | Private | Wet | 18 | Sankarapandian S/o. Rathinavelchettiar |
| | | | | 525/4 | Private | Wet | 19 | Pandian S/o. Sundarasu |
| | | | | 534/44 | Private | Dry | 05 | Govindasamynaidu sons Kamatchi 1, Vijayarengan 2, Vijayalakshmi W/o. Purusothaman 3. |
| | | | | 537/12 | Private | Natham | 148 | Govindasamy naidu sons Rajaram 1, Varatharajan 2, Subburayalu 3, Radhakrishnan 4. |
| | | | | 537/13 | Private | Natham | 80 | Subburayalu daughters Anusuya 1, Subhasini 2. |
| | | | | 537/14 | Private | Natham | 33 | Balamma W/o. Ramarajnaidu |
| | | | | 537/16 | Private | Natham | 27 | Senthamarai W/o. Sekar |
| | | | | 537/17 | Private | Natham | 21 | Angannaidu sons Balachandran 1, Padmanapan @ Sekar 2, Ramachandran 3, Bose 4, Kannan 5, Anganan naidu daughters Susila 6, Padmavathi 7. |
| | | | | 537/21 | Private | Natham | 356 | Govindarajulunaidu S/o. R.S.Ramraj |
| | | | | 537/24 | Private | Natham | 22 | Koothan ampalam S/o. Santhanaampalam 1, Mahamayee W/o. Koothan ampalam 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|---|
| | | | | 537/25 | Private | Natham | 265 | Kannuchamy S/o. A.S. Ayothinaidu |
| | | | | 537/26 | Private | Natham | 63 | Ramasamy sons Govindan 1, Rajagopal 2, Dhanammal W/o. Govindan 3, R.K. Govindasamy sons Kamatchi 4, Vijayarengan 5, Purosothaman 6, Jaya W/o. Balakrishnan 7, Venkatesan S/o. Balakrishnan 8. |
| | | | | 541/3 | Private | Natham | 04 | Kannan S/o. Palchamy |
| | | | | 542/6 | Private | Natham | 13 | Krishnarayar S/o. Kumaran |
| | | | | 542/14 | Private | Natham | 25 | Malkalai S/o. Komali |
| | | | | 543/2 | Private | Natham | 58 | Karuppiyah sons Kamatchi 1, Sanmugam 2, Sabapathi 3. |
| | | | | 543/3 | Private | Natham | 76 | Periyasamy S/o. Periyakaruppan |
| | | | | 543/4 | Private | Natham | 38 | Veeran S/o. Veeran |
| | | | | 543/5 | Private | Natham | 45 | Pappa D/o. Periyampillai |
| | | | | 543/6 | Private | Natham | 69 | Murugesan S/o. Mayandi |
| | | | | 543/7 | Private | Natham | 25 | Sabapathi S/o. Karuppiyah |
| | | | | 543/8 | Private | Natham | 26 | Alagammal W/o. Molaiyan |
| | | | | 543/10 | Private | Natham | 14 | Alagan sons Komali 1, Nagan 2. |
| | | | | 543/11 | Private | Natham | 12 | Mookkammal W/o. Sundararaju |
| | | | | 543/12 | Private | Natham | 17 | Komali S/o. Periyampillai |
| | | | | 543/14 | Private | Natham | 13 | Mahendran S/o. Alagan |
| | | | | 543/15 | Private | Natham | 18 | Vellaichamy S/o. Mekkian |
| | | | | 543/16 | Private | Natham | 20 | Kamatchi S/o. Karuppiyah |
| | | | | 543/17 | Private | Natham | 26 | Panchammal W/o. Paraman |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|---|
| | | | | 543/18 | Private | Natham | 65 | Rojappu S/o. Velu |
| | | | | 551/2 | Private | Natham | 114 | Jeyasundari W/o. Krishnan 1, Saravanakumar S/o. Krishnan 2. |
| | | | | 551/7 | Private | Natham | 05 | Ammapillai W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Kannan 2, Raman 3, Lakshmanan 4, Dhanalakshmi D/o. Krishnan 5. |
| | | | | 551/8 | Private | Natham | 16 | Ammapillai W/o. Krishnan 1, Krishnan sons Kannan 2, Raman 3, Lakshmanan 4, Dhanalakshmi D/o. Krishnan 5. |
| | | | | 551/9 | Private | Natham | 150 | Maharajan sons Sivasubramanian 1, Ramasubramanian 2, Venkatasubramanian 3, Balasubramanian 4, Maharajan daughters Vijayalakshmi 5, Rukmani 6, Rajeshwari 7. |
| | | | | 551/11 | Private | Natham | 210 | Jothirajan S/o. Muthuraj |
| | | | | 551/12 | Private | Natham | 04 | Dhavamani S/o. Karuppanan Servai |
| | | | | 551/13 | Private | Natham | 15 | Ammapillai W/o. Krishnan |
| | | | | 551/14 | Private | Natham | 21 | Karuppiyah S/o. Gurunathanservai |
| | | | | 551/15 | Private | Natham | 28 | Appanraj S/o. Gurunathanservai |
| | | | | 551/16 | Private | Natham | 95 | Mahalingamservai S/o. Sathappanservai |
| | | | | 551/19 | Private | Natham | 48 | Thangalakshmi W/o. Vellaichamy 1, Anandhakumar S/o. Vellaichamy 2, Latha D/o. Vellaichamy 3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 551/20 | Private | Natham | 81 | Marnattan S/o. Rakkappan servai |
| | | | | 551/22 | Private | Natham | 130 | Arumugam S/o. Karuppiahservai |
| | | | | 551/24 | Private | Natham | 55 | Rajendran S/o. Rakkappan servai |
| | | | | 552/33 | Private | Natham | 15 | Ayyankalai S/o. Gurunathan |
| | | | | 552/47 | Private | Natham | 01 | Pandidurai S/o. Periyasamy |
| | | | | 552/48 | Private | Natham | 01 | Karuppayee ammal W/o. Karuppasamy |
| | | | | 552/49 | Private | Natham | 03 | Ponnupappu servai S/o. Muthirulanservai |
| | | | | 552/50 | Private | Natham | 22 | Krishnan S/o. Thangamuthuserv ai |
| | | | | 552/51 | Private | Natham | 35 | Somanathan S/o. Sangaiah thevar |
| | | | | 573/9 | Private | Natham | 24 | Sethuram S/o. Mariappan chettiar |
| | | | | 573/10 | Private | Natham | 31 | Packiyam W/o. Athithan |
| | | | | 573/11 | Private | Natham | 33 | Sundaram chettiar S/o. Ramasamy chettiar 1, Rajeshwari W/o. Sundaram chettiar 2. |
| | | | | 573/12 | Private | Natham | 18 | Pandiammal W/o. Alagarchettiar |
| | | | | 573/13 | Private | Natham | 41 | Pandiammal W/o. Alagarchettiar 1, Sethuchettiar sons Manickam 2, Ravisekar 3. |
| | | | | 573/14 | Private | Natham | 41 | Rajendran S/o. Mottaiyandi |
| | | | | 574/14 | Private | Natham | 30 | Baskaran S/o. Karuppiah chettiar |
| | | | | 574/15 | Private | Natham | 62 | Veeraiah chettiar sons Baskaran 1, Karunakaran 2, Senthil 3. |
| | | | | 574/16 | Private | Natham | 14 | Thangaraj S/o. Alagarsamy chettiar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 574/18 | Private | Natham | 56 | Ramuchettiar S/o. Alagarsamy chettiar |
| | | | | 574/19 | Private | Natham | 33 | Sethuchettiar S/o. Mayanchettiar |
| | | | | 574/21 | Private | Natham | 09 | Pandi S/o. Virumakonar |
| | | | | 574/22 | Private | Natham | 96 | Gopalram S/o. Ramasamy chettiar |
| | | | | 574/23 | Private | Natham | 17 | Logaguru W/o. Gopalram |
| | | | | 574/24 | Private | Natham | 92 | Karuppiiah chettiar S/o. Muthaluchettiar |
| | | | | 574/25 | Private | Natham | 19 | Chellachamy S/o. Karuppanan |
| | | | | 574/26 | Private | Natham | 110 | Pappu W/o. Karuppasamy 1, Selva W/o. Pasupathy 2. |
| | | | | 574/27 | Private | Natham | 24 | Chellachamy S/o. Karuppanan |
| | | | | 574/28 | Private | Natham | 225 | Rajendran S/o. Pitchaikuttinadar |
| | | | | 574/29 | Private | Natham | 91 | Thangaraj S/o. Alagarsamy chettiar |
| | | | | 574/30 | Private | Natham | 21 | Duraipandi S/o. Kanthan 1, Alagammal W/o. Kanthan 2. |
| | | | | 574/31 | Private | Natham | 19 | Baskaran S/o. Karuppiiah chettiar |
| | | | | 574/32 | Private | Natham | 36 | Sethuchettiar sons Sukumar 1, Thiagarajan 2 |
| | | | | 574/35 | Private | Natham | 46 | Alagammal W/o. Chellam chettiar |
| | | | | 574/36 | Private | Natham | 146 | Narayanakonar sons Palanivel 1, Karuppanan 2, Thirumal 3. |
| | | | | 574/39 | Private | Natham | 10 | Velupandithan sons Murugesan 1, Santhanam 2, Nagarajan 3, Kumar 4 Guardian Mother Lakshmiammal |
| | | | | 574/40 | Private | Natham | 48 | Karuppayee W/o. Krishnan |
| | | | | 574/41 | Private | Natham | 33 | Chellachamy S/o. Karuppanan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|---|
| | | | | 574/42 | Private | Natham | 41 | Vellaichamy S/o. Sivalingakonar |
| | | | | 574/44 | Private | Natham | 35 | Kuppangi S/o. Karuppakonar |
| | | | | 574/45 | Private | Natham | 34 | Natarajan S/o. Karuppiahpillai |
| | | | | 574/46 | Private | Natham | 18 | Pandi S/o. Virumakonar |
| | | | | 574/47 | Private | Natham | 26 | Pitchai S/o. Posakonar |
| | | | | 575/7 | Private | Natham | 23 | Deivamaniammal W/o. Narasingam |
| | | | | 575/8 | Private | Natham | 61 | Palaniyandi S/o. Karuppanan |
| | | | | 575/9 | Private | Natham | 133 | Kamatchiammal W/o. Ramu |
| | | | | 575/10 | Private | Natham | 36 | Ponraj S/o. Duraipandian |
| | | | | 575/11 | Private | Natham | 26 | Sethuraman S/o. Pethananchettier |
| | | | | 575/12 | Private | Natham | 51 | Rajendran S/o. Muthu manickam @ Muthanan Chettier |
| | | | | 575/13 | Private | Natham | 83 | Kasi S/o. Ponniah nadir 1, Ramesh S/o. Subramanian 2. |
| | | | | 575/14 | Private | Natham | 62 | Subbiah S/o. Sundarapandaram |
| | | | | 575/15 | Private | Natham | 39 | Ramasamy S/o. Pitchai 1, Ammapillai W/o. Pitchaipandaram 2. |
| | | | | 575/29 | Private | Natham | 52 | Tanagaraju S/o. Muthuchamy |
| | | | | 575/30 | Private | Natham | 34 | Geethalakshmi W/o. Arunachalam |
| | | | | 575/32 | Private | Natham | 12 | Pandi W/o. Ayyavu |
| | | | | 575/34 | Private | Natham | 36 | Vellaichamy S/o. Vellaian |
| | | | | 575/36 | Private | Natham | 25 | Palanivel S/o. Subban |
| | | | | 575/37 | Private | Natham | 15 | Indra W/o. Murugesan |
| | | | | 575/38 | Private | Natham | 20 | Palanivel S/o. Subbiah |
| | | | | 575/39 | Private | Natham | 17 | Palanivel S/o. Subbiah |
| | | | | 575/44 | Private | Natham | 15 | Murugaraj S/o. Palani |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|----------------------------|----------|---------|-----|------|--|
| | | | (4) Kulasekar- ankottai | 150/2 | Private | Dry | 160 | R.Radhakrishnan S/o. Late.Ramakkonar 1, Ramasamy thevar S/o. Vellaichamy thevar 2. |
| | | | | 150/7A | Private | Dry | 700 | R.Radhakrishnan S/o.Late.Ramakk onar |
| | | | | 151/1B | Private | Dry | 1461 | Siva S/o. Late.Sivalingakon ar |
| | | | | 151/4B | Private | Dry | 350 | Siva S/o. Late.Sivalingakon ar |
| | | | | 151/5A | Private | Dry | 275 | Rajeshwaran Sam Devaram S/o. David |
| | | | | 151/8A1 | Private | Dry | 550 | Rajeshwaran Sam Devaram S/o. David |
| | | | | 152/4B | Private | Dry | 805 | R. Elango S/o. Late.Ramakkonar |
| | | | | 152/6A | Private | Dry | 159 | Siva S/o. Late.Sivalingakon ar |
| | | | | 152/9A | Private | Dry | 390 | R. Elango S/o. (Late) Ramakkonar |
| | | | | 152/10A | Private | Dry | 1175 | N. Palanichamy S/o. Nachimuthu Goundar |
| | | | | 153/6A1 | Private | Dry | 700 | Guru Bangarasamy |
| | | | | 153/6B | Private | Dry | 475 | R.C. Mission |
| | | | | 153/7C | Private | Dry | 12 | Karuppuchamy sons Gopal 1, Rajendiran 2. |
| | | | | 153/7D1 | Private | Dry | 400 | R.C. Mission |
| | | | | 153/7E1 | Private | Dry | 1140 | R.C. Mission |
| | | | | 159/3A1A | Private | Dry | 775 | R. Elango S/o. Late.Ramakkonar |
| | | | | 159/3A1C | Private | Dry | 230 | M. Rani W/o. Muthukalai |
| | | | | 159/4A1 | Private | Dry | 1625 | Bhavani W/o. Raman 1, Manikandah S/o. Ramakkonar 2. |
| | | | | 159/5 | Private | Dry | 215 | R. Elango S/o. Late.Ramakkonar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|--------|------|--|
| | | | | 162/1A3 | Private | Dry | 430 | Duraipandi S/o. M.C. Malaiyakkon ar |
| | | | | 162/37 | Private | Natham | 230 | K. Kanthavel S/o. Kumaresan |
| | | | | 162/38 | Private | Natham | 47 | Poochammal W/o. Shanmugam |
| | | | | 162/4A1 | Private | Dry | 655 | Solamalai sons Azhagu 1, Vellaichamy 2, Ramasamy Moopar sons Azhagan 3, Mayan 4, Raman 5. |
| | | | | 162/4A3 | Private | Dry | 220 | Vellaichamy S/o. Solamalai Moopar |
| | | | | 162/40 | Private | Natham | 69 | Vellaichamy S/o. Solamalai Moopar |
| | | | | 162/47 | Private | Natham | 173 | Sekar S/o. Subramanian 1, Muthazhu S/o. Ramasamy 2. |
| | | | | 162/8A6I | Private | Dry | 80 | Subramanian sons Sekar 1, Rajendiran 2. |
| | | | | 162/8A6J | Private | Dry | 85 | Senthilvel |
| | | | | 162/8A6K | Private | Dry | 15 | S. Chellappan 1, Subbiah 2, Dhanam 3, Narayanan 4, N. Seethalakshmi 5, R. Nallammal 6, Indhurani 7, Balamani 8, Subramaniapillai 9, Kumarasamy 10 |
| | | | | 162/11A1 | Private | Dry | 195 | Thalaivar Pandiarajapuram Diary Society |
| | | | | 162/65 | Private | Natham | 220 | Pitchaimani S/o. Thavamani Servai |
| | | | | 165/10C | Private | Dry | 2000 | Jeyaraman S/o. Chinnachamy 1, Rukkumani W/o. Jeyaraman 2, Vijayakumar S/o. Jeyaraman 3. |
| | | | | 165/10D | Private | Dry | 150 | M. Muthu W/o. Meenatchi Sundaram |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|---|
| | | | | 185/10E | Private | Dry | 1560 | Jeyaraman S/o. Chinnachamy 1, Rukkumani W/o. Jeyaraman 2, Vijayakumar S/o. Jeyaraman 3. |
| | | | | 195/5 | Private | Dry | 1245 | G. Seerangammal W/o. Govindaraj |
| | | | | 195/6 | Private | Dry | 300 | Venkitammal W/o. Ponnaiah Naicker |
| | | | | 195/7 | Private | Dry | 1000 | Achimuthu |
| | | | | 195/8 | Private | Dry | 372 | Prabhu sankar S/o. Palaniappan |
| | | | | 195/10 | Private | Dry | 1210 | N. Palanichamy S/o. Nachimuthu Gounder |
| | | | | 196/7 | Private | Dry | 1960 | Ponkonda Perumal S/o. Pitchamuthu Nadar |
| | | | | 196/8 | Private | Dry | 1950 | Rama pandian W/o. Late. Pandian 1, Late. Pandian sons Selvam 2, Thangam 3, Raja 4. |
| | | | | 196/9B | Private | Dry | 420 | Nagalakshmi W/o. Ramaiahraj 1, Ramaiahraj sons Magudapathyraj 2, Sathiyarayanaraj 3, Kondal manivannan 4. |
| | | | | 196/9C | Private | Dry | 3280 | Ponkonda Perumal S/o. Pitchamuthu Nadar |
| | | | | 198/1 | Private | Dry | 1720 | Arjun S/o. Chokkappan |
| | | | | 198/2 | Private | Dry | 2400 | Arjun S/o. Chokkappan |
| | | | | 198/3 | Private | Dry | 2250 | S.M. Chinniah S/o. Marappa gounder |
| | | | | 198/4A4 | Private | Dry | 1300 | Muniammal W/o. Late. Palaniyandi 1, Chinnuservai sons Chandran 2, Rajangam 3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|--------|------|--|
| | | | | 198/5C1 | Private | Dry | 4600 | Arjun S/o. Chokkappan |
| | | | | 198/5C2 | Private | Dry | 550 | Rajangam S/o. Chinnuservai |
| | | | | 198/5C3 | Private | Dry | 1055 | Muniammal W/o. Late. Palaniyandi 1, Chinnuservai sons Chandran 2, Rajangam 3. |
| | | | | 198/5C4 | Private | Dry | 854 | Chinnakaruppu S/o. Chandran |
| | | | | 198/5C5 | Private | Dry | 35 | Rajangam S/o. Chinnuservai |
| | | | | 198/5C6 | Private | Dry | 300 | Muniammal W/o. Late. Palaniyandi 1, Chinnuservai sons Chandran 2, Rajangam 3. |
| | | | | 198/7A | Private | Dry | 340 | Arjun S/o. Chokkappan |
| | | | | 198/7B | Private | Dry | 1300 | Rajangam S/o. Chinnuservai |
| | | | | 198/7C | Private | Dry | 500 | Chinnakaruppu S/o. Chandran |
| | | | | 198/7D | Private | Dry | 1400 | Muniammal W/o. Palaniyandi 1, Chinnuservai sons Chandran 2, Rajangam 3. |
| | | | | 201/4 | Private | Dry | 230 | Tamilnadu Civil Supplies Corporation 1. Commissioner, Vadipatti Panchayat Union 2. |
| | | | | 201/5 | Private | Natham | 26 | Chinnachamy S/o. Kayambu |
| | | | | 201/9 | Private | Natham | 40 | Arumugam S/o. Palani |
| | | | | 201/11 | Private | Natham | 34 | Alagarsamy S/o. Muniappan |
| | | | | 201/13 | Private | Natham | 24 | P. Pichaiammal W/o. Packiam |
| | | | | 201/24 | Private | Natham | 18 | Perumal S/o. Velan |
| | | | | 201/32 | Private | Natham | 22 | Samikkalai S/o. Manian |
| | | | | 201/33 | Private | Natham | 11 | V. Sekar S/o. Vellaichamy |
| | | | | 206/1B1A | Private | Dry | 590 | Sathiyamoorthy S/o. Vellaichamy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|-----|-----------|--|
| | | | | 206/1B1B | Private | Dry | 230 | Vellaichamy sons Mayan 1, Azhagan 2. |
| | | | | 206/2B1A | Private | Dry | 106 | Vijaya 1, Ponnuchamy |
| | | | | 206/2B1B | Private | Dry | 179 | Ayyammal W/o. Ramasamy |
| | | | | 206/2B1C | Private | Dry | 23 360 | Jesuraja 1, Vincent 2, Amalraj 3, Aruldasan 4, Nagammal 5, Bose 6, Muthukkannan 7 Pandiammal 8, Raman 9. |
| | | | | 206/2B2 | Private | Dry | 690 | A. Vincent 1, Amalraj 2, Gurunathan 3, Gnanavalli 4, Jesuraja 5, Arulthasan 6, Danilraj 7, Selvaraj 8, Nagammal 9, Peter 10, Mahimaidoss 11, Bose 12, Muthukanni 13, Pandiammal 14, Pandian 15, Guruvammal 16, Raman 17, Karuppiyah 18. |
| | | | | 206/2B3 | Private | Dry | 100 | Mayan S/o. Mayan |
| | | | | 207/2A1A | Private | Dry | 155 | Azhagan S/o. Solaimalai |
| | | | | 207/2A1B | Private | Dry | 560 37 | Chandrasekaran S/o. Mayandi 1, S. Ranjith S/o. Soundararajan 2. |
| | | | | 207/2A2A | Private | Dry | 350 | Marutharaj S/o. Chinnathambi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----------|---------|-----|------|---|
| | | | | 207/2B2B | Private | Dry | 500 | Azhagan S/o. Solaimalai 1, Ramayee W/o. Azhagan 2, Ramasamy S/o. Maya Moopar 3, Samy Moopar S/o. Muthazhagu 4, Mayan S/o. Thirumeni 5, Kundumalai S/o. Ayyanan 6, Azhagu S/o. Solaimalai 7. Govindammal W/o. Annamalai 8. |
| | | | | 207/2A1C | Private | Dry | 245 | Azhagan S/o. Solaimalai |
| | | | | 207/3B1A1 | Private | Dry | 1380 | Sakkaraiaimmai W/o. Late. Natarajathavar 1, C. Durai 2, R. Dhanam 3. |
| | | | | 207/3B1A2 | Private | Dry | 100 | Rathidevi W/o. Late. Murugesan |
| | | | | 207/3B1A3 | Private | Dry | 100 | Rajagopal S/o. Velayuthampillai |
| | | | | 291/3B1 | Private | Dry | 260 | Villikonar daughters Sunthammal 1, Rajathi 2, Late. Andikonar sons Karuppu 3, Vallarasu 4, Krishnan 5. |
| | | | | 291/3B2 | Private | Dry | 240 | Villikonar daughters Sunthammal 1, Rajathi 2. |
| | | | | 291/3B3 | Private | Dry | 345 | Andikonar sons Karuppu 1, Vallarasu 2, Krishnan 3. |
| | | | | 291/4B | Private | Dry | 83 | A. R. Somasundaram chettiar S/o. Arunachalam chettiar |
| | | | | 295/1 | Private | Dry | 3775 | David S/o. Israel |
| | | | | 295/2 | Private | Dry | 295 | Chandra W/o. I. David |
| | | | | 296/2 | Private | Dry | 2690 | Chandra W/o. I. David |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 296/3 | Private | Dry | 3800 | M. Ramar S/o. Murukandi |
| | | | | 296/4A | Private | Dry | 670 | Edu Radhakrishnan S/o. Edukondal reddiar |
| | | | | 296/5A | Private | Dry | 1650 | D.Karuppiiah S/o. Duraisamy |
| | | | | 297/2 | Private | Dry | 260 | David S/o. Israel Nadar |
| | | | | 297/3 | Private | Dry | 1245 | David S/o. Israel Nadar |
| | | | | 312/3B | Private | Dry | 1140 | S.Indhurani W/o. Subbiah |
| | | | | 312/4B1 | Private | Dry | 185 | Shanathi W/o. Rajendran |
| | | | | 312/4B2 | Private | Dry | 225 | Rajendran S/o. Paulchamy |
| | | | | 312/4B3 | Private | Dry | 1200 | C.Sundari W/o. R.Chandran |
| | | | | 312/5B | Private | Dry | 2600 | A.R.Somasundaram chettiar S/o. Arunachalam chettiar |
| | | | | 312/6B1 | Private | Dry | 200 | Villikonar daughters Sunthammal 1, Rajathi 2, Late. Andikonar sons Karuppu 3, Vallarasu 4, Krishnan 5. |
| | | | | 312/6B2 | Private | Dry | 200 | Villikonar daughters Sunthammal 1, Rajathi 2. |
| | | | | 313/5 | Private | Dry | 750 | S.Indhurani W/o. Subbiah |
| | | | | 313/6 | Private | Dry | 1500 | S.Indhurani W/o. Subbiah |
| | | | | 313/7 | Private | Dry | 960 | S.Indhurani W/o. Subbiah |
| | | | | 313/8 | Private | Dry | 1990 | S.Indhurani W/o. Subbiah |
| | | | | 313/9 | Private | Dry | 750 | S.Indhurani W/o. Subbiah |
| | | | | 313/10 | Private | Dry | 950 | S.Indhurani W/o. Subbiah |
| | | | | 314/1A | Private | Dry | 1690 | Thiyagarajan S/o. Sangupillai |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|---|
| | | | | 314/1B | Private | Dry | 1625 | T. Sangupillai S/o. Thangamuthu pillai 1, Ponnammal D/o: Thangamuthu pillai 2. |
| | | | | 314/1C | Private | Dry | 340 | Minors Rani 1, Sivakumar 2, Chandravathana 3 Guardian Mother Chellapalaniamm al |
| | | | | 314/2 | Private | Dry | 135 | Thiyagarajan S/o. Sangupillai |
| | | | | 315/2 | Private | Dry | 300 | Minors Rani 1, Sivakumar 2, Chandravathana 3 Guardian Mother Chellapalaniamm al |
| | | | | 315/3 | Private | Wet | 50 | Minors Rani 1, Sivakumar 2, Chandravathana 3 Guardian Mother Chellapalaniamm al |
| | | | | 315/4A | Private | Wet | 120 | Minors Rani 1, Sivakumar 2, Chandravathana 3 Guardian Mother Chellapalaniamm al |
| | | | | 315/4B1 | Private | Wet | 80 | Minors Rani 1, Sivakumar 2, Chandravathana 3 Guardian Mother Chellapalaniamm al |
| | | | | 316/5 | Private | Dry | 6380 | K. Kumarasamy S/o. Krishnareddiar |
| | | | | 316/7 | Private | Dry | 1020 | Muniammal W/o. Muthan |
| | | | | 317/6 | Private | Dry | 1090 | R. Subbiah S/o. Ramalingam |
| | | | | 317/7 | Private | Dry | 1760 | R. Subbiah S/o. Ramalingam |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 317/8 | Private | Dry | 2425 | R.Subbiah S/o. Ramalingam |
| | | | | 326/2C | Private | Dry | 3780 | Murugesan S/o. Sevukakonar |
| | | | | 326/4 | Private | Dry | 30 | Murugesan S/o. Sevukakonar |
| | | | | 340/1 | Private | Dry | 340 | Minors Rani 1, Sivakumar 2, Chandravathana 3 Guardian Mother Chellapalaniammal |
| | | | | 343/1D | Private | Dry | 1200 | T. Pon Perumal S/o. Thavamani servai |
| | | | | 343/1E2 | Private | Dry | 280 | Kanthasamy goundar sons Palanichamy 1, Nalluchamy 2. |
| | | | | 343/1E3 | Private | Dry | 4700 | K. Palanichamy S/o. Kanthasamy |
| | | | | 343/1E4 | Private | Dry | 8400 | P. Nalluchamy S/o. Palaniappagoundar |
| | | | | 343/1E5 | Private | Dry | 200 | Palanichamy S/o. Kanthasamy goundar |
| | | | | 343/1E6 | Private | Dry | 4700 | Palanichamy S/o. Kanthasamy goundar |
| | | | | 343/1F1 | Private | Dry | 3800 | Palanichamy S/o. Kanthasamy goundar 1, Selvalakshmi W/o. Palanichamy 2. |
| | | | | 343/1F2 | Private | Dry | 3700 | Saraswathi W/o. Chinnachamy |
| | | | | 346/4A | Private | Dry | 3030 | Thirumalaichamy S/o. Kuppanagoundar |
| | | | | 346/4B3 | Private | Dry | 2035 | Kaliappagoundar S/o. Kaliappagoundar |
| | | | | 347/2 | Private | Dry | 06 | Vanjathal W/o. Karuppasamy 1, Muthulakshmi 2, Selvi 3, Muruganantham 4. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 347/3A1 | Private | Dry | 325 | Chellamuthu S/o. Muthusamygoundar |
| | | | | 347/3A2 | Private | Dry | 150 | Vanjathal W/o. Karuppasamy 1, Muthulakshmi 2, Selvi 3, Muruganantham 4. |
| | | | | 347/3B | Private | Dry | 4660 | Sivasamy goundar S/o. Kuppanagoundar |
| | | | | 347/4 | Private | Dry | 540 | Sivasamy goundar S/o. Kuppanagoundar |
| | | | | 348/1B | Private | Dry | 3885 | Sivasamy goundar S/o. Kuppana goundar |
| | | | | 348/2 | Private | Dry | 235 | Pappathiammal W/o. Venkitasamy reddiar 1, Venkitasamy reddiar daughters Indhurani 2, Selvarani 3, Jeya 4, Kalarani 5, son Rajagopal 6. |
| | | | | 348/3 | Private | Dry | 2165 | V. Karuppana goundar S/o. Vellaiyagoundar |
| | | | | 350/5B | Private | Dry | 140 | Venkitasamy reddiar S/o. Lingareddiar |
| | | | | 353/2 | Private | Dry | 62 | V. Nehru S/o. Venkitasamy 1, Revathy D/o. Venkitasamy 2, Venkitammal W/o. Ramureddiar 3. |
| | | | | 353/3 | Private | Dry | 735 | P. Veluchamy S/o. Palanichamy goundar 1, M. Palanichamy S/o. Muthuchamy 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|--------|----------|--|
| | | | | 353/4 | Private | Dry | 715 | P. Veluchamy S/o. Palanichamy goundar 1, M. Palanichamy S/o. Muthuchamy 2. |
| | | | | 354/2 | Private | Dry | 6050 | V. Nehru S/o. Venkitasamy 1, Revathy D/o. Venkitasamy 2. |
| | | | | 354/3 | Private | Dry | 5700 | P. Veluchamy 1, M. Palanichamy 2. |
| | | | | 354/4 | Private | Dry | 4670 | Ramakrishnan S/o. Subbareddiar |
| | | | | 355/2A1 | Private | Dry | 3815 | Veluchamy S/o. Chellappagoundar |
| | | | | 356/2 | Private | Dry | 1300 | Chellamuthu S/o. Muthusamy goundar |
| | | | | 356/3 | Private | Dry | 12 | Muthuraj S/o. Chellamuthu 1, Shanmugavel S/o. Sivasamygoundar 2. |
| | | | | 356/9 | Private | Dry | 1300 | S. Shanmugavel S/o. Sivasamygoundar |
| | | | | 534/3 | Private | Natham | 80 | Raman S/o. Mayan |
| | | | | 534/4 | Private | Natham | 32 | Azhagar S/o. Ayyampurumal |
| | | | | 534/5 | Private | Natham | 176 | S. Sekar S/o. Subramaniapillai |
| | | | | 534/14 | Private | Natham | 04 37 | Muthukkutti S/o. Solai |
| | | | | 534/15 | Private | Natham | 50 | Ramasamy 1, Muthukutti 2. |
| | | | | 534/17 | Private | Natham | 34 | Ramasamy sons Kannaiah 1, Paulchamy 2. |
| | | | | 534/18 | Private | Natham | 43 | M. Ayyakkannu |
| | | | | 534/19 | Private | Natham | 09 | Solai S/o. Vellaichamy |
| | | | | 534/38 | Private | Natham | 02 | Solai S/o. Vellaichamy |
| | | | | 534/39 | Private | Natham | 53 | M. Ayyakkannu |
| | | | | 534/40 | Private | Natham | 12 | Ramu S/o. Mayan |
| | | | | 536/15 | Private | Natham | 18 | Azhagu S/o. Solaimalai 1, Alagammal 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|---|
| | | | | 536/17 | Private | Natham | 43 | S. Muthuvel S/o. Swamynathan |
| | | | | 536/18 | Private | Natham | 131 | Poongodi W/o. Devaraj |
| | | | | 537/1 | Private | Natham | 193 | K. Mariyan S/o. KangaMoopar |
| | | | | 537/2 | Private | Natham | 155 | Thangammal W/o. Late. Sivalingam |
| | | | | 537/3 | Private | Natham | 110 | Pappathiammal W/o. Chinnarekkan |
| | | | | 537/4 | Private | Natham | 50 | Nallammal W/o. Muthuthevar |
| | | | | 537/5 | Private | Natham | 19 | Sivakumar S/o. Muthuthevar |
| | | | | 537/6 | Private | Natham | 17 | Muthukrishnan S/o. Muthuthevar |
| | | | | 537/7 | Private | Natham | 18 | M. Ravi S/o. Muthuthevar |
| | | | | 537/9 | Private | Natham | 90 | Periyasamy konar S/o. Vellaichamykonar |
| | | | | 537/10 | Private | Natham | 161 | Sivalingam sons Duraipandi 1, Moorthy 2, Kasi 3, Boomi 4. |
| | | | | 537/11 | Private | Dry | 06 | Chinniahkonar S/o. Periyasamy konar |
| | | | | 537/19 | Private | Natham | 145 | P. Soundararajan S/o. Periyasamy thevar |
| | | | | 537/20 | Private | Natham | 121 | P. Chandra D/o. Periyasamy thevar |
| | | | | 538/13 | Private | Natham | 117 | Paramasivam S/o. Kanthan |
| | | | | 538/28 | Private | Natham | 14 | Kathirvel S/o. Raman |
| | | | | 538/31 | Private | Natham | 90 | Pappammal W/o. Nagan 1, Raja S/o. Nagan 2. |
| | | | | 538/33 | Private | Natham | 47 | Ramanathan S/o. Muthu |
| | | | | 539/20 | Private | Natham | 94 | S. Gurusamy S/o. Seeniraja |
| | | | | 539/21 | Private | Natham | 72 | Chinnachamy S/o. Iyyar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|----|--|
| | | | | 539/22 | Private | Natham | 82 | V. Sonai S/o. Veluchamy 1, Veluchamy daughters Palaniammal 2, Packiam 3. |
| | | | | 540/1 | Private | Natham | 50 | Periyasamy |
| | | | | 540/3 | Private | Natham | 15 | Karuppayee W/o. Late. Vellaian |
| | | | | 540/5 | Private | Natham | 07 | Nagarajan S/o. Vellaian |
| | | | | 544/23 | Private | Natham | 45 | P. Ochathevar S/o. Pinnathevar |
| | | | | 544/25 | Private | Natham | 38 | Lakshmi W/o. Periyasamy |
| | | | | 544/28 | Private | Natham | 27 | Lakshmi W/o. Periyasamy |
| | | | | 544/30 | Private | Natham | 96 | Iyyar S/o. Chinnamuthu 1, Iyyankalai S/o. Late. Solaiappan 2. |
| | | | | 544/31 | Private | Natham | 86 | Iyyar S/o. Chinnamuthu 1, Iyyankalai S/o. Late. Solaiappan 2. |
| | | | | 544/33 | Private | Natham | 25 | Alagarsamy S/o. (Late) Solaimalai |
| | | | | 544/38 | Private | Natham | 26 | Kaliammal W/o. (Late) Veeranan |
| | | | | 544/39 | Private | Natham | 31 | Gnanamuthu S/o. Gurusamy |
| | | | | 544/40 | Private | Natham | 65 | S. Raju S/o. (Late) Seeni |
| | | | | 544/41 | Private | Natham | 29 | S. Muthammal |
| | | | | 545/2 | Private | Natham | 49 | Late. Chinnasamy sons Dharmaraj 1, Singaraj 2. |
| | | | | 545/3 | Private | Natham | 30 | Perumayee W/o. Late. Ramasamy |
| | | | | 545/6 | Private | Natham | 24 | Masilamani S/o. Ammasi |
| | | | | 545/9 | Private | Natham | 51 | Vellaichamy sons Ramachandran 1, Late. Ramalingam 2, Arichandran 3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------------------|--------------|--------|---------|--------|------|--|
| | | | | 545/12 | Private | Natham | 48 | Muniyandi S/o. Poochi |
| | | | | 545/13 | Private | Natham | 58 | Singaraj S/o. Chinnachamy |
| | | | | 545/14 | Private | Natham | 78 | Iyyar S/o. Komali |
| | | 2. Madurai North | Thenur I Bit | 7/1B | Private | Dry | 2725 | Thenur Thanneer Panthal Acting Manager |
| | | | | 8/1B1A | Private | Dry | 1080 | Sundararaj S/o. Poosari 1, Thiruvayee W/o. Poochi 2, Vettai S/o. Arumugam 3, Palaniammal D/o. Chellan 4, Chinnaiiah S/o. Raman 5, Panchavarnam W/o. Pandi 6, Pandi sons Bose 7, Mayandi 8, Murugan 9, Arumugam 10, Ganesan 11, Kannan 12, Pitchai 13, Panneerselvam S/o. Pitchai 14, Vellaianervai 15, Pambaiyan Asari 16, Villarservai 17, Javankinkan saibu 18, Seik ameer saibu 19, Raman sampan 20, S. Katharmaitheen S/o. S. Seik Ibrahim sahib 21. |
| | | | | 8/4A | Private | Dry | 130 | Iyyappan S/o. Veerapathiran |
| | | | | 9/5A1 | Private | Dry | 176 | Karuppanan S/o. Kathamuthuservai |
| | | | | 9/5A3 | Private | Dry | 24 | Dr. Parvathavarthi ni W/o. Kanagavel Manoharan |
| | | | | 9/5A4 | Private | Dry | 586 | Sangeetha D/o. S. Veerapathiran |
| | | | | 10/4A1 | Private | Dry | 40 | Abbas (Madurai) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 10/4A4 | Private | Dry | 136 | Rashiya Begam W/o. Mainoortheen |
| | | | | 11/2A | Private | Dry | 150 | Thenur Thanneer Panthal Acting Manager |
| | | | | 11/2B | Private | Dry | 50 | Thenur Thanneer Panthal Acting Manager |
| | | | | 13/1B1 | Private | Wet | 1860 | A. Piyari Begam W/o. Mohamed Sheriff 1, Musdak Alikan S/o. Makkiskan |
| | | | | 13/2 | Private | Wet | 35 | A. Piyari Begam W/o. Mohamed sheriff 1, Musdak Alikan S/o. Makkiskan |
| | | | | 13/5A1 | Private | Dry | 1940 | Abdul ajeekhan S/o. Mathinikan |
| | | | | 13/5A2 | Private | Dry | 520 | Latha W/o. Murugan |
| | | | | 13/5B | Private | Dry | 350 | Abdul ajeekhan S/o. Mathinikan |
| | | | | 15/2C3A | Private | Dry | 330 | R.Padmavathi 1, P.R.Saravanan 2. |
| | | | | 15/3 | Private | Dry | 470 | Balasarashwathi W/o. Mayandi |
| | | | | 15/4 | Private | Dry | 423 | R.Padmavathi |
| | | | | 16/1A2 | Private | Dry | 03 | Lakshmi W/o. Kannan |
| | | | | 16/2A1B | Private | Dry | 67 | Lakshmi W/o. Kannan |
| | | | | 16/2A1A | Private | Dry | 122 | L.Senthilkumar S/o. Lingasamy |
| | | | | 16/2A2 | Private | Dry | 176 | Sathiah servai S/o. Chidamparaseer vai |
| | | | | 17/1B | Private | Wet | 80 | Panneerselvam S/o. S.M.Natarajan 1, P.R.Saravanan 2. |
| | | | | 18/4 | Private | Wet | 70 | A.Usof sheriff 1, Kathar sheriff 2, Mohamed sheriff 3, Kaboor sheriff 4. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|------|--|
| | | | | 19/2 | Private | Wet | 1070 | Amarjothi D/o. Gopal 1, Goutham S/o. Kasinadar 2, Rameshbabu S/o. Venkatachala pathi 3. |
| | | | | 21/1A1 | Private | Wet | 200 | Thalaivar, Thenur Pallivasal |
| | | | | 21/4B | Private | Wet | 880 | Kajini Mohamed S/o. Samsudeen |
| | | | | 21/5A | Private | Wet | 510 | K.Naina Rowther |
| | | | | 22/1B | Private | Wet | 1465 | Sivagamiammal 1, P.Suguna 2, P.Stella 3, Emalda David 4, P.Arulraj 5, P.Paramasivam 6, M.Manoj 7, M.Jaffersait 8, Vanaja 9, K.Selvakumar 10, Marisabeevi 11, K.Marimuthu 12, M.S.Salim 13. |
| | | | | 22/2 | Private | Wet | 40 | P.Tharmar 1, V.Muthukrishnan 2. |
| | | | | 97/1 | Private | Dry | 735 | M/s. Sheelarani Textiles Limited. |
| | | | | 97/2 | Private | Dry | 115 | M/s. Sheelarani Textiles Limited. |
| | | | | 97/3 | Private | Dry | 02 | M/s. Sheelarani Textiles Limited. |
| | | | | 99/1 | Private | Dry | 1745 | M/s. Sheelarani Textiles Limited. |
| | | | | 99/2 | Private | Dry | 350 | M/s. Sheelarani Textiles Limited. |
| | | | | 99/3 | Private | Dry | 120 | M/s. Sheelarani Textiles Limited. |
| | | | | 99/4 | Private | Dry | 115 | M/s. Sheelarani Textiles Limited. |
| | | | | 100/8A | Private | Dry | 840 | S.Rajendran S/o. Shanmugasundar am pillai |
| | | | | 100/8B3 | Private | Dry | 25 | Méenalosani W/o. Karikalan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|----------|---------|--------|------|--|
| | | | | 100/8B1A | Private | Dry | 1185 | Arumugam S/o. Pandj 1, Muniammal W/o. Chellapandian 2, Sethu W/o. Ramaiah 3, J. Muniammal W/o. Jeyamani 4, Palchamy S/o. Arumugam 5, Vallimayil W/o. Palchamy 6, Kanthasamy S/o. Arumugam 7. |
| | | | | 102/3A | Private | Dry | 680 | Pethammal W/o. Ganesan |
| | | | | 102/3B | Private | Dry | 1010 | Pethammal W/o. Ganesan |
| | | | | 102/3C | Private | Dry | 1800 | Joseph Daniels Francis S/o. Joseph Anthoni Francis 1, Nansis Francis W/o. Joseph Daniels Francis |
| | | | | 102/4 | Private | Dry | 368 | Manimegalai W/o. Rajamani |
| | | | | 102/5 | Private | Dry | 310 | Mathurampal W/o. Ganapathi |
| | | | | 102/6 | Private | Dry | 320 | Muthulakshmi W/o. Govindarajan |
| | | | | 103 | Private | Dry | 1890 | East India Corporation, Thenur |
| | | | | 105/1B1 | Private | Dry | 1700 | Dhanasekaran S/o. Ramachandran |
| | | | | 105/1B5 | Private | Dry | 150 | T. Kamaraj |
| | | | | 105/3 | Private | Dry | 925 | K. Neela 1, K. Dhanam 2. |
| | | | | 108/1B | Private | Wet | 964 | Dhandeeswari W/o. Nedunchezhia Pandian |
| | | | | 119/1 | Private | Natham | 43 | R. Subbulakshmi |
| | | | | 119/2 | Private | Natham | 24 | Muthu W/o. Ganesan |
| | | | | 119/3 | Private | Natham | 25 | Ramaiahkonar S/o. Thiruvettaikonar |

1939707-15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 119/5 | Private | Natham | 52 | Meenatchiammal W/o. M. Karuppaiahkon ar |
| | | | | 127/8 | Private | Dry | 990 | M/s. Sheelarani Textiles Limited. |
| | | | | 134/1 | Private | Natham | 05 | Pitchaimanla mmal W/o. Late. Somasu ndaram chettiar 1, Sethuraman S/o. Late. Somasundar am chettiar 2, Late. Somasundar am chettiar daughters Saroja 3, Jeyalakshmi 4, Muthulakshmi 5. |
| | | | | 134/2 | Private | Natham | 26 | Sethuraman S/o. Late. Somasu ndaram chettiar |
| | | | | 134/3 | Private | Natham | 30 | Sabiya W/o. Babu |
| | | | | 134/4 | Private | Natham | 24 | Karupaiachchettiar sons K. Natarajan 1, K. Panneerselvam 2. |
| | | | | 134/5 | Private | Natham | 23 | Lakshmi W/o. Ramakrishnan |
| | | | | 134/6 | Private | Natham | 45 | Mumtaj |
| | | | | 134/7 | Private | Natham | 45 | Ramakrishnan S/o. Muthirulan |
| | | | | 134/8 | Private | Natham | 47 | Thiraviam S/o. Muthukrishnan chettiar |
| | | | | 134/9 | Private | Natham | 44 | Palchamy S/o. Muthukrishnan chettiar |
| | | | | 134/10 | Private | Natham | 103 | Veerapathiran S/o. Vellalanservai |
| | | | | 134/12 | Private | Natham | 35 | Karupayee W/o. Late. M. Narayana n |
| | | | | 134/14 | Private | Natham | 35 | Sundararajan S/o. Poosari |
| | | | | 134/15 | Private | Natham | 49 | Jeyaraman S/o. Chinnaiah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 134/17 | Private | Natham | 34 | Pitchai S/o. Periyasamy |
| | | | | 134/18 | Private | Natham | 59 | Bose S/o. Periyasamy |
| | | | | 134/19 | Private | Natham | 120 | Thiruvettaikonar S/o. Periyampillaikonar |
| | | | | 134/20 | Private | Natham | 101 | Arumugam S/o. Vettai |
| | | | | 134/21 | Private | Natham | 09 | Meenal W/o. Sevugan |
| | | | | 134/25 | Private | Natham | 65 | Sekar S/o. Sevugansampan |
| | | | | 134/27 | Private | Natham | 35 | Bhagavan sons Karupanan 1, Bhagavan 2, Pavi 3. |
| | | | | 134/30 | Private | Natham | 02 | Jeyaraman S/o. Chinnaiiah |
| | | | | 134/31 | Private | Natham | 98 | Azhagammal W/o. Periyasamy |
| | | | | 135/2 | Private | Natham | 60 | Raja S/o. Ponnaiah |
| | | | | 135/3 | Private | Natham | 80 | K.Perumal S/o. Karuthan |
| | | | | 136/2 | Private | Natham | 65 | Mookkanservai S/o. Irulappanservai 1, Murugan S/o. Mookkanservai 2. |
| | | | | 136/4 | Private | Natham | 111 | Chinnai. mal W/o. Sakkar: |
| | | | | 137/2 | Private | Natham | 74 | C.Periyakaruppat hevar daughters Melarkodi 1, Muthulakshmi 2, Pandi S/o. C Periyakaruppat hevar 3, P.Thalambooservai S/o Pampaanservai 4, Angammal W/o. Thalamboo 5. |
| | | | | 137/4 | Private | Natham | 85 | P.Thalambooservai S/o. Pampaanservai |
| | | | | 139/2 | Private | Natham | 80 | Manonmani W/o. Late.Marthandan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 139/4 | Private | Natham | 77 | M.Subbaiah 1, Shreethar S/o.Late.Marthan dan 2, Meenatchi 3, Lakshmi 4, Chandra 5. |
| | | | | 139/5 | Private | Natham | 63 | R.Valli |
| | | | | 139/7 | Private | Natham | 152 | Dhanalakshmi W/o. Muthuchamy |
| | | | | 139/8 | Private | Natham | 130 | Dhanalakshmi W/o. Muthuchamy |
| | | | | 139/9 | Private | Natham | 29 | Dhanalakshmi W/o. Muthuchamy |
| | | | | 140/1 | Private | Natham | 234 | Dhasarathan S/o. Vellaichamy |
| | | | | 140/2 | Private | Natham | 165 | Kanthasamy S/o. Sangaralingampillai |
| | | | | 140/3 | Private | Natham | 46 | P.Murugan S/o. Palaniyapillai 1, M.Selvi W/o. Murugan 2. |
| | | | | 142/2 | Private | Natham | 95 | Pechiammal |
| | | | | 142/3 | Private | Natham | 33 | Paramasamy S/o. Savarimalai |
| | | | | 142/4 | Private | Natham | 32 | Kannan S/o. Govindasampillai |
| | | | | 143/1 | Private | Natham | 79 | Seenithevar S/o. Otchathevar |
| | | | | 143/3 | Private | Natham | 239 | T.Loganathan 1, T.Ramalingam 2, Sundaraj 3, Karunanithi 4, Rajendran 5, Karmegam 6. |
| | | | | 143/5 | Private | Natham | 01 | S. Veeralakshmi mal |
| | | | | 143/6 | Private | Natham | 90 | Wilson S/o. Muthaiahnadar 1, V.Sumathi W/o. Wilson 2. |
| | | | | 143/9 | Private | Natham | 36 | Venkidasamy S/o. Alagarsamy |
| | | | | 143/10 | Private | Natham | 34 | N.Kanagavalli W/o. Late.P.Narayanan |
| | | | | 144/1 | Private | Natham | 106 | Chellappandi S/o. Muniyandi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---------|---------|--------|-----|---------------------------------|
| | | | | 144/5 | Private | Natham | 111 | Lakshmi W/o. Dharmarajan |
| | | | | 144/6 | Private | Natham | 70 | Otchukkalai S/o. Chinnathevar |
| | | | | 144/8 | Private | Natham | 01 | S.Natarajan |
| | | | | 146/2 | Private | Dry | 25 | Murugesan S/o. Pandikonar |
| | | | | 146/3B1 | Private | Wet | 95 | Vishwabharathi S/o. Ganesa Iyer |
| | | | | 146/14A | Private | Dry | 210 | Vishwabharathi S/o. Ganesa Iyer |

[F. No. NHAI/Tech/LA/BSM/Nagari 3(D) 5/2006]

P. S. RANA, Dy. Secy.